



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 24, 1991 (भाद्रपद 2, 1913)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 24, 1991 (BHADRA 2, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अरुहरों की नियुक्तियाँ, पदान्तातयाँ, छुट्टियाँ आदि से संबंधित-
अधिसूचनाएँ

[Notifications regarding: Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by
the Ministry of Defence,

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 1991

सं० 854, दिनांक 18 जुलाई 1991—राष्ट्रपति,
भारतीय प्रसाधित सेवा के अधिकारी श्री जे० एन० राणा
(गुंजरात 75) को गुंजरात से नगर से स्थानान्तरण होने
पर उन्हें 17 जुलाई 1991 (पूर्वाह्न) से 31-5-1996
अथवा अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो
रक्षा मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 855, दिनांक 19 जुलाई 1991—राष्ट्रपति,
भारतीय साख्यिकी सेवा के अधिकारी श्री जनार्दन सहाय
रक्षा मंत्रालय में उप मुख्य निदेशक खरद को 16 जुलाई
1991 के पूर्वाह्न से 31-5-1993 तक अथवा अगला आदेश
होने तक इनमें से जो भी पहले हो रक्षा मंत्रालय में निदेशक
के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 856, दिनांक 28 जून 1991—राष्ट्रपति,
श्री. के० पी० कमलाकरण को 28 जून 1991 से रक्षा मंत्री

श्री शरद पवार के मंत्री पद पर बर्तन रहने अथवा अगला
आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो 3000-4500
₹ के वेतनांतर में अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में
नियुक्त करते हैं।

सं० 857, दिनांक 15 जुलाई 1991—राष्ट्रपति,
श्री पी० आर० भागवत को 9 जुलाई 1991 के पूर्वाह्न से
3000-4500/- ₹ के वेतनांतर में रक्षा मंत्रालय के अपर
पद पर बने रहने तक अथवा अगला आदेश होने तक इनमें
से जो भी पहले हो रक्षा मंत्रालय (श्री शरद पवार) के
अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 858, दिनांक 4 जुलाई 1991—राष्ट्रपति,
रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिपिकित
अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखी अवधि
के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी

पहले ही, इस मंत्रालय में डेस्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं/उनकी नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं।

क्र. सं.	नाम	अवधि	
		से	तक
1.	श्री जी. डी. नांगल	1-7-1991	30-9-1991
2.	श्री मुक्ति सिंहल	1-7-1991	30-9-1991
3.	श्री यू. के. जिन्देल	1-7-1991	30-9-1991
4.	श्री राम कृष्ण	1-7-1991	30-9-1991
5.	श्री एस. पी. एस. सांघवान	1-7-1991	30-9-1991
6.	श्री एस. टी. विजयराघवन	1-7-1991	30-9-1991
7.	श्री प्रेम कुमार हंस	1-7-1991	30-9-1991
8.	श्री एस. एस. बेदी	1-7-1991	30-9-1991
9.	श्री डी. एन. कटारिया	1-7-1991	30-9-1991
10.	श्री डी. आर. मेहरा	1-7-1991	30-9-1991
11.	श्री जे. पी. गुप्ता	1-7-1991	30-9-1991
12.	श्री बी. के. कपूर	1-7-1991	30-9-1991
13.	श्री बीम प्रसाथ	1-7-1991	30-9-1991
14.	श्री दिलबाग सिंह	1-7-1991	30-9-1991
15.	श्री आर. एन. गुहा	1-7-1991	30-9-1991
16.	श्री बलराम वर्मा	17-6-1991	30-9-1991
	(पूर्वाह्न)		
17.	श्री सुमन के. शर्मा	21-6-1991	30-9-1991
	(पूर्वाह्न)		

सं. 859, दिनांक 2 जुलाई, 1991—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को इनके नाम के सामने लिखी अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले ही, रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं —

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अवधि	
		से	तक
1.	श्री एन. सी. एस. नेगी	18-7-1991	17-10-1991
			17-7-1991
			को एक दिन के व्यवधान सहित
2.	श्री के. एम. गोयल	12-7-1991	11-10-1991
			11-7-1991
			को एक दिन के व्यवधान सहित

1	2	3	4
3.	श्री शचीन्द्र वर्मा	17-7-1991	16-10-1991
			16-07-1991
			को एक दिन के व्यवधान सहित
4.	श्री देश राज शर्मा	15-7-1991	14-10-1991
			12, 13, और 14-7-1991
			को एक व्यवधान सहित।

उपरोक्त नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय में लवित भारत सरकार बनाम अमृत लाल एवं अन्य की विशेष इजाजत याचिका पर दिए जाने वाले निर्णय के अध्याघटन हैं।

सं. 860, दिनांक 22 जुलाई, 1991—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के रक्षा मंत्रालय के संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को, उनके नाम के सामने लिखी अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इसमें जो भी पहले ही, स्थानापन्न रूप से डेस्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	नाम	अवधि	
		से	तक
1.	श्री आर. एस. दूदानी	9-7-1991	30-9-1991
2.	श्री दीवान चन्द	10-7-1991	30-9-1991
3.	श्री बी. के. मेहता	9-7-1991	30-9-1991
4.	श्री ए. के. मदान	11-7-1991	30-9-1991
5.	श्रीमती शु. न्तला जैन	24-6-1991	30-9-1991
6.	श्री एस. के. देव	14-6-1991	30-9-1991

सं. 861 दिनांक 18 जुलाई, 1991—राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम अभियान में प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर श्री एस. के. सूई, निजी सचिव ने रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव (वेतनमान 2000-3500-र०) के पद का कार्यभार 15 जुलाई, 1991 के अतिरात से सम्भल लिया है।

सं. 862, दिनांक 27 जून, 1991—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के स्थायी ग्रेड "ग" आशुलिपिक, श्री एल. एस. फोतेदार, जो आजकल रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विलयित ग्रेड "क" एवं "ख" में स्थानापन्न क्षमता में कार्य कर रहे हैं, को नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विलयित ग्रेड "क" एवं "ख" (अब निजी सचिव-वेतनमान 2000-3500-र०) की वर्ष 1989 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उनका परीवरण एवं वन मंत्रालय में नामांकन होने पर उन्हें 1 जुलाई, 1991 (पूर्वाह्न) से इस मंत्रालय के कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

सं० 863, दिनांक 4 जुलाई, 1991—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के रक्षा मंत्रालय संवर्ग की स्थाई आशुलिपिक ग्रेड "ग" श्रीमती रीता मेहता को 1-7-1991 से 31-8-1991 तक अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर निजी सचिव (वेतनमान 2000-3500 रु०) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 864, दिनांक 29 जुलाई, 1991—भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारी श्री ए० पी० चोपड़ा, संयुक्त सचिव और अपर वित्त सलाहकार रक्षा मंत्रालय का नियत कार्यकाल/उन्हें दी गई छुट्टी के समाप्त होने पर श्री चोपड़ा को सेवानिवृत्त 1-8-1991 (पूर्वाह्न) से रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली की सौंपी जाती है।

गो० भी० वडवंडिगं,
अवर सचिव

सेना शाखा
नियमित सेना
स्थायी आयोग

(2/लै० के पद पर 16 दिसम्बर, 1989 से)

सं० 865, दिनांक 11 जून, 1991—सुनीत वीर सिंह (आई० सी०-49047 पी), इन्फैं० ज्येष्ठता, अश्वनी कुमार (आई० सी०-49046 एम), आर्टी के नीचे, विक्रम जीत कर्कर पाल (आई० सी०-49052 ए), ए० सी० ज्येष्ठता, संजय कुमार पाण्डे (आई० सी०-49051 एक्स) आर्टी के नीचे, पंकज भार्गव (आई० सी०-49112 के), इन्जीनियर्स ज्येष्ठता, संजय कुमार दहिया (आई० सी०-49111 एफ), ई० एम० ई० के नीचे, सुरेन्द्र सिंह गोसाई (आई० सी०-49173 एफ), ए० एस० सी० ज्येष्ठता मोहिन्द्र पाल सिंह (आई० सी० 49172 वाई), इन्फैं० के नीचे, अमिन्द आचार्य (आई० सी०-49190 एफ), आर्टी० ज्येष्ठता मनीश धवन (आई० सी०-49191 के), ए० एस० सी० के ऊपर, सत चित हेमन्त हुसबनीस (आई० सी०-49203 एन), आर्टी० ज्येष्ठता विक्रम शोधा (आई० सी०-49202 एल), इन्फैं० के नीचे, जौहन मैथ्यू (आई० सी०-49277 एच), आर्टी० ज्येष्ठता संदीप नैन (आई० सी०-49278 एल), आर्टी० के ऊपर, सुनील नायर (आई० सी०-49283 डब्ल्यू) ए० एस० सी० ज्येष्ठता विरेन्द्र सिंह हुडल (आई० सी०-49282 एन) के नीचे, सुधाकर त्यागी (आई० सी०-49293 ए), आर्टी० ज्येष्ठता अजय उनियाल (आई० सी०-49292 एक्स) इन्जीनियर्स के नीचे, शबीब हैदर नाडवी (आई० सी०-49308 ईक्स), इन्फैं० ज्येष्ठता संजय खन्ना (आई० सी०-49310 पी), इन्फैं० के ऊपर, संजय सिंह ठाकुर (आई० सी०-

49327 एच), इन्फैं० ज्येष्ठता त्रिलोचन साहनी (आई० सी०-49326 ए), इन्फैं० के नीचे, जिनके नाम भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना में 8 सितम्बर, 1990 और 24 नवम्बर, 1990 में प्रकाशित हुए।

बी० के० जैन,
मेजर, स्थानापन्न सहायक सेना सचिव (आई० सी०)

(क्यू० एम० जी० शाखा)

सं० 866, दिनांक 25 अप्रैल, 1991—सशस्त्र सेना सिविल सेवा नियम 1968 के नियम 10(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से 14-4-1991 तक या नियमित पदधारियों के मिलने में से जो भी पहले हो उस समय तक संग्रह सेना मुख्यालय सिविल सेवा में स्थानान्तरण सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं :—

1. श्री रामजी लाल—15-10-1990
2. श्री के० सिद्धार्थम—15-10-1990
3. श्री कोमल सिंह—17-10-1990
4. श्री जे० आर० गौयल—15-10-1990
5. श्री मुकुन्दी लाल—15-10-1990
6. श्री जगदेव सिंह—15-10-1990
7. श्री आर० एस० खरण—15-10-1990
8. श्रीमती टी० गांगटे—15-10-1990
9. श्रीमती सदेशना बुप्ता—15-10-1990
10. श्री मैथ्यू एस० अज़ीहम—15-10-1990

2. ये नियुक्तियां पूर्ण रूप से अन्तः कालीन व्यवस्था के आधार पर हैं और इन्हें प्रशासनिक कारणों या नियमित पदधारियों के उपलब्धी के फलस्वरूप बिना नोटिस दिए रद्द की जा सकती हैं।

एस० लोचनसिंह,
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं० 867, दिनांक 3 जुलाई, 1991—राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन

2/लिफ्टनेंट बनाया जाता है (परब पर)

शुंगवरप्पू श्रीनिवास (टी० ए०-42086), इन्जीनियर्स
—20 जनवरी, 1991।

रवि एस० इरुल्लै,
डेटक अधिकारी

(कार्यालय महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा)

सं 868, दिनांक 15 जुलाई, 1991—राष्ट्रपति, सहर्ष, श्री डी० एस० दुबे को 19 जन, 1991 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक, मानकीकरण निदेशालय में, भंडार अधिकारी (अवैतनिक) के पद पर नियुक्त करते हैं। वे दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

जे० डी० पाल,
कर्नल, ए० डी० जी० (योजना)

सेना विभाग

(सैनिक अभियन्ता सेवाएँ)

सं 869, दिनांक 10 जुलाई, 1991—इन्जीनियर इन चीफ निम्नलिखित आफिस सुपरिटेन्डेंट्स ग्रेड-1 को उनके नामों के सामने लिखि हुई तिथियों से अगले आदेश तक ऐडम आफिसर ग्रेड-II के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। अधिकारीगण दो वर्ष के लिए परखावधि पर रहेंगे —

(क) एम० ई० एस०-237040, श्री अमरेश चन्द्र भट्टाचार्य—26 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न)।

(ख) एम० ई० एस०-210019, श्री सुनील कुमार गंगोली—5 अक्टूबर, 1990 (पूर्वाह्न)।

(ग) एम० ई० एस०-303191, श्री मुन्शी राम—11 दिसम्बर, 1990 (पूर्वाह्न)।

(घ) एम० ई० एस०-302456 श्री मनोहर लाल कालरा—5 फरवरी, 1991 (पूर्वाह्न)।

(ण) एम० ई० एस०-460082 श्री कनवाल शील जैन—5 अप्रैल, 1991 (पूर्वाह्न)।

(त) एम० ई० एस०-8464696, श्री जे० एस० कपूर—16 अप्रैल, 1991 (पूर्वाह्न)।

सं 870, दिनांक 10 जुलाई, 1991—इन्जीनियर इन चीफ निम्नलिखित सुपरिटेन्डेंट भवन / सडक ग्रेड-I को उनके नामों के सामने लिखि हुई तिथियों से अगले आदेश तक सहायक अभियन्ता के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। अधिकारीगण दो वर्ष के लिए परखावधि पर रहेंगे —

(क) एम० ई० एस०-127570, श्री वी० चिक्कापुटाय्य—23 जनवरी, 1991 (पूर्वाह्न)।

(ख) एम० ई० एस०-436488, श्री एस० एस० दुबे—24 नवम्बर, 1990 (पूर्वाह्न)।

(ग) एम० ई० एस०-408264 श्री एस० सिन्धवानी—21 नवम्बर, 1990 (पूर्वाह्न)।

(घ) एम० ई० एस०-440091, श्री के० के० गुप्ता—18 नवम्बर, 1990 (पूर्वाह्न)।

(ङ) एम० ई० एस०-435383, श्री वी० वी० गुप्ता—18 मार्च, 1991 (पूर्वाह्न)।

(च) एम० ई० एस०-440077, श्री एस० एम० एन० गोस्वामी—25 फरवरी, 1991 (पूर्वाह्न)।

(छ) एम० ई० एस०-440085, श्री एन० सी० पान्डे—18 जनवरी, 1991 (पूर्वाह्न)।

(ज) एम० ई० एस०-181085, श्री वी० अशोक वर्मा—6 मार्च, 1991 (पूर्वाह्न)।

(झ) एम० ई० एस०-148046 श्री एम० पी० कृष्णा—19 दिसम्बर, 1990 (पूर्वाह्न)।

सं 871, दिनांक 10 जुलाई 1991—इन्जीनियर इन चीफ निम्नलिखित सुपरिटेन्डेंट विद्युत/मकैनिक् को उनके नामों के सामने लिखि हुई तिथियों से अगले आदेश तक सहायक अभियन्ता के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। अधिकारीगण दो वर्ष के लिए परखावधि पर रहेंगे —

(क) एम० ई० एस०-06333 श्री डी० मजूमदार—24 दिसम्बर 1990 (पूर्वाह्न)।

(ख) एम० ई० एस०-470011 श्री राजेन्द्र सिंह—15 नवम्बर 1990 (पूर्वाह्न)।

(ग) एम० ई० एस०-447592 श्री देवेन्द्र पान सिंह—12 नवम्बर 1990 (पूर्वाह्न)।

(घ) एम० ई० एस०-440291 श्री ओम प्रकाश सक्सना—14 दिसम्बर 1990 (पूर्वाह्न)।

एस० कपूर
कर्नल निदेशक पर्स "बी"

सं 872, दिनांक 29 जुलाई 1991—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं —

नियुक्ति

सेना सेवा को

(धर्म शिक्ष)

नायब सूबेदार करैण में

श्री पाल देवाल पर (अब जे० सी०-206459 एम) —17 दिसम्बर 1990।

सुरेश चन्द्र महता (अब जे० सी०-206460 एम) —17 दिसम्बर 1990।

ब्रजेश कुमार (अब जे० सी०-206461 के) —18 अप्रैल, 1991।

नरोत्तम त्रिपाठी (अब जे० सी०-206462 एम) —15 अप्रैल, 1991।

प्रकाश चन्द
अवर सूचिव

(थल सेना विभाग)

सं. 873, दिनांक 3 जून, 1991--राष्ट्रपति, निम्न-
लिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक शिक्षा कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार आजाद सिंह (सं. 9506423 ए अब जे.
सी०--)—19 मार्च, 1991 ।*

हवलदार सरब मोहन सिंह (सं. 9506429 एफ
अब जे० सी०--)—24 जनवरी, 1991 ।*

हवलदार भोजराज सिंह (सं. 9506450 के अब
जे० सी०--)—30 मार्च, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से
दी जायेगी) ।

हवलदार किशन लाज यादव (सं. 9506514 के अब
जे० सी०--)—27 मार्च, 1991 ।**

हवलदार विनोद कुमार (सं. 9506479 एम अब
जे० सी०--)—14 मार्च, 1991 ।**

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 9506472 एच अब जे०
सी०--)—5 मार्च, 1991 ।**

हवलदार यज्ञ पाल (सं. 9506502 पी अब जे०
सी०--)—21 मार्च, 1991 ।**

हवलदार तिलक राज (सं. 9506554 एल अब
जे० सी०--)—23 मार्च, 1991 ।**

हवलदार तपन कुमार पाल (सं. 9506565 एक्स अब
जे० सी०--)—23 मार्च, 1991 ।**

हवलदार साधन कुमार चक्रवर्ती (सं. 9506575 एफ
अब जे० सी०--)—30 मार्च, 1991 ।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से
दी जायेगी) ।

हवलदार अमृत लाल हुल (सं. 9506589 एफ अब
जे० सी०--)—23 मार्च, 1991 ।***

हवलदार सुमेर सिंह (सं. 9506590 डब्ल्यू अब
जे० सी०--)—1 मार्च, 1991 ।

हवलदार लखमी चन्द डैरोलिया (सं. 9506597 ए
अब जे० सी०--)—11 मार्च, 1991 ।***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से
दी जायेगी) ।

हवलदार गुरमुख सिंह अजराह (सं. 9506598 ए च
अब जे० सी०--)—5 अप्रैल, 1991 ।***

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 9506603 एच अब जे०
सी०--)—13 अप्रैल, 1991 ।***

हवलदार एन० के० शान्ताकुमार (सं. 9506606 डब्ल्यू
अब जे० सी०--)—21 मार्च 1991 ।***

हवलदार राम किशन सुहाग (सं. 9506608 एफ अब
जे० सी०--)—6 अप्रैल, 1991 ।***

हवलदार पोखर मल रहेला (सं. 9506610 वाई अब
जे० सी०--)—14 मार्च, 1991 ।***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से
दी जायेगी) ।

हवलदार रामेश्वर दास सैनी (सं. 9506630 एम अब
जे० सी०--)—1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार दिवाकर चौबे (सं. 9506655 वाई अब
जे० सी०--)—1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार पद्मनाभन आशाकिन्डियल (सं. 9506683
एल अब जे० सी०--)—1 अप्रैल, 1991 ।

एम० एल० सहोत्रा,
अवर सचिव

सं. 874 दिनांक 29 जुलाई, 1991--राष्ट्रपति,
निम्नलिखित पदोन्नतियां करके प्रसन्नचित होते हैं --

नियमित सेना

विद्युत और यांत्रिक इन्जिनियर कोर

सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार धानेश्वर गोगोइ (जे० सी०--144430
वाई)—1 सितम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार मथाइ एम० टी० (जे० सी०--144437
एच)—1 नवम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार चन्दर भान (जे० सी०--144488 वाई
—1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार शराफतुल्ला (जे० सी०--146337
डब्ल्यू)—1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी०--146338
वाई)—1 दिसम्बर 1990 ।

नायब सूबेदार जनार्धन तिवारी (जे० सी०--146339
एन)—1 दिसम्बर 1990 ।

नायब सूबेदार चन्द्रसेखरन (जे० सी०--146340 डब्ल्यू)
1 दिसम्बर 1990 ।

नायब सूबेदार राम लछमन राम (जे० सी०-146341 वाई)—1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार बलबन्त सिंह रावत (जे० सी०-146342 एफ)—1 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार देस राज शर्मा (जे० सी०-146905 डब्ल्यू)—1 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार राम कन्वर (जे० सी०-147981 पी)—1 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार कर्म सिंह चौधरी (जे० सी०-147982 एक्स)—1 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार मनोहर लाल दत्ता (जे० सी०-149636 ए)—1 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार दीनानाथ सिंह (जे० सी०-146908 के)—1 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार सन्त राम सक्सेना (जे० सी०-146909 एम)—1 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार देवी लाल शर्मा (जे० सी०-149851 एल)—1 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी०-146910 एफ)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार शिव चन्द (जे० सी०-149635 एक्स)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार जगदीश चन्द्र जोशी (जे० सी०-147984 एच)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार देव नारायण महतो (जे० सी०-146914 एक्स)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार राम नारायण भारद्वाज (जे० सी०-146915 ए)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार धन्ना लाल लुनिया (जे० सी०-146916 एच)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार चन्द्रिका राय (जे० सी०-147985 एल)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार त्रिलोकी नाथ (जे० सी०-134897 डब्ल्यू)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार गयान चन्द निराला (जे० सी०-147986 एन)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार गोपाल सिंह रातौर (जे० सी०-146918 एल)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जे० सी०-147988 के)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह भुल्लर (जे० सी०-149637 एच)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार नीरू राम (जे० सी०-149852 एन)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार मगोनम देव सुरलकर (जे० सी०-149640 एच)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार धर्म चन्द तेहरो (जे० सी०-153367 डब्ल्यू)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार प्रभु सिंह शेखावत (जे० सी०-153370 डब्ल्यू)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार रामजी लाल शिवहर (जे० सी०-155241 पी)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश पाठक (जे० सी०-154073 पी)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार मोहम्मद नजीब रैहमान (जे० सी०-155242 एक्स)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार अंगद सिंह (जे० सी०-155244 एच)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार अघुसुधन भोइ (जे० सी०-155245 एल)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार बंसी राम राना (जे० सी०-155246 एम)—1 मार्च, 1991 ।

सूबेदार एस० के० टैंक के रैंक में

नायब सूबेदार बालगोपालन नन्बियार कन्नोट कुटियेटन (जे० सी०-162661 एक्स)—1 नवम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार श्री राम (जे० सी०-162662 ए)—1 नवम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार मनबाग सिंह बिस्त (जे० सी०-163782 एफ)—1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार दीदार सिंह (जे० सी०-163786 एफ)—1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार श्री निवास त्रिपाठी (जे० सी०-166457 डब्ल्यू)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र बिस्वास (जे० सी०-163787 के)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार धिरेन्द्र नाथ पाल (जे० सी०-163789 ए)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जे० सी०-164166 एक्स)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार कामेश्वर नाथ उपाध्याय (जे० सी०-134955 पी)—1 मार्च, 1991 ।

सूबेदार आरमर के रैंक में

नायब सूबेदार चित्रप्पा राजरत्तनम (जे० सी०-165896 पी)—1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार हीरा राम (जे० सी०-169072 के)
--1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार स्वरूप सिंह रन्धावा (जे० सी०-169075
एक्स)--1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार प्रीतम दास (जे० सी०-170889 एच)
--1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार गोरनिताइ शर्मा (जे० सी०-170890
एक्स)--1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार के० ओ० फिलिप (जे० सी०-170892
एच)--1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार मल्कीत सिंह (जे० सी०-170893 एल)
--1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार गिराज सिंह (जे० सी०-170833
डब्ल्यू)--1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार सुख देव सिंह (जे० सी०-170792
एक्स)--1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार राम बिनय सिंह (जे० सी०-170793
ए)--1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार विशन सिंह (जे० सी०-170794
एच)--1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार दत्ता जादव (जे० सी०-170835
एफ)--1 मार्च, 1991 ।

सूबेदार रिक्वरी मेकेनिक के रैंक में

नायब सूबेदार दलीप चन्द (जे० सी०-177604 एन)
--1 सितम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार रोशन लाल (जे० सी०-179113
डब्ल्यू)--1 अक्टूबर, 1990 ।

नायब सूबेदार इन्दर सिंह (जे० सी०-179115 एफ)
--1 नवम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार बनवारी लाल (जे० सी०-179119
एक्स)--1 नवम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार उन्दर जित्त (जे० सी०-179123 ए)
--1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जे० सी०-189347 एन)
--1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार गिरनंद सिंह (जे० सी०-179127
डब्ल्यू)--1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार मदन लाल (जे० सी०-179128 वाई)
--1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार सरदार सिंह (जे० सी०-179129 एफ)
--1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार सरदारा राम (जे० सी०-179130
डब्ल्यू)--1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार वेद राम (जे० सी०-184205 एम)
--1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जे० सी०-181173 के)--
1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार शंकर दास (जे० सी०-181174 एम)
--1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार तारा सिंह (जे० सी०-182438 पी)
--1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार महावीर प्रसाद यादव (जे० सी०-
187872 एल)--1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार किशन सिंह (जे० सी०-187873 एक्स)
--1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-182365
एम)--1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार शाम लाल (जे० सी०-181178 एच)
--1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार धर्म पाल (जे० सी०-181177 एल)
--1 मार्च, 1991 ।

सूबेदार आरटीजन (एन० ई०) के रैंक में

नायब सूबेदार परशोत्तम सिंह (जे० सी०-167747 ए)
--1 अक्टूबर, 1990 ।

नायब सूबेदार अतर सिंह (जे० सी०-167847 एल)
--1 नवम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार शंकर सिंह (जे० सी०-169095 एल)
--1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार राजेन्द्र मोक्तान (जे० सी०-170897
एफ)--1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार राम बहादुर तापा (जे० सी०-170807
एफ)--1 दिसम्बर 1990 ।

नायब सूबेदार राम गोपाल (जे० सी०-170803 वाई)
--1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार ननी गोपाल बासु (जे० सी०-170840
एम)--1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार जय करन (जे० सी०-170841 पी)--
1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार साहिब दीन (जे० सी०-170842 के)
--1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार गंगा प्रसाद पाण्डे (जे० सी०-174409
--एल) 01 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार गौरी शंकर (जे० सी०-172490
एच)--1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार कलना कान्त बस्वा (जे० सी०-172491 एम)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार भीम राव सावन्त (जे० सी०-174399 एम)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार भगवान सिंह नेगी (जे० सी०-174400 डब्ल्यू)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार राम स्वरूप (जे० सी०-174411 एच)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार भ्रम दास (जे० सी०-174403 के)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार कमलाकान्त दास (जे० सी०-174404 एम)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार सुखराम सिंह (जे० सी०-174405 पी)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार सोनी लाल (जे० सी०-176949 एच)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार शाम राव शिन्दे (जे० सी०-176927 के)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार इन्दर सिंह करकी (जे० सी०-177596 ए)—1 मार्च, 1991 ।

एस० के० राय,
अवर सचिव

सं० 875 दिनांक 26 जुलाई, 1991—राष्ट्रपति
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कौर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार ज्ञान सिंह राणा (जे० सी०-96711 पी)—
1 मार्च, 1991 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार नाहर सिंह (जे० सी०-109504 के)—
1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार अर्जन सिंह (जे० सी०-95199 पी)—
1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार विजय कुमार दुबे (जे० सी०-122146 एच)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार दीदार सिंह (जे० सी०-91971 डब्ल्यू)—
1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार गोपाल सिंह प्रधान (जे० सी०-94196 पी)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जे० सी०-96217 वाई)—
1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार जिया सिंह (जे० सी०-19589-एल)—
1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार गुरदयाल सिंह यादव (जे० सी०-
87615 वाई)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार गणेश बहादुर थापा (जे० सी०-60578 एम)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार रोहताश (जे० सी०-130173 एफ)—
1 अप्रैल, 1991 ।

नायब सूबेदार मोहम्मद अमानतुल्ला अन्सारी (जे०
सी०-130154 डब्ल्यू)—1 अप्रैल, 1991 ।

नायब सूबेदार इन्दर सिंह (जे० सी०-77368 एच)—
1 अप्रैल, 1991 ।

नायब सूबेदार पी० के० बाला नाम्बोयर (जे० सी०-
82520 पी)—1 अप्रैल, 1991 ।

तोपखाना रेजिमेंट

सब्सटेंटिव सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार भाग्यश राजैय्या (जे० सी०-143229 एफ)—1 मार्च, 1990 ।

नायब सूबेदार महावीर सिंह यादवा (जे० सी०-153190 एन)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार पुत्युक्कदन कन्नोथ पुरुषोत्थमन नम्बीयार
(जे० सी०-143150 वाई)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार लक्ष्मन राव (जे० सी०-186499 के)—
1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार राज मल (जे० सी०-176203 एम)—
1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार कांबले गंगाराम बालु (जे० सी०-
187563 एच)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार श्री राम (जे० सी०-162497 ए)—
1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार मोहन श्याम सिंह (जे० सी०-150418 एन)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार ओम पाल सिंह (जे० सी०-150417 एल)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार घीसा राम (जे० सी०-157605 पी)—
1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार दुलारे सिंह (जे० सी०-175264 एक्स)—
1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी०-176266 पी)
—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार राम निवास यादव (जे० सी०-182012 एन)
—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार राजन के० एन० (जे० सी०-177850 वाई)
—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार कृष्णा राम (जे० सी०-182060 एन)
—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार सुरेश चन्द्रा (जे० सी०-197463 एल)
—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार नरेन्द्रा सिंह चन्द (जे० सी०-148072 डब्ल्यू)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार ईन्द्र बहादुर गुरंग (जे० सी०-176254 ए)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार पूर्ण बहादुर राय (जे० सी०-180398 ए)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार बाल बहादुर आले (जे० सी०-167766 एल)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार कुलदिप सिंह (जे० सी०-182126 वाई)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार शरीफ खान (जे० सी०-182127 एफ)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जे० सी०-180429 पी)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार तारा चंद्र (जे० सी०-186691 एन)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार वेंकटा कृष्णाराव बाका (जे० सी०-190706 एच)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार कईपील्ले रामन मोहनन (जे० सी०-190683 एम)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार रिशीपाल (जे० सी०-168248 एक्स)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार वेनुगोपालन पी० एस० (जे० सी०-175282 ए)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार करजंगे महादेव (जे० सी०-177842 ए)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार चौधुरे विशोबा बाबु (जे० सी०-177843 एच)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार बाल क्रिशन गौतम (जे० सी०-179633 एफ)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जे० सी०-171111 डब्ल्यू)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार मांगे राम मलीक (जे० सी०-176784 पी)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार गोर्धन (जे० सी०-176789 एम)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार क्रिशन पाल सिंह (जे० सी०-184649 डब्ल्यू)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार पी० शेखर (जे० सी०-190651 के)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार सुखपाल सिंह (जे० सी०-173326 एन)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार कारखिले नत्थु (जे० सी०-157490 एम)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार गोकल सिंह (जे० सी०-193399 एफ)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार जुगल सिंह (जे० सी०-167750 ए)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार इन्दर सिंह (जे० सी०-175244 के)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जे० सी०-184593 पी)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जे० सी०-190577 एन)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार राम निवास (जे० सी०-182020 एम)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार अनुराधा तिवारी (जे० सी०-174141 वाई)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार याद राम (जे० सी०-162997 एक्स)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार राम अवतार यादव (जे० सी०-152724 एफ)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार मोहन लाल जाट (जे० सी०-174155 वाई)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार वेंकटेश्वरलु जैती (जे० सी०-176595 एल)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार फूलीक्स फरनांडीस (जे० सी०-180467 एल)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार वी० कृष्णा मुर्थी (जे० सी०-181992 एन)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार महेश चंद्र यादव (जे० सी०-182113 एफ)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार करन सिंह (जे० सी०-164566 ए)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार वी० सीनिवासन (जे० सी०-195008 के)
—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार भंवर सिंह राजपूत (जे० सी०-127008 एल)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार अमरनाथ यादव (जे० सी०-134740 डब्ल्यू)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार पान सिंह बिष्ट (जे० सी०-138367 वाई)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार राजागोपालन सुंदरापलु (जे० सी०-139438 वाई)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जे० सी०-141009 वाई)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह यादव (जे० सी०-148075 के)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार शिव कुमार थापा (जे० सी०-149880 ए)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार मदरीरा सुबैय्या मुत्थरपा (जे० सी०-151863 वाई)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार बाडमेश्वर सिंह (जे० सी०-153418 वाई)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार जगदिश चन्दर (जे० सी०-157468 एफ)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार राम सरन सिंह (जे० सी०-163839 पी)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार सती राम (जे० सी०-160637 एच)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जे० सी०-159364 वाई)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार कुंवर सिंह (जे० सी०-166987 एल)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार राम सिंह (जे० सी०-168245 के)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार शंकर राव दगडु पंके (जे० सी०-167382 एन)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार सतवंत सिंह (जे० सी०-169890 एल)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार मामीदी अप्पा राव (जे० सी०-169746 डब्ल्यू)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार सदानंदन टी० (जे० सी०-169673 पी)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार दुर्गा राम (जे० सी०-171017 एम)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार देवचंद (जे० सी०-170910 ए)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार लेख बहादुर थापा (जे० सी०-174162 पी)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार अजब सिंह (जे० सी०-169926 वाई)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार श्रीलुवान एलुमलाई (जे० सी०-173303 एम)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार राम प्रवेश तिवारी (जे० सी०-173306 ए)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जे० सी०-171437 एम)—1 मार्च, 1991 ।

पायनियर कोर

सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) अहिबदन सिंह (जे० सी०-174274 पी)—1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) परस राम (जे० सी०-174275 एक्स)—1 मई, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) आनन्द सिंह रावत (जे० सी०-174276 ए)—1 जून, 1991 ।

नियमित सेना

विशेष सूची

तोपखाना रेजिमेंट

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के पद में

नारेश कुमार शर्मा (जे० सी०-206463 पी)—13 अप्रैल, 1991 ।

दिनेश चन्द बियास (जे० सी०-206464 एक्स)—13 अप्रैल, 1991 ।

जय प्रकाश शर्मा (जे० सी०-206465 ए)—13 अप्रैल, 1991 ।

कोर ऑफ सिगनल्स

सूबेदार (वाई० ऑफ एस०) के रैंक में

नायब सूबेदार बबन नोकम (जे० सी०-133071 डब्ल्यू)—1 मई, 1991 ।

नायब सूबेदार महाबीर सिंह सांगवान (जे० सी०-133073 एफ)—1 मई, 1991 ।

नायब सूबेदार तेज नारायण सिंह (जे० सी०-133074 के)—1 मई, 1991 ।

नायब सूबेदार परशोतम सिंह (जे० सी०-133075 एम)—1 मई, 1991 ।

सूबेदार (एफ० ऑफ एस०) के रैंक में

नायब सूबेदार विश्वलिंगम सुदरमनी (जे० सी०-141124 वाई)—1 मई, 1991 ।

- नायब सूबेदार हरदियाल सिंह (जे० सी०-141125 एफ)—1 मई 1991 ।
 सूबेदार (ओ० पी० साईफर) के रैंक में
 नायब सूबेदार ध्यान सिंह शास (जे० सी०-153912 पी)—1 दिसम्बर 1990 ।
 नायब सूबेदार जोगीन्दर सिंह चौधरी (जे० सी०-153929 एच)—1 दिसम्बर 1990 ।
 नायब सूबेदार गोविन्दन नायर पीकेजी (जे० सी०-165755 ए)—1 मई 1991 ।
 नायब सूबेदार दया धर (जे० सी०-166311 एच)—1 मई 1991 ।
 नायब सूबेदार राधे श्याम (जे० सी०-166312 एल)—1 मई 1991 ।
 नायब सूबेदार एस० एन० चौधरी (जे० सी०-168136 एक्स)—1 मई 1991 ।
 नायब सूबेदार मनमाधन के० के० (जे० सी०-166549 एच)—1 मई 1991 ।
 सूबेदार (ओ० पी० स्पेशल) के रैंक में
 नायब सूबेदार राम चन्द्र मिश्रा (जे० सी०-161138 ए)—1 मई 1991 ।
 नायब सूबेदार कमल कान्ति सेनगुप्ता (जे० सी०-161139 एच)—1 मई 1991 ।
 नायब सूबेदार नवल किशोर पटेल (जे० सी०-161140 एक्स)—1 मई 1991 ।
 सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में
 नायब सूबेदार बनवारी लाल यादव (जे० सी०-150259 एफ)—1 दिसम्बर 1990 ।
 नायब सूबेदार राम सिंह (जे० सी०-158140 एम)—1 मई 1991 ।
 नायब सूबेदार मीनाक्षी सुन्दर सनमुगम (जे० सी०-158141 पी)—1 मई 1991 ।
 नायब सूबेदार हेत राम (जे० सी०-157064 वाई)—1 मई 1991 ।
 सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में
 नायब सूबेदार श्री भगवान सिंह (जे० सी०-158162 एल)—1 अगस्त 1990 ।
 नायब सूबेदार कृष्णा पिल्लई विजयन नायर (जे० सी०-158702 वाई)—1 नवम्बर 1990 ।
 नायब सूबेदार प्यारा राम (जे० सी०-158730 एल)—1 नवम्बर 1990 ।
 नायब सूबेदार पुरन बहादुर गुहंग (जे० सी०-198743 एच)—1 दिसम्बर 1999 ।
- नायब सूबेदार भूप सिंह (जे० सी०-161249 एक्स)—1 जनवरी 1991 ।
 नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-161264 एम)—1 जनवरी 1991 ।
 नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह (जे० सी०-161265 पी)—1 जनवरी 1991 ।
 नायब सूबेदार राम बाबु शर्मा (जे० सी०-161267 ए)—1 जनवरी 1991 ।
 नायब सूबेदार जय मंगल प्रसाद साहु (जे० सी०-161271 एच)—1 जनवरी 1991 ।
 नायब सूबेदार धरम सिंह (जे० सी०-161279 पी)—1 जनवरी 1991 ।
 नायब सूबेदार लतीफ शैयद मोहम्मद (जे० सी०-162541 वाई)—1 जनवरी 1991 ।
 नायब सूबेदार कैलाश चन्द (जे० सी०-162553 एन)—1 फरवरी 1991 ।
 नायब सूबेदार भीरु सिंह राठौर (जे० सी०-162567 एन)—1 फरवरी 1991 ।
 नायब सूबेदार कन्सी राम (जे० सी०-162582 एच) 1 फरवरी 1991 ।
 नायब सूबेदार हरी कृष्ण (जे० सी०-162590 एफ)—1 फरवरी 1991 ।
 नायब सूबेदार मुख्तियार सिंह (जे० सी०-162593 पी)—1 मार्च 1991 ।
 नायब सूबेदार जुगल किशोर (जे० सी०-162594 एक्स)—1 मार्च 1991 ।
 नायब सूबेदार उमा पति (जे० सी०-162593 ए)—1 मार्च 1991 ।
 नायब सूबेदार गोकुल सिंह (जे० सी०-162601 एच)—1 मार्च 1991 ।
 नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-162604 डब्ल्यू)—1 मार्च 1991 ।
 नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-162605 वाई)—1 मार्च 1991 ।
 नायब सूबेदार मुख बिलास साहु (जे० सी०-162607 के), 01 मार्च 1991 ।
 नायब सूबेदार उजागीर राम (जे० सी०-162609 पी), 01 मार्च 1991 ।
 नायब सूबेदार सोहन सिंह (जे० सी०-162615 एच), 01 मार्च 1991 ।

- नायब सूबेदार ओमबीर सिंह (जे० सी-162619 वाई),—
01 मार्च 1991 ।
- नायब सूबेदार करनैल सिंह (जे० सी-162628 ए),—
01 मार्च 1991 ।
- नायब सूबेदार सुरत सिंह (जे० सी-162615 एम),—
01 मार्च 1991 ।
- नायब सूबेदार वेन्कटप्पा मुनीस्वामी (जे० सी-
162741 पी),—01 अप्रैल 1991 ।
- नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी-162756 एक्स),—
01 अप्रैल 1991 ।
- नायब सूबेदार रामायण प्रताप सिंह (जे० सी-162762
एल),—01 अप्रैल 1991 ।
- नायब सूबेदार हरी चन्द (जे० सी-162764 डब्ल्यू),
—01 अप्रैल 1991 ।
- नायब सूबेदार अभिलख सिंह पाल (जे० सी-162766
एफ),—01 अप्रैल 1991 ।
- नायब सूबेदार एस० सी० देवनाथ (जे० सी-162787
एक्स०),—01 अप्रैल 1991 ।
- नायब सूबेदार किरपाल सिंह (जे० सी-162791 ए),—
01 अप्रैल 1991 ।
- नायब सूबेदार अलबेख सिंह (जे० सी-162796 वाई),—
01 अप्रैल 1991 ।
- नायब सूबेदार दिलीप कुमार तलुकदार (जे० सी-
162803 के),—01 अप्रैल 1991 ।
- नायब सूबेदार सरदार सिंह (जे० सी-162808 एच),—
01 अप्रैल 1991 ।
- नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जे० सी-162810 ए),—
01 अप्रैल 1991 ।
- नायब सूबेदार महालिगप्पा तेली (जे० सी-162811
एच),—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार धरम पाल सिंह (जे० सी-162812
एल),—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार हरी चन्द बी० एस० एम० (जे० सी-
162813 एन),—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार अनन्दी लाल (जे० सी-162814 डब्ल्यू),—
01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार मेहंगा सिंह (जे० सी-162815 वाई),—
01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार मोहीन्द्र सिंह सुहाग (जे० सी-162816
एफ),—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जे० सी-162817 के),—
01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार राम कुमार (जे० सी-163354 एम),—
01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जे० सी-162821 एम),—
01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार जय राम सिंह (जे० सी-162824 ए),—
01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार जलाबदीन अबुल सयार (जे० सी-
162825 एच),—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार ओमपाल सिंह (जे० सी-162826 एल),
—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जे० सी-162827 एन),
—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जे० सी-162832
वाई),—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार थडाथील सकारीह वरुगीस (जे० सी-
162836 पी),—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार अमर नाथ राम (जे० सी-157112 एन),
—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार बलय दीन (जे० सी-157114 वाई),—
01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार सोबरन सिंह (जे० सी-158191 ए),
—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार सरयु प्रसाद सचन (जे० सी-162822
पी),—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार जगदीश राय (जे० सी-162837 एक्स),
—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार होशियार सिंह (जे० सी-162838 ए),
—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार सोमेन्द्रन एम० बी० (जे० सी-162840
एक्स),—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार फुल सिंह (जे० सी-162842 एच),
—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार दलीप सिंह (जे० सी-162844 एन),
—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार जोसेफ पी० एम० (जे० सी-162845
डब्ल्यू),—01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार रघुनाथ (जे० सी-162847 एफ),—
01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार क्षेत्रधर बोरा (जे० सी-162848 के),—
01 मई 1991 ।
- नायब सूबेदार राम दल सिंह (जे० सी-162849
एम),—01 मई 1991 ।

नायब सूबेदार भैया लाल (जे० सी-162850 एफ०),
01 मई 1991 ।

नायब सूबेदार लाल मसीह (जे० सी-162851 के०),
01 मई 1991 ।

नायब सूबेदार दरमेज सिंह (जे० सी-162852 एम०),
01 मई 1991 ।

तोपखामा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार केवल सिंह (14306993 पी० अब जे० सी०-
206466 एच०), 01 नवम्बर 1989 ।

हवलदार ओम प्रकाश यादव (14316296 एच० अब
जे० सी०-206467 एल०), 01 मार्च 1990 ।

आर० एच० एम० शिगोटे सदासिव श्रीपत (1260769
एफ० अब जे० सी०-206468 एन०), 21 मार्च 1990 ।

बी० एच० एम० दुर्गा सिंह (14316614 पी० अब जे०
सी०-206469 डब्ल्यू०), 22 मार्च 1990 ।

हवलदार ए० डब्ल्यू० अयप्पा (14320488 एक्स० अब
जे० सी०-206470 एल०), 26 मार्च 1990 ।

हवलदार सुरेश माटे (14305070 एक्स० अब जे०
सी०-206471 एन०), 01 मई 1990 ।

हवलदार किशोरी लाल (1248567 एन० अब जे०
सी०-206472 डब्ल्यू०), 06 मई 1990 ।

बी० एच० एम० वेद प्रकाश (11127043 एफ० अब
जे० सी०-206473 वाई०), 1 जून 1990 ।

हवलदार ओम प्रकाश (1265096 एफ० अब जे० सी०-
206474 एफ०), 26 जुलाई 1990 ।

हवलदार मूलचन्द यादवा (1251247 के० अब जे०
सी०-206475 के०), 04 फरवरी 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 1990) ।

हवलदार राम पियरा (8019079 ए० अब जे० सी०-
206476 एम०), 01 अगस्त 1990 ।

बी० एच० एम० बास देव (1246071 ए० अब जे०
सी०-206477 पी०), 21 अगस्त 1990 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अगस्त 1990) ।

आर० एच० एम० रमेश चन्द (1252395 एफ० अब
जे० सी०-206478 एक्स०), 24 अक्टूबर 1990 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अगस्त 1990) ।

बी० एच० एम० ईश्वर दास (1252816 वाई० अब
जे० सी०-206479 ए०), 24 अक्टूबर 1990 ।*

3-204 GI/91

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अगस्त 1990) ।

बी० एच० एम० ईश्वर सिंह (1249251 एन० अब
जे० सी०-206480 पी०), 01 सितम्बर 1990 ।

हवलदार राम किशन (14316609 डब्ल्यू० अब जे०
सी०-206481 एक्स०), 18 सितम्बर 1990 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 1990) ।*

हवलदार भवानी बहादुर छेत्री (5842132 एल०
अब जे० सी०-206482 ए०), 01 सितम्बर 1990 ।

हवलदार बलकार सिंह (सं० 14327028 वाई अब
जे० सी०-206483 एम०)—1 अक्टूबर, 1990 ।

बी० एच० एम० थग बहादुर थापा (सं० 5039542 पी०
अब जे० सी०-206484 एल०)—1 नवम्बर, 1990 ।

हवलदार हारी सिंह (सं० 1243407 के० अब जे० सी०-
206485 एन०)—25 दिसम्बर, 1990 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1990) ।

बी० एच० एम० प्रताप सिंह अतरी (सं० 1291260
डब्ल्यू० अब जे० सी०-206486 डब्ल्यू०)—1 दिसम्बर,
1990 ।

हवलदार शादी सिंह (सं० 1292800 डब्ल्यू० अब जे०
सी०-206487 वाई०)—14 जनवरी, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1990) ।

बी० एच० एम० एन० स्वामिनाथन (सं० 14316117
एक्स० अब जे० सी०-206488 एफ०)—1 दिसम्बर, 1990 ।

बी० एच० एम० मस्त राम (सं० 1299128 एल० अब
जे० सी०-206489 के०)—5 दिसम्बर, 1990 ।

बी० एच० एम० विसम लन्केश्वरा राव (सं०
14316097 पी० अब जे० सी०-206490 वाई०)—1
जनवरी, 1991 ।

बी० एच० एम० लाल सिंह (सं० 14305051 एम०
अब जे० सी०-206491 एफ०)—1 जनवरी, 1991 ।

बी० एच० एम० गोविन्द सिंह पनवार (सं० 4053351
पी० अब जे० सी०-206492 के०)—1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार मनजित सिंह राना (सं० 14316235 एल०
अब जे० सी०-206493 एम०)—1 जनवरी, 1991 ।

बी० एच० एम० जयश्री राम (सं० 14303092 एक्स०
अब जे० सी०-206494 पी०)—1 फरवरी, 1991 ।

बी० एच० एम० मनोहर लाल (सं० 14320388 एम० अब जे० सी०-206495 एक्स०)—1 मार्च, 1991 ।

बी० एच० एम० स्वर्ण सिंह (सं० 1294049 एम० अब जे० सी०-206496 ए०)—1 मार्च, 1991 ।

हवलदार प्रेम सिंह (सं० 14307258 एल० अब० जे० सी०-206497 एच०)—1 मार्च, 1991 ।

आर० एच० एम० बचत सिंह (सं० 1245503 एक्स० अब जे० सी०-206498 एल०)—6 मार्च, 1991 ।

हवलदार जगरूप सिंह (सं० 1287793 एफ० अब जे० सी०-206499 एन०)—19 फरवरी, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991) ।

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रत्न सिंह (जे० सी०-81174 एक्स०)—1 फरवरी, 1991 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राम देव राय (जे० सी०-129536 एच०)—1 नवम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार आसा राम (जे० सी०-130172 वाई०)—1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार रूप लाल (जे० सी०-130183 एल०)—1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार रोजन सिंह (जे० सी०-130135 एल०)—1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार राम पुकार सिंह (जे० सी०-123832 एच०)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार निसार अहमद (जे० सी०-130128 पी०)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार शिव नारायण सिंह (जे० सी०-134466 के०)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार फकीर चन्द (जे० सी०-100538 डब्ल्यू०)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार रामु एम० एन० (जे० सी०-104911 एच०)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार राम सरन सिंह (जे० सी०-129525 एफ०)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार श्री कृष्णा (जे० सी०-129515 एक्स०)—1 फरवरी, 1991 ।

तोपखाना रेजिमेंट

सब्सटेंटिव सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी०-146269 एन०)—1 फरवरी, 1990 ।

नायब सूबेदार नंदा बहादुर पुन (जे० सी०-156277 ए०)—1 सितम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार कंजकृष्णन पिल्लै चंद्राशेखरन नायर (जे० सी०-160013 डब्ल्यू०)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार मादवा मदावर वेंकटास्वामी (जे० सी०-142113 वाई०)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार मिका राम संधानी (जे० सी०-144071 डब्ल्यू०)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार जंग सिंह (जे० सी०-167563 एल०)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार मंशा राम (जे० सी०-148150 एच०)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार लालजी राम (जे० सी०-138369 के०)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार माखन सिंह (जे० सी०-147756 ए०)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार गोपी राम (जे० सी०-149943 एक्स०)—1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार माधवा पनीकर त्यागाराजन पनीकर (जे० सी०-153413 ए०)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार सेल्लन थावासी (जे० सी०-178928 एल०)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार करम चन्द (जे० सी०-174207 के०)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार हरी राम (जे० सी०-169948 एक्स०)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार शेर सिंह (जे० सी०-139299 एच०)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार वैजनाथ अंगडे (जे० सी०-155534 ए०)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार रोशन लाल (जे० सी०-151069 एफ०)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार पी० पी० नानथा (जे० सी०-155886 एक्स०)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार रघुनाथन (जे० सी०-162493 के०)—1 फरवरी, 1991 ।

- नायब सूबेदार विक्रम सिंह (जे० सी०-164883 एल०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार तोरम नित्याई चंद सिंह (जे० सी०-166523 एन०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार गुर बहादुर (जे० सी०-163849 बाई०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार करम चन्द (जे० सी०-162683 डब्ल्यू०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार खलीया राम (जे० सी०-166995 एक्स०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार महावीर सिंह गील (जे० सी०-169667 एफ०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार बिरेन्द्रा नारायण (जे० सी०-167385 के०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार राम कुमार (जे० सी०-166976 बाई०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार ओम प्रकाश शर्मा (जे० सी०-174004 ए०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-169922 एच०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार प्यार सिंह (जे० सी०-176251 एम०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार मेहर सिंह (जे० सी०-180423 एन०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी०-150412 एम०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार कुशवानी देवासी पालसन (जे० सी०-150390 बाई०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार गयासी राम (जे० सी०-175276 एम०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार चरनजीत सिंह (जे० सी०-158547 एच०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार संत सरन सिंह (जे० सी०-169941 एन०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार हरविंदर सिंह (जे० सी०-172706 ए०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार काबल सिंह (जे० सी०-176219 एक्स०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार प्रकाश चन्द्र (जे० सी०-134674 बाई०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-139411 के०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार मारू राम (जे० सी०-139485 बाई०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार संत राम (जे० सी०-146229 एम०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जे० सी०-147751 एफ०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार रविंदर सिंह (जे० सी०-150399 एन०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार तोता राम (जे० सी०-164137 एच०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार सीतारामा सौमायाजुलु ओत्तु (जे० सी०-158853 एक्स०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार कृष्णय्या (जे० सी०-166252 एफ०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जे० सी०-168252 ए०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार वेलुचामी गोथंडारामन (जे० सी०-171089 डब्ल्यू०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार सुरिंदर सिंह (जे० सी०-175487 पी०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार रोहतास कंवर (जे० सी०-174160 के०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार राम चन्द (जे० सी०-169925 डब्ल्यू०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार तरलोक सिंह (जे० सी०-170954 एक्स०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार सुलतान सिंह (जे० सी०-171440 एम०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार कल्याण सिंह (जे० सी०-175555 एक्स०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार नरपत सिंह (जे० सी०-175494 एल०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार शेर सिंह (जे० सी०-175514 एन०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार भूप सिंह (जे० सी०-175513 एल०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जे० सी०-175577 डब्ल्यू०)—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार समुन्दर सिंह (जे० सी०-177839 ए०)
—1 फरवरी, 1991 ।
- नायब सूबेदार आगस्तीम सी० जे० (जे० सी०-176778 एफ०)—1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार सुरेश कुमार कुशवाह (जे० सी०-180603 डब्ल्यू०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार पाटील बालकृष्णा शिवाजी (जे० सी०-180608 पी०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार रत बहादुर सिंह (जे० सी०-193577 वाई०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जे० सी०-174022 एच०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार रामजी लाल (जे० सी०-176260 एन०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार पाटील अशोक जगन्नाथ (जे० सी०-190612 एल०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार मैन पाल (जे० सी०-180454 एन०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार भंवर सिंह राठोर (जे० सी०-148118 एन०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार मनोहर लाल (जे० सी०-151046 ए०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द (जे० सी०-179643 एल०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार बाल किशन (जे० सी०-186553 एम०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जे० सी०-186426 एक्स०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह चंदेल (जे० सी०-186489 ए०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार गंगा सागर मिश्रा (जे० सी०-184010 एफ०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार मोहन स्वरूप शर्मा (जे० सी०-186514 एन०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार शेर सिंह (जे० सी०-155175 एक्स०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार राम शंकर राय (जे० सी०-167643 वाई०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार जोगिंदर कुमार तोरा (जे० सी०-127609 डब्ल्यू०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार दत्तात्रय चौबुले (जे० सी०-171349 डब्ल्यू०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार कर्क पीता कुमारारत्नम (सं० 6896577 एफ० अब जे० सी०-206851 एम०)—25 फरवरी 1991।*

*(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में बेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार कर्क जयराम सिंह वर्मा (सं० 6815934 एफ० अब जे० सी०-206852 पी०)—6 मई 1991।

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जगमाल सिंह (जे० सी०-60466 एम०)—1 दिसम्बर 1990।

सूबेदार केरुबेरो बाला कृष्णान (जे० सी०-109691 एन०)—1 दिसम्बर 1990।

सूबेदार रतबीर सिंह (जे० सी०-96333 एफ०)—1 दिसम्बर 1990।

सूबेदार राम धार मिश्रा (जे० सी०-105786 डब्ल्यू०)—1 जनवरी 1991।

सूबेदार सुरत सिंह (जे० सी०-105789 के०)—1 जनवरी 1991।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जागे राम (जे० सी०-124756 एन०)—1 जुलाई 1989।

नायब सूबेदार सर्वेश चन्द्र गुप्ता (जे० सी०-82927 एल०)—1 नवम्बर 1990।

नायब सूबेदार राम कुमार राय (जे० सी०-80066 एफ०)—1 दिसम्बर 1990।

नायब सूबेदार समसुद्दीन खान (जे० सी०-86598 एक्स०)—1 दिसम्बर 1991।

नायब सूबेदार दत्ता त्रया कवाटकर (जे० सी०-129545 पी०)—1 दिसम्बर 1990।

नायब सूबेदार थान सिंह (जे० सी०-130134 एच०)—01 दिसम्बर 1990।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-107922 ए०)—1 दिसम्बर 1990।

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-80846 एम०)—01 दिसम्बर 1990।

नायब सूबेदार चन्द्र दत्त पाण्डे (जे० सी०-71422 पी०)—1 दिसम्बर 1990 ।

नायब सूबेदार जनार्दन प्रसाद कुकरेती (जे० सी०-55042 एम०)—1 दिसम्बर 1990 ।

नायब सूबेदार दिप्ती लाल (जे० सी०-89946 वाई०)—11 दिसम्बर 1990 ।

नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जे० सी०-97476 एन०)—1 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार टेक राम (जे० सी०-100305 पी०)—1 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जे० सी०-111037 डब्ल्यू०)—1 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार गज राज (जे० सी०-119692 के०)—1 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार दिलबान सिंह नेगी (जे० सी०-80064 डब्ल्यू०)—1 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार गुणवान सिंह गुप्तेन (जे० सी०-84440 डब्ल्यू०)—1 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार सुरेश सिंह चौहान (जे० सी०-108434 के०)—1 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार बसन्त कुमार नायक (जे० सी०-123835 डब्ल्यू०)—01 जनवरी 1991 ।

नायब सूबेदार माम चन्द (जे० सी०-125027 एक्स०)—1 जनवरी 1991 ।

जी० डी० नागल
डैस्क अधिकारी

सं० 876, दिनांक 11 जुलाई 1991—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक शिक्षा कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राज पाल सिंह (जे० सी०-86071 एच०)—1 जून 1991 ।

सैनिक शिक्षा कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कंवल सिंह (सं० 9506456 एल० अब जे० सी०-206339 एन०)—05 मार्च, 1991 X

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी।)

हवलदार विजय कुमार के० (सं० 9506548 एक्स० अब जे० सी०-206340 एच०)—18 मार्च, 1991 । X X

हवलदार होशियार सिंह (सं० 9506551 एक्स० अब जे० सी०-206341 एल०)—8 मार्च, 1991 । X X

हवलदार रतन सिंह (सं० 9506552 ए० अब जे० सी०-206342 एन०)—05 मार्च 1991 । X X

हवलदार हरमोहिन्दरजीत सिंह (सं० 9506563 एम० अब जे० सी०-206343 डब्ल्यू०)—15 मार्च, 1991 । X X

हवलदार रणधीर सिंह (सं० 9506567 एच० अब जे० सी०-206344 वाई०)—28 फरवरी, 1991 । X X

हवलदार खेम राज (सं० 9506569 एन० अब जे० सी०-206345 एफ०)—19 फरवरी, 1991 । X X

हवलदार डी० सेल्वनदुरैइ राज (सं० 9506572 एन० अब जे० सी०-206346 के०)—17 मार्च 1991 । X X

हवलदार राम नरेश दुबे (सं० 9506574 वाई० अब जे० सी०-206347 एम०)—10 मार्च, 1991 । X X

हवलदार मर्कण्डेय पाण्डेय (सं० 9506577 एम० अब जे० सी०-206348 पी०)—19 फरवरी 1991 । X X

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार राज किशोर (सं० 9506587 डब्ल्यू० अब जे० सी०-206349 एक्स०)—18 मार्च, 1991 । X X X

हवलदार घोसा राम (सं० 9506593 के० अब जे० सी० 206350 एम०)—13 मार्च 1991 । X X X

X X X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार रामदिया शर्मा (सं० 9506596 एक्स० अब जे० सी०-206351 पी०)—23 मार्च, 1991 । X X X

हवलदार राम प्रताप सिंह (सं० 9506600 पी० अब जे० सी०-206352 एक्स०)—19 मार्च, 1991 । X X X

हवलदार सुरजन सिंह (सं० 9506604 एल० अब जे० सी०-206353 ए०)—2 मार्च, 1991 । X X X

हवलदार गीता गोविन्दन के० (सं० 9506605 एन० अब जे० सी०-206354 एच०)—9 मार्च, 1991 । X X X

हवलदार जय सिंह चहल (सं० 9506607 वाई० अब जे० सी०-206355 एल०)—2 मार्च, 1991 । X X X

हवलदार कालोखे संजय राम कृष्ण (सं० 9506613 एम० अब जे० सी०-206356 एन०)—2 मार्च, 1991 । X X X

हवलदार अरुण कुमार शर्मा (सं० 9506620 एच० अब जे० सी०-206357 डब्ल्यू०)—28 मार्च, 1991 । X X X

हवलदार मदनन पी. पी. (सं. 9506622 एन अब जे. सी.-206358 बाई)—1 अप्रैल, 1991 X X X

हवलदार करतार सिंह धुल (सं. 9506623 डब्ल्यू अब जे. सी.-206359 एफ.)—2 मार्च, 1991 X X X X X X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिन ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से दी जायेगी)।

मोहन लाल सल्होवा,
अवर सचिव

सेना श.खा

सं. 877, दिनांक 10 जुलाई 1991—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नती करते हैं—

प्रादेशिक सेना

रेलवे इंजीनियर रेजीमेंट

969 रेलवे इंजीनियर रेजीमेंट (टीए)

(नायब सूबेदार बनाया जाता है)

पदोन्नति की तिथि

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 12059276 (अब टी.जे. —13 अक्टूबर 1988।

हवलदार ओ. पी. शर्मा (सं. 12059352 (अब टी.जे.—13 अक्टूबर 1988।

हवलदार जोसेफ पन्ना (सं. 12076835 (अब टी.जे.—2 दिसम्बर, 1988।

हवलदार एस. एन चौधरी (सं. 12076858 (अब टी.जे.—02 दिसम्बर 1988।

हवलदार डी. सी. ठाकुर (सं. 12076828 (अब टी.जे.—2 दिसम्बर 1988।

हवलदार हरदयाल सिंह (सं. 12014242) (अब टी.जे.—1 जनवरी 1989।

हवलदार प्रणय कुमार (सं. 12059315 (अब टी.जे.—1 अगस्त 1989।

हवलदार ए. एस. सिन्हा (सं. 12045045 (अब टी.जे.—6 नवम्बर 1989।

हवलदार के. भूकेश (सं. 12059229) (अब टी.जे.—9 जनवरी 1990।

हवलदार जी. एन. पाण्डेय (सं. 12059274) (अब टी.जे.—9 जनवरी 1990।

हवलदार डी. एन. पांसवान (सं. 12059493) (अब टी.जे.—9 जनवरी, 1990।

1104 रेलवे इंजीनियर रेजीमेंट (टी.ए.)

नायब सूबेदार बनाया जाता है

हवलदार अब्दुल गफ्फार (सं. 12379869 (अब टी.जे.—25 जनवरी 1989।

हवलदार कन्हैया लाल तुलानी (सं. 12380065 (अब टी.जे.—25 जनवरी, 1989।

हवलदार के. एस. इब्राहिम (सं. 12389302 (अब टी.जे.—25 जनवरी, 1989।

हवलदार एच. पी. वर्मा (सं. 12389330) (अब टी.जे.—25 जनवरी, 1989।

968 रेलवे इंजीनियर रेजीमेंट (टी.ए.)

(नायब सूबेदार बनाया जाता है)

हवलदार विभूति नारायण मिश्रा (सं. 12024002 (अब टी.जे.—21 फरवरी 1990।

हवलदार चिल्लर राम (सं. 12023885 (अब टी.जे.—21 फरवरी, 1990।

हवलदार रामजी लाल वर्मा (सं. 12023886 (अब टी.जे.—21 फरवरी 1990।

हवलदार अशोक कुमार (सं. 12024244 (अब टी.जे.—21 जनवरी, 1990।

हवलदार जगदीश प्रकाश आर्य (सं. 12024026 (अब टी.जे.—21 जनवरी, 1990।

हवलदार हजारा सिंह (सं. 12023943 (अब टी.जे.—21 फरवरी, 1989।

हवलदार भूपेन्द्र सिंह (सं. 12024185 (अब टी.जे.—21 फरवरी, 1990।

हवलदार शिपूजन पाण्डेय (सं. 12024005 (अब टी.जे.—21 फरवरी, 1990।

हवलदार प्रकाश चन्द्र शर्मा (सं. 1202388 (अब टी.जे.—21 फरवरी, 1990।

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 12023984 (अब टी.जे.—21 फरवरी, 1990।

हवलदार चन्द्रमणि शर्मा (सं. 12030851 (अब टी.जे.—21 फरवरी, 1990।

हवलदार नसीरुद्दीन (सं. 12030881 (अब टी.जे.—21 फरवरी, 1990।

हवलदार जितेन्द्र कुमार सबसेना (सं. 12030891 (अब टी.जे.—1 मई 1990।

1032 रेनवे इंजीनियर रेजीमेंट (टी०ए०)

(नायब सूबेदार बनाया जाता है)

हवलदार बी० के० प्रसाद सिन्हा (सं० 12254149
अब टी० जे०—)—19 नवम्बर, 1989 ।

हवलदार सामल हरीश (सं० 12262947 अब टी०
जे०—)—10 जनवरी 1990 ।

हवलदार डी० एम० मगनैस (सं० 12263099 अब
टी० जे०—)—10 जनवरी 1990 ।

रवि एस० दूदानी,
डैस्क आफिसर

सं० 878 दिनांक 10 जुलाई 1991—राष्ट्रपति
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

(सेना चिकित्सा कोर)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के पद पर

हवलदार चन्दर भान (सं० 13913502 वाई अब
जे० सी०—206683 वाई)—27 मार्च 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 मार्च, 1990 से
दी जायेगी) ।

हवलदार अमर नाथ गिरी (सं० 13913967 एकस) अब
जे० सी०—206684 एफ)—7 जनवरी 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 मार्च, 1990 से
दी जायेगी) ।

हवलदार त्रिभुवन नाथ शर्मा (सं० 13914154
एन० अब जे० सी०—206685 के)—14 जून, 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 मार्च, 1990 से
दी जायेगी) ।

हवलदार नन्दन सिंह भंडारी (सं० 13914185 एन
अब जे० सी०—206686 एम)—21 मई, 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 मार्च, 1990 से
दी जायेगी) ।

हवलदार सुभाष चन्दर (सं० 13914644 एफ अब
जे० सी०—206687 पी)—16 मई 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 17 मार्च 1990 से दी
जायेगी) ।

हवलदार सुल्तान सिंह गोसाईं (सं० 13916629 एल
अब जे० सी०—206688 एकस)—18 जून, 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 17 मार्च, 1990 से दी
जायेगी) ।

हवलदार दोरका चारजा गुरीवी रेड्डी (सं० 13922391
एम अब जे० सी०—206689 ए)—12 अप्रैल, 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मार्च, 1990 से
दी जायेगी) ।

हवलदार अल्लू सत्यनारायणा (सं० 13922550 वाई
अब जे० सी०—206690 पी)—24 मई 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मार्च, 1990 से
दी जायेगी) ।

हवलदार भगवन्त सिंह कंग (सं० 13922559 एन)
अब जे० सी०—206691 एकस)—19 जून 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मार्च, 1990 से
दी जायेगी) ।

हवलदार महारुद्र काल्लप्पा बाडिगर (सं० 13914133
वाई अब जे० सी०—206692 ए)—1 सितम्बर 1990 ।

हवलदार जय सिंह (सं० 13917237 के अब जे०
सी०—206693 एच)—13 अक्टूबर 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1990 से
दी जायेगी) ।

हवलदार ग्यान चन्द (सं० 13917208 वाई अब
जे० सी०—206694 एल)—20 दिसम्बर 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 1990 से दी
जायेगी) ।

हवलदार जितेन्द्र नाथ पान्डेय (सं० 13913766
वाई अब जे० सी०—20669 एन)—10 जनवरी 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 1990 से
दी जायेगी) ।

हवलदार के० आर० नन्दा (सं० 13922926 पी अब
जे० सी०—206696 डब्ल्यू)—23 नवम्बर 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 1990 से
दी जायेगी) ।

हवलदार सुरेन्द्र कुमार शर्मा (सं० 13909489 एफ अब जे० सी० 206697 वाई)—15 नवम्बर 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार वासुदेवन पिल्ले के० आर० (सं० 13911889 एम अब जे० सी०—206698 एफ)—20 दिसम्बर 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार रेवाकात साकिया (सं० 13913333 एफ अब जे० सी०—206699 के)—9 जनवरी 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार सोम नाथ (सं० 13913733 एन अब जे० सी०—206700 एन)—1 दिसम्बर 1990 ।

हवलदार सत्येन सेन गुप्ता (सं० 13918685 एच अब जे० सी०—206701 डब्ल्यू)—7 दिसम्बर 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार बिशन सिंह (सं० 13914117 ए अब जे० सी०—206702 वाई)—12 जनवरी 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार भगवान सिंह खरवाल (सं० 13922712 वाई अब जे० सी०—206703 एफ)—3 दिसम्बर 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार आई० चार्लेस (सं० 13923047 एन अब जे० सी०—206704 के)—1 दिसम्बर 1990 ।

हवलदार जनारदन नाथ एम० (सं० 13923143 एच अब जे० सी०—206705 एम)—1 दिसम्बर 1990

हवलदार गुहना चन्द्र (सं० 13924408 एन अब जे० सी०—206706 पी)—14 फरवरी 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार ए० बी० सिंह (सं० 13924438 एल अब जे० सी०—206707 एक्स)—1 दिसम्बर 1990 ।

हवलदार निरमल सिंह अभियाल (सं० 13924558 के अब जे० सी०—206708 ए)—12 दिसम्बर 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार गोविन्द सिंह (सं० 13924555 डब्ल्यू अब जे० सी०—206709 एच)—5 दिसम्बर 1990 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार जय देव सिंह जामवाल (सं० 13924653 डब्ल्यू अब जे० सी०—206710 एक्स)—1 दिसम्बर 1990 ।

हवलदार अन्दीश बा (सं० 13909374 एन अब जे० सी०—206711 ए)—7 जनवरी 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार दरोणा पाल (सं० 13912512 पी अब जे० सी०—206712 एच)—2 जनवरी 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार बहादुर सिंह (सं० 13917770 वाई अब जे० सी०—206713 एल)—11 फरवरी 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार हीरेन चन्द्र पाता (सं० 13923360 एफ अब जे० सी०—206714 एन)—7 जनवरी 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार शिवपाल सिंह (सं० 13924669 एफ अब जे० सी०—206715 डब्ल्यू)—5 मार्च, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार बालाकृष्णा कुरुपु के० (सं० 13924726 वाई अब जे० सी०-206716 वाई)—18 जनवरी, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार योहान्न एम० सी० (सं० 13931316 के अब जे० सी०-206717 एफ)—07 जनवरी 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार लवकान्त बरगोहेन (सं० 13932162 पी अब जे० सी०-206718 के)—15 जनवरी 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार इन्द्रजीत सिंह रावल (सं० 13932036 पी अब जे० सी०-206719 एम)—7 जनवरी 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार शिव कुमार पाण्डे (सं० 13932092 एफ अब जे० सी०-206720 एफ)—28 जनवरी 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार चरम दास (सं० 13932110 वाई अब जे० सी० 206721 के)—10 जनवरी, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार पटेल गोविन्द भाई अम्बा लाल (सं० 13932224 के अब जे० सी०-206722 एम)—8 मार्च, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार आया राम दहिया (सं० 13932194 एक्स अब जे० सी०-206723 पी)—9 फरवरी, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार कुलबन्त सिंह औज्ला (सं० 13932234 एन अब जे० सी०-206724 एक्स)—8 फरवरी, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार प्रभाकरन के० (सं० 13932305 के अब जे० सी०-206725 ए)—18 फरवरी, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार भूपिन्द्र सिंह (सं० 13932375 एच अब जे० सी०-206726 एच)—9 फरवरी, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार विप्रावास एम० के० (सं० 13932617 ए अब जे० सी०-206727 एल)—11 मार्च, 1991

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार बासावन्तप्पा कुरी (सं० 1243339 एफ अब जे० सी०-206728 एन)—4 फरवरी, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार संकरण कुट्टी विय्योक्करण नारायणन (सं० 13932860 एक्स अब जे० सी०-206729 डब्ल्यू)—7 फरवरी, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार सतीशरम पिह्ले (सं० 13932806 के अब जे० सी०-206730 एल)—21 फरवरी, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार गूला राम मिठरवाल (सं० 13932842 पी अब जे० सी०-206731 एम)—14 फरवरी, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार बेबी कुट्टी पी० ए० (सं० 13932882 डब्ल्यू अब जे० सी०-206732 डब्ल्यू)—11 फरवरी 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार ओकराम मनी सिंह (सं० 13933196 पी अब जे० सी०-206733 वाई)—4 मार्च, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार फिलिप के० आई० (सं० 13933113 वाई अब जे० सी०-206734 एफ)—12 फरवरी, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार राम सिंह (सं० 13933129 के अब जे० सी०-206735 के)—6 मार्च, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार सरदेश्वर सिंह (सं० 13933294 पी अब जे० सी०-206736 एम)—21 फरवरी, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार पुथियाल वीटिल राधा कृष्ण (सं० 13933797 ए अब जे० सी०-206737 पी)—13 फरवरी, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार सचिदानन्द शुक्ला (सं० 13933723 एल अब जे० सी०-206738 एक्स)—2 मार्च, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार जनार्धन चन्द्र सेखरन (सं० 13933869 वाई अब जे० सी०-206739 ए)—2 मार्च, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार एम० डी० लियाकत अलि लस्कर (सं० 13933966 डब्ल्यू अब जे० सी०-206740 पी)—17 मार्च, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार गुरधियान सिंह (सं० 13933891 के अब जे० सी०-206741 एक्स)—7 मार्च, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार गोपीनाथन नायर (सं० 13933922 वाई अब जे० सी०-206742 ए)—8 मार्च, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार कुरिअको के० के० (सं० 13933919 वाई अब जे० सी०-206743 एच)—16 मार्च, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार बलबीर सिंह (सं० 13933983 डब्ल्यू अब जे० सी०-206744 एल)—2 मार्च, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार सुशील ठाकुर (सं० 13934029 एल अब जे० सी०-206745 एन)—6 मार्च, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार पूरन सिंह गुर्जर (सं० 13934071 के अब जे० सी०-206746 डब्ल्यू)—8 मार्च, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार राज पौल राज (सं० 13934102 वाई अब जे० सी०-206747 वाई)—2 मार्च, 1991 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

एल० के० शर्मा
जे० डी०/डी० डी० एम० एस० (टैनिंग)

सं० 879 दिनांक 1 जुलाई, 1991—राष्ट्रपति,
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

सेना आयुद्ध कोर

पक्के सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन के रैंक में

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन राम निवास
(जे० सी०—103609 एक्स) — 1 दिसम्बर, 1990 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन अमर सिंह (जे०
सी०—114546 ए) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन भोमप्पा वत्तानवर
(जे० सी०—114976 के) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन राम पाल शर्मा
(जे० सी०—114977 एम) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन मालेपाले वेंकटमुनि
रेड्डी (जे० सी०—114979 एक्स) — 1 मार्च, 1991 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन सुरेश नन्द जोशी
(जे० सी०—130976 एन) — 1 मार्च, 1991 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन अमर नाथ (जे०
सी०—131129 के) — 1 मार्च, 1991 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन सीता राम वर्मा
(जे० सी०—131922 वाई) — 1 मार्च, 1991 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन नारायण सिंह
(जे० सी०—134081 एम) — 1 मार्च, 1991 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन प्रभु दयाल शर्मा
(जे० सी०—141914 ए) — 1 मार्च, 1991 ।

पक्के सूबेदार लिपिक ए० ओ० सी० के रैंक में

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य फूल शंकर शुक्ला
(जे० सी०—173588 के) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण जगदीश प्रसाद शर्मा
(जे० सी०—173536 एन) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण करनैल सिंह
(जे० सी०—173589 एम) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण राधे श्याम शर्मा
(जे० सी०—173590 एफ) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य दौलत सिंह राठीर
(जे० सी०—173591 के) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य मोहम्मद असलम खान
(जे० सी०—173593 पी.) — 1 फरवरी 1991

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण गिर राज सिंह
(जे० सी०—173537 डब्ल्यू) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य ओम प्रकाश राय
(जे० सी०—173496 एक्स) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य अरुन चन्द्र दास
(जे० सी०—173592 के) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य रामकृष्ण रेड्डी यार
रामालिंगम (जे० सी०—173538 वाई) — 1 फरवरी,
1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण नवाब खान
(जे० सी०—173514 पी) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण अब्दुल हफीज खान
(जे० सी०—173539 एफ) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य वापान्गी वेंकट रामा
राव (जे० सी०—173497 ए) — 1 फरवरी 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण गनपत राम
(जे० सी०—173540 डब्ल्यू) — 1 फरवरी, 1991

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण जगजीत सिंह
(जे० सी०—173541 वाई) — 1 फरवरी 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियन्त्रण बाला राम मुखर्जी
(जे० सी०—173542 एफ) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन ज्ञान चन्द्र शर्मा
(जे० सी०—175642 एल) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन श्यामल कान्ती
बिश्वास (जे० सी०—173515 एक्स) — 1 फरवरी, 1991

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन चन्द्र मोहन यादव
(जे० सी०—173595 ए) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन राम चन्द्र (जे०
सी०—173516 ए) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य प्रेम नारायण
पाण्डेय (जे० सी०—173499 एल) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य लीलधर पी०
सालियन (जे० सी०—173543 के) — 1 फरवरी 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य राम जीवन (जे०
सी०—175704 ए) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य डूंगर सिंह (जे०
सी०—175671 ए) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य राम चन्द्र सावले
(जे० सी०—175670 एक्स) — 1 फरवरी 1991 ।

पक्के सूबेदार स्टोर की पर तकनीशियन के रैंक में

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० वेपन इन्द्रजीत मिश्रा (जे०
सी०—175627 डब्ल्यू) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी०—
गुरु स्वामी नारायण स्वामी (जे० सी०—176563
एच) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० जी० पुरुषोत्तम मिल्स (जे० सी०-175629 एफ) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिगनल मारुकरन सिंह (जे० सी०-175744 एफ) — 1 फरवरी 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिगनल सुबोध सिंह (जे० सी०-175745 के) — 1 फरवरी 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिगनल राम बाबू सिंह (जे० सी०-175720 एक्स) — 1 फरवरी 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिगनल लाल बहादुर सिंह (जे० सी०-175721 ए) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिगनल कृष्णमत्त सिंह (जे० सी०-175632 एफ) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिगनल राजे सिंह शंकर (जे० सी०-175686 ए) — 1 फरवरी 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिगनल अरविन्द सिन्हा (जे० सी०-175633 के) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० जय चन्द्रन पी० (जे० सी०-175746 एम) — 1 फरवरी 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिगनल लक्ष्मी नारायण महला (जे० सी०-175722 एच) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिगनल भागवती प्रसाद (जे० सी०-175658 डब्ल्यू) — 1 फरवरी 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी० अमर दत्त शर्मा (जे० सी०-175634 एम) — 1 फरवरी 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० वेपन सत्य प्रकाश (जे० सी०-175687 एल) — 1 फरवरी 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० बलवीर सिंह (जे० सी०-176739 एच) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिगनल बलजीत सिंह (जे० सी०-175659 वाई) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी० सुमन चन्द (जे० सी०-175635 पी) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० वीसा राम (जे० सी०-175723 एल) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० अम्युनिशन गिरीन्द्र नाथ घोष (जे० सी०-175749 ए) — 1 फरवरी 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी० मुख्तार सिंह (जे० सी०-175661 डब्ल्यू) — 1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० नवाब सिंह (जे० सी०-176582 एन) — 1 फरवरी 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० इन्जीनियर जगदीश सिंह (जे० सी०-176583 डब्ल्यू) — 01 फरवरी 91 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० इन्जीनियर राम आशरे सिंह (जे० सी०-176740 एक्स) — 01 फरवरी 91 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० इन्जीनियर शम्भू नाथ सिंह (जे० सी०-176690 एक्स) — 01 फरवरी 91 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिगनल करुणाकर नारायण नायर राजापुन नायर (जे० सी०-176625 एक्स) — 01 फरवरी 91 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० इन्जीनियर नारायण दास (जे० सी०-176714 डब्ल्यू) — 01 फरवरी 91 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० रमेश चन्द (जे० सी०-176585 एफ) — 01 फरवरी 91 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी० राजिन्दर सिंह (जे० सी०-180529 ए) — 01 फरवरी 91 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० गोमल सिंह (जे० सी०-176626 ए) — 01 मार्च 91 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० शम्भू सिंह (जे० सी०-176741 ए) — 01 मार्च 91 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० किशोरी लाल (जे० सी०-176627 एच) — 01 मार्च 91 ।

पक्के सूबेदार चालक के रैंक में

पे/ए सूबेदार चालक एम० टी० किशन सिंह (जे० सी०-176660 ए) — 01 फरवरी 91 ।

पे/ए सूबेदार चालक एम० टी० मुख दास राम (जे० सी०-180532 ए) — 01 फरवरी 91 ।

पे/ए सूबेदार चालक एम० टी० माता दीन (जे० सी०-183073 डब्ल्यू) — 01 फरवरी 91 ।

पक्के सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य के रैंक में

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य, पिथारे लाल (जे० सी०-170715 एच) — 01 फरवरी 91 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य, जगन्नाथ प्रसाद सिंह (जे० सी०-171135 ए) — 01 मार्च 91 ।

सेना अभ्युद कौर

पक्के सूबेदार मेजर अम्युनिशियन तकनीशियन के रैंक में

पे/ए सूबेदार मेजर अम्युनिशियन तकनीशियन, बेबी थोमस (जे० सी०-67738 के०)---01 फरवरी 91।

पे/ए सूबेदार मेजर अम्युनिशियन तकनीशियन, गोपाला मिल्लै दामोदर मिल्लै (जे० सी०-69319 एल०)---01 फरवरी 91।

पे/ए सूबेदार मेजर अम्युनिशियन तकनीशियन, जगन्नाथ सिंह (जे० सी०-70567 एन०)---01 अप्रैल 91।

पक्के सूबेदार मेजर लिपिक ए० ओ० सी० के रैंक में

पे/ए सूबेदार मेजर लिपिक भण्डार प्रोविजन, कूली यन्त्रन औसेफ रणै (जे० सी०-110864 एम०)---01 फरवरी 91।

पे/ए सूबेदार मेजर लिपिक भण्डार प्रोविजन, मुत्तोरिल कुन्ड्याको अन्नाहम (जे० सी०-110806 एच०)---01 मार्च 91।

पे/ए सूबेदार मेजर लिपिक भण्डार प्रोविजन, गणेश चन्द्र नन्दी (जे० सी०-114638 एन०)---01 अप्रैल 91।

पे/ए सूबेदार मेजर लिपिक भण्डार नियंत्रण, अप्पुकुट्टन नारायण (जे० सी०-110865 पी०)---01 अप्रैल 91।

पक्के सूबेदार मेजर स्टोर केजलर तकनीशियन के रैंक में

पे/ए मेजर एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० मालप्पा क्राडा गौडर (जे० सी०-114539 के०)---01 मार्च 91।

पे/ए सूबेदार मेजर एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० रामाचन्द्रन वी० (जे० सी०-108009 वाई०)---01 मार्च 91।

पे/ए सूबेदार मेजर एस० के० टी० अम्युनिशियन, भागवत प्रसाद शर्मा (जे० सी०-107969 एन०)---01 मार्च 91।

पे/ए सूबेदार मेजर एस० के० टी० एम० टी० आनन्द प्रकाश शर्मा (जे० सी०-108014 के०)---01 अप्रैल 91।

सेना अभ्युद कौर

पक्के सूबेदार अम्युनिशियन तकनीशियन के रैंक में

पे/ए सूबेदार अम्युनिशियन तकनीशियन, सिद्देश्वर कुमार प्रमाणिक (जे० सी०-104510 एम०)---01 दिसम्बर 90।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशियन तकनीशियन, कार्थिकियन पी० के० (जे० सी०-109833 ए०)---01 फरवरी 91।

पक्के सूबेदार लिपिक ए० ओ० सी० के रैंक में

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण जसवन्त सिंह (जे० सी०-170686 वाई०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, म्याम नारायण तिवारी (जे० सी०-170687 एफ०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण साही राम (जे० सी०-170689 एम०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य, राम प्रताप (जे० सी०-170233 एन०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, धर्म सिंह (जे० सी०-173511 एच०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, जसवन्त सिंह (जे० सी०-170235 डब्ल्यू०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, रोशन लाल शर्मा (जे० सी०-171119 एच०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, रवि शंकर अवस्थी (जे० सी०-171120 एक्स०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य, धर्म सिंह सुमन (जे० सी०-171121 ए०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, राम स्वार्थ चौधरी (जे० सी०-171122 एच०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण हरी देव (जे० सी०-171123 एल०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, काशमीर सिंह (जे० सी०-171124 एच०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, सीता राम राणा (जे० सी०-171125 डब्ल्यू०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य, कृष्ण पाल शर्मा (जे० सी०-171127 एफ०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन, भरत सिंह कण्ठारी (जे० सी०-173512 के०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, विरेन्द्र सिंह (जे० सी०-173553 एम०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, विश्वनाथ सिंह यादव (जे० सी०-173554 डब्ल्यू०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य, फारुखन अहमद (जे० सी०-173555 वाई०)---01 जनवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य, बुद्धी प्रकाश शर्मा (जे० सी०-173557 के०)---01 फरवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, दयाल चन्द्र साहा (जे० सी०-173535 एल०)---01 फरवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, मनोहर लाल (जे० सी०-175620 एम०)---01 फरवरी 91।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य अन्वनी कुटी पी० टी० (जे० सी०-175726 वाई०)---01 फरवरी 91।

पक्के सूबेदार स्टोर कीपर तकनीशियन के रैंक में
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० इन्जिनियर दिनेश नारायण
 मिश्रा (जे० सी०-173566 एल)—1 जनवरी 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिगनल लाल जी पाण्डे
 (जे० सी०-173567 एन)—1 जनवरी, 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी०
 अमर नाथ त्रिपाठी (जे० सी०-173520 एच)—1 जनवरी,
 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० अम्युनिशन शेर सिंह यादव
 (जे० सी०-173568 डब्ल्यू)—1 जनवरी, 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० वैपन राय रंजन देव
 (जे० सी०-173521 एल)—1 जनवरी, 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० अम्युनिशन गुरदीप सिंह
 (जे० सी०-173570 एन)—1 जनवरी 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी०
 हरलाल सिंह (जे० सी०-173571 डब्ल्यू)—1 जनवरी,
 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी० टेक चन्द भारद्वाज
 (जे० सी०-173572 वाई)—1 जनवरी, 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी० जेम्स जोहन
 मुन्दर राज (जे० सी०-173522 एन)—1 जनवरी,
 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी० सुब्बायाह शन्मुगा
 मडास्वामी (जे० सी०-173573 एफ)—1 जनवरी, 1
 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी०
 ताराकेश्वर सिंह (जे० सी०-173575 एम)—1 जनवरी,
 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी०
 धनश्याम सिंह (जे० सी०-173574 के)—1 जनवरी
 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी०
 सुभाष चन्द्र त्यागी (जे० सी०-173576 पी)—1 जनवरी,
 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी० असकृत पाठक
 (जे० सी०-183921 एल)—1 जनवरी, 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी० रामपाल शर्मा
 (जे० सी०-173577 एक्स)—1 जनवरी 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी०
 महेश पाल (जे० सी०-173579 एच)—1 जनवरी
 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० अम्युनिशन लक्ष्मण दास दुबेदी
 (जे० सी०-173596 एच)—1 जनवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एण्ड सी०
 भोम सिंह पुन्डीर (जे० सी०-173580 एक्स)—1 जनवरी,
 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० वैपन इडाथिल कृष्णन
 गंगाधरन नायर (जे० सी०-173523 डब्ल्यू)—1 जनवरी,
 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी०
 अजीत कुमार देवनाथ (जे० सी०-173584 एन)—1
 जनवरी, 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी०
 योगेन्द्र सिंह सिरोही (जे० सी०-173581 ए)—1
 जनवरी, 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० वैपन मेधर सिंह (जे० सी०-
 173582 एच)—1 जनवरी, 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० वैपन उत्तम चन्द (जे० सी०-
 173583 एल)—1 जनवरी 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० वैपन अमिया कुमार फुक्कन
 (जे० सी०-173585 डब्ल्यू)—1 जनवरी, 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी०
 पुल्लन चैयोदन वॉलिया वीतिल गोविन्दन (जे० सी०-
 173545 पी)—1 जनवरी, 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी० सी० वी० जोहन
 (जे० सी०-173500 पी)—1 जनवरी, 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० अम्युनिशन ज्ञान सिंह पठानिया
 (जे० सी०-175626 एन)—1 जनवरी 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० वैपन भगवान चन्द यादव
 (जे० सी०-173524 एक्स)—1 जनवरी, 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी० शियो दयाल प्रसाद
 (जे० सी०-173501 एक्स)—1 जनवरी 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिगनल देवी प्रसाद (जे०
 सी०-176621 एफ)—1 जनवरी, 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिगनल शाम लाल (जे
 सी०-173525 वाई)—1 जनवरी 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० अम्युनिशन गुरपाल सिंह
 (जे० सी०-173597 एल)—1 जनवरी, 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० वैपन हमीर सिंह (जे०
 सी०-173502 ए)—1 जनवरी, 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० वैपन सुरजीत सिंह (जे०
 सी०-173598 एन)—1 जनवरी, 1991 ।
 पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी०
 शिव प्रसाद (जे० सी०-173504 एल)—1 फरवरी
 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० राम नगीना मिश्रा (जे० सी०-173527 एम)—1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिगनल इन्द्र देव मिश्रा (जे० सी०-175716 पी)—1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० धर्म सिंह (जे० सी०-175719 एच)—1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० अम्युनिशन लाल चन्द (जे० सी०-175747 पी) 1 फरवरी, 1991 ।

पक्के सूबेदार चालक के रैंक में

पे/ए सूबेदार चालक एम० टी० रंक लाल (जे० सी०-175688 एन)—1 जनवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार चालक एम० टी० अमर सिंह (जे० सी०-175636 के)—1 जनवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार चालक एम० टी० कनवर सिंह (जे० सी०-175724 एम)—1 जनवरी, 1991 ।

पक्के सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य के रैंक में

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य भुवनेश्वर नाथ पाण्डे (जे० सी०-170631 पी)—1 जनवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य माम चन्द (जे० सी०-170645 पी)—1 जनवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य ज्ञान चन्द (जे० सी०-170646 एक्स) 01 जनवरी 1991

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य नेत्र सिंह (जे० सी०-170650 ए)—1 जनवरी 1991 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य बंशी (जे० सी०-170651 एच)—1 जनवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य धनी राम (जे० सी०-170652 एल)—1 जनवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य राम कुमार (जे० सी०-170653 एन)—1 जनवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य ईश्वर चन्द्र (जे० सी०-170707 के)—1 जनवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य वैज नाथ यादव (जे० सी०-170708 एम)—1 जनवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य कन्हैया सिंह (जे० सी०-170709 पी)—1 जनवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य तेज भान (जे० सी०-170710 पी)—1 जनवरी 1991 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य दिग चन्द्र दास (जे० सी०-170711 एम)—1 जनवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य नारायण सावनीस (जे० सी०-170713 एक्स)—1 जनवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य सुगन सिंह (जे० सी०-170721 डब्ल्यू)—1 फरवरी, 1991 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य नूर मोम्हद (जे० सी०-170723 एफ)—1 फरवरी, 1991 ।

पक्के सूबेदार कारपेन्टर (यूनिट) के रैंक में

पे/ए सूबेदार कारपेन्टर (यूनिट) राज मल (जे० सी०-176698 के)—1 जनवरी, 1991 ।

एस० के० राय,
अवर सचिव

सं० 880, दिनांक 1 जुलाई, 1991—राष्ट्रपति,
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

सेना सेवा कोर

(थान्किक परिवहन)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुधार चुन्नी लाल नथुजी (सं० 13844475-पी अब जे० सी०-206437 एन)—5 अप्रैल, 1991 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर, 1990 से दी जायगी) ।

हवलदार रंग नाथ सिंह (सं० 13831634 एच अब जे० सी०-206438 डब्ल्यू)—7 फरवरी, 1991 । त

हवलदार राम बहोर राम (सं० 13826657 डब्ल्यू अब जे० सी०-206439 वाई)—22 दिसम्बर, 1990 । त

हवलदार नानक चन्द (सं० 13836060 एफ अब जे० सी०-206440 एन)—21 दिसम्बर, 1990 । त

त (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1990 से दी जायगी) ।

हवलदार राम मिलन (सं० 13843887 ए अब जे० सी०-206441 डब्ल्यू)—12 मार्च, 1991 । ऋ

ऋ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायगी) ।

हवलदार बुध राम (सं० 13843976 वाई अब जे० सी०-206442 वाई)—16 मार्च, 1991।

हवलदार मुखबीर सिंह (सं० 13823992 पी अब जे० सी०-206443 एफ)—2 मार्च, 1991।

हवलदार कान्ता प्रसाद सिंह (सं० 13830911 एम अब जे० सी०-206444 के)—1 मार्च, 1991।

हवलदार करतार सिंह जामवाल (सं० 13843780 एल अब जे० सी०-206445 एम)—1 मार्च, 1991।

हवलदार नवला राम (सं० 13843828 एन अब जे० सी०-206446 पी)—12 मार्च, 1991।

हवलदार मांगे राम (सं० 13826107 एन अब जे० सी०-206447 एक्स)—1 मार्च, 1991।

हवलदार हरेन्द्र ठाकुर (सं० 13831402 ए अब जे० सी०-206448 ए)—9 अप्रैल, 1991।

हवलदार रामस्वरूप जाटव (सं० 13826386 के अब जे० सी०-206449 एच)—2 मार्च, 1991।

हवलदार श्रवण कुमार (सं० 13826499 एम अब जे० सी०-206450 एक्स)—19 अप्रैल, 1991।

हवलदार अमी चंद (सं० 13826534 के अब जे० सी०-206451 ए)—12 अप्रैल, 1991।

हवलदार हस्रान चौधरी (सं० 13831669 पी अब जे० सी०-206452 एच)—8 मार्च, 1991।

हवलदार गिरीश कुमार (सं० 13831703 के अब जे० सी०-206453 एल)—25 मार्च, 1991।

हवलदार अंगप्पाथेवर मुनियसामी (सं० 13831764 एफ अब जे० सी०-206454 एन)—7 मार्च, 1991।

हवलदार दशरथ सिंह (सं० 13831853 के अब जे० सी०-206455 डब्ल्यू)—7 मार्च, 1991।

हवलदार शिक लोशन राम (सं० 13826867 डब्ल्यू अब जे० सी०-206456 वाई)—15 मार्च, 1991।

हवलदार भंग सिंह (सं० 13835406 एन अब जे० सी०-206457 एफ)—9 अप्रैल, 1991।

हवलदार मोहन लाल (सं० 13826999 के अब जे० सी०-206458 के)—8 अप्रैल, 1991।

छ् (नाथब खेडियार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्यूरिस्टा 1 मार्च, 1991 से दी जायेगी)।

प्रकाश चन्द,
अवर सचिव

नौसेना शाखा

सं० 881, दिनांक 14 जून, 1991—राष्ट्रपति, नौसेना विनियमावली भाग 3 सांविधिक के विनियम 121 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करके हैं :—

नौसेना शाखा

(स्पष्टी कमीशन)

रैंक/नाम	कार्यकारी संब- लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति
1	2
मिडसिपमैंत	
1. अरुण कुमार (03453 वाई)	1 जुलाई, 1989
2. अहलावत हिम्मत सिंह (03454 जेड)	—वही—
3. अवस्थी संजय जे नारायण (03455 ए)	—वही—
4.	रिक्त
5. अग्रवाल सुबोध कुमार (03457 एफ)	—वही—
6. बकशी विक्रम (03458 एच)	—वही—
7. भण्डारी राजेश कुमार (03459 के)	—वही—
8. चेती सुजीत कुमार (03460 एन)	—वही—
9. करौली रजनीश कुमार (03461 आर)	—वही—
10. दत्ता सोम्या (03462 टी)	—वही—
11. दास पुरवीर (03463 डब्ल्यू)	—वही—
12. देवास हरकेश सिंह (03464 वाई)	—वही—
13. देव संजय कुमार सिंह (03465 जेड)	—वही—
14. डिल्लन अनुपम सिंह (03466 ए)	—वही—
15. आचार्य देवासिध (03467 बी)	—वही—
16. दास अरीजीत (03468 एफ)	—वही—
17.	रिक्त
18. गहड़ योगेश (03470 के)	—वही—
19. गोदारा कृष्ण लाल (03471 एन)	—वही—
20. गुप्ता सिदीथ कुमार (03472 आर)	—वही—
21. हुडा नाजमल (03473 टी)	—वही—
22. जैन शैलेश (03474 डब्ल्यू)	—वही—
23. कानन के० (03475 वाई)—	—वही—
24.	रिक्त
25. खन्ना जितेन्द्र (03477 ए)	—वही—
26. कृष्ण हरि (03478 बी)	—वही—
27. कुमार संदीप (03479 एफ)	—वही—
28. कपूर संदीप (03480 एच)	—वही—
29. लक्ष्मण रामशंकर (03481 के)	—वही—
30. एस०सी० कार्टी विनीत सम्युल (03482 एन)	—वही—
31. नन्दा नरयणीत (03483 आर)	—वही—

1	2
32. नन्दी अमिताभ (03484 टी)	1 जुलाई, 1989
33. निलकर बासुदेवा राव (03485 डब्ल्यू)	—वही—
34. पंडा संजय गनेश (03486 वाई)	—वही—
35. पटनाथ प्रमोघ (03487 जैड)	—वही—
36. रिक्त	
37. पी० राज कुमार (03489 बी)	—वही—
38. पठानिया विजय सिंह (03490 एफ)	—वही—
39. रूपेश कुमार (03491 एच)	—वही—
40. रावल कालपेश ईश्वर लाल (03492 के)	—वही—
41. राजू महादेवू गोबर्धन (03493 एन)	—वही—
42. राय शंकर मान (03494 आर)	—वही—
43. राठौर कोशलेन्द्र सिंह (03495 टी)	—वही—
44. सिंह सुनील कुमार (03496 डब्ल्यू)	—वही—
45. सिंह सुधीर (03497 वाई)	—वही—
46. सक्शेना समीर (03498 जैड)	—वही—
47. सिंह सिंह परमवीर (03499 ए)	—वही—
48. सतीश चन्द्रशेखरन (03500 बी)	—वही—
49. शर्मा करनजीत (03501 एफ)	—वही—
50. सिन्हा निरद कुमार (03502 एच)	—वही—
51. शुक्ला संजय (03503 के)	—वही—
52. सिंह जसविन्दर (03504 एन)	—वही—
53. सैनी सरवजीत सिंह (03505 आर)	—वही—
54. सिंह जितेन्द्र कुमार (03506 टी)	—वही—
55. सिरदार रामास्वामी (03507 डब्ल्यू)	—वही—
56. श्रीवास्तवा विघांसु (03508 वाई)	—वही—
57. संवनीश अमोल मुरलीधर (03509 जैड)	—वही—
58. सरकार हिमाद्रि (03510 ए)	—वही—
59. श्रीवास्तवा रविकान्त (03511 बी)	—वही—
60. सैनी चिरंजी लाल (03512 एफ)	—वही—
61. शर्मा अनिल कुमार (03513 एच)	—वही—
62. शर्मा अशुतोष (03514 के)	—वही—
63. सोहोनी अनिरुधा (03515 एन)	—वही—
64. श्रीधर श्रीकान्त (03516 आर)	—वही—
65. शर्मा संजय कुमार (03517 टी)	—वही—
66. थिन्ड सुखवीर सिंह (03518 एच)	—वही—
67. यादव नरिन्दर (03519 वाई)	—वही—
68. यादव दीपक (03520 जैड)	—वही—
69. यादव जगत सिंह (03521 ए)	—वही—
70. मथारू इन्द्रजीत सिंह (03522 बी)	—वही—
71. कुमार आर० मोहन ((03523 एफ)	—वही—
72. अग्रवाल अनूप (03524 एच)	—वही—
73. सूरी गोपाल (03525 के)	—वही—
74. राय संजय बासु (03526 एन)	—वही—
75. श्रीवास्तवा विभास (03649 टी)	—वही—

(स्थाई कमीशन)

सब-लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

सब लेफ्टिनेंट : 32 वां इन्टग्रेटिड कोर्स		पदोन्नति की तिथि
1	2	
1. जोगेन्द्र चन्दा (03176 टी)	1 जुलाई, 1989	
2. सुशान्त दाम (03178 वाई)	—वही—	
3. श्रीनिवास बेनाम (03227 एच)	—वही—	
4. अशोक कुमार औक्ता (03170 बी)	—वही—	
5. कृष्णा डी० स्वामीनाथन (03221 डब्ल्यू)	—वही—	
6. दलीप कुमार शर्मा (03209 टी)	—वही—	
7. कुलदीप मित्तल (03193 एफ)	—वही—	
8. प्रवेश सिंह बिष्ट (03175 आर)	16 जुलाई, 1989	
9. त्रिवेक कर्नवट (03185 एन)	—वही—	
10. राजीव टंडन (03222 वाई)	01 अगस्त, 1989	
11. प्रवीण भैक (03172 एच)	—वही—	
12. पुनीत चढ्ढा (03177 डब्ल्यू)	16 अगस्त, 1989	
13. अरुण एम० सबनीस (03207 एन)	—वही—	
14. अशिम कुमार माझी (03188 डब्ल्यू)	—वही—	
15. राकेश कुमार दहिया (03179 जैड)	01 सितम्बर, 1989	
16. पुनीत संकटा (03214 बी)	—वही—	
17. पंकज सिंह (03219 आर)	—वही—	
18. गोपाल महरोत्रा (03192 बी)	—वही—	
19. शिव कुमार गोयल (03183 एच)	16 सितम्बर, 1989	
20. जोर्ज एन्टोनी (03182 एफ)	—वही—	
21. आशीश मेहता (03191 ए)	—वही—	
22. विजय कुमार त्रिवेदी (03223 जैड)	1 अक्टूबर, 1989	
23. मुरली मनोहर शर्मा (03212 जेड)	16 अक्टूबर, 1989	
24. प्रभास चन्द्र मिश्रा (03194 एच)	1 नवम्बर, 1989	
25. नरेन्द्र सिंह एस० परमार (03197 आर) *	16 फरवरी, 90	
*(तीन माह की सेवा अवधिका समपहरण)		16 नवम्बर, 1989
26. दलबीर सिंह (03216 एच)	16 नवम्बर, 1989	
27. सरवजीत सिंह परमार (03198 टी)	1 दिसम्बर, 1989	
28. अन्टोनी निराय अरुण सेल्वान ए० डी० (03169 ए)	—वही—	
29. रामबाबू जी० (03202 ए)	—वही—	
30. अतुल भारद्वाज (03174 एन)	16 दिसम्बर, 1989	
31. देश राज (03180 ए)	—वही—	
32. उमामहेश हरीस्वर शर्मा शिष्टा (03213 ए)	—वही—	
33. मधुसूदन बी० एस० रेड्डी (03206 के)	—वही—	

1	2
34. कल्याणकर रेड्डी नामी रेड्डी (03195 के)	01 जनवरी, 1990
35. आशीष भट्टाचारजी (03173 के)	16 जनवरी, 1990
36. कजा रामना प्रसाद (03200 वाई)	16 फरवरी, 1990
37. अतुल अशोक धारवाडकर (03181 बी)	01 मार्च, 1990
38. रामेन्द्र सिंह मल्हान (03190 जेड)	—वही—
39. परमवीर सिंह राठौर (03204 एफ)	16 दिसम्बर, 1989
40. एस० शर्मा (03211 वाई)	01 फरवरी, 1990
41. डी० के० मदान (03189 वाई)	01 जनवरी, 1990
42. भारतेन्द्र सिंह (03215 एफ)	16 दिसम्बर, 1989

(स्थाई कमीशन)

कार्यकारी सब-सेफिजेंट से सब-सेफिजेंट

1	2	पदीयता की तिथि/ वरीयता की तिथि
1. आर० के० नायर (03408 डब्ल्यू)	18 फरवरी, 1990/ 01 जनवरी, 1989	
2. पी० चौहान (03378 ए)	—वही—	
3. संदीप मेहता (03405 एन)	—वही—	
4. अजीत कुमार (03399 जैड)	—वही—	
5. विनय कालिया (03390 बी)	—वही—	
6. ए० के० रस्तोगी (03423 बी)	—वही—	
7. एस० धीष (03386 डब्ल्यू)	—वही—	
8. आर० परमार (03415 के)	—वही—	
9. वाई० साहनी (03434 बी)	—वही—	
10. वी० के० पिशाखी (03411 ए)	—वही—	
11. डी० कुमार (03392 एच)	—वही—	
12. एच० एस० सपरा (03448 के)	—वही—	
13. आर० मिश्रा (03406 आर)	—वही—	
14. एम० सुब्रामन्यन (03432 जेड)	—वही—	
15. ओ० पी० वर्मा (03412 बी)	—वही—	
16. एस० भल्ला (03371 के)	—वही—	
17. एस० के० धीगरा (03380 एफ)	—वही—	
18. एस० रिसीराज (03417 आर)	—वही—	
19. मू० के० भारद्वाज (03372 एन)	—वही—	
20. नवीन राजदान (03419 डब्ल्यू)	—वही—	
21. ए० दत्त (03379 बी)	—वही—	
22. वी० आर० फेखर (03410 जैड)	—वही—	
23. जी० वी० भूषण (03385 टी)	—वही—	
24. सी० डिसूजा (03383 एन)	—वही—	

1	2
25. आर० के० चौधरी (03378 वाई)	18 फरवरी, 1990/ 01 जनवरी, 1989
26. ए० के० माथुर (03403 एच)	—वही—
27. एम० के० कुक्रेती (03398 वाई)	—वही—
28. आर० एस० परमार (03409 वाई)	—वही—
29. वी० बहल (03369 एफ)	—वही—
30. वी० के० साहनी (03430 डब्ल्यू)	—वही—
31. एस० मुकरजी (03402 एफ)	—वही—
32. डी० आर० कुसकर्णी (03396 टी)	—वही—
33. मनीष जोशी (03388 जैड)	—वही—
34. ए० के० सिंह (03429 टी)	—वही—
35. डी० के० स्वेन (03428 आर)	—वही—
36. वी० राना (03422 ए)	04 मार्च, 1990/ 01 जनवरी, 1989
37. एम० तिवारी (03437 के)	—वही—
38. जी० एस० कैलकट (03400 ए)	18 फरवरी, 1990/ 01 जनवरी, 1989
39. आर० पी० सिंह (03436 एच)	—वही—
40. वी० एस० चौहान (03374 टी)	—वही—
41. एस० के० धवन (03382 के)	—वही—
42. वी० ई० प्रसाद (03414 एच)	—वही—
43. शिविक कुमार (03397 डब्ल्यू)	—वही—
44. एस० चेत्री (03377 जैड)	—वही—
45. ए० अम्बस्था (03368 बी)	09 दिसम्बर, 1990/ 01 जनवरी, 1989
46. डी० कुमार (03391 एफ)	19 अगस्त, 1990/ 01 जनवरी, 1989
47. वी० मनीकताला (03401 बी)	25 मार्च, 1990/ 01 जनवरी, 1989
48. के० प्रभाकर (03416 एन)	01 अप्रैल, 1990/ 01 जनवरी, 1989
49. एम० एस० राघवन (03418 टी)	10 जून, 1990/ 01 जनवरी, 1989
50. एम० एस० रहमान (03421 जैड)	01 जुलाई, 1990/ 01 जनवरी, 1989
51. वी० सिंह (03424 एफ)	02 दिसम्बर, 1990/ 01 जनवरी, 1989
52. इन्द्रजीत सिंह (03425 एच)	27 मई, 1990/ 01 जनवरी, 1989

1	2
53. एन० के० श्रीवास्तवा (03426 के)	29 जुलाई, 1990/ 01 जनवरी, 1989
54. वी० आर० के० तिवारी (08488 एन)	29 अप्रैल, 1990/ 01 जनवरी, 1989
55. जी० घबरे (03414 एन)	29 जुलाई, 1990/ 01 जनवरी, 1989
56. आर० बनर्जी (03878 एके)	20 मई, 1990/ 01 जनवरी, 1989
57. एस० के० गुप्ता (03387 बाई)	04 जून, 1990/ 01 जनवरी, 1989
58. एस० कुमार (03393 के)	14 जुलाई, 1990/ 01 जनवरी, 1989
59. एस० जे० कुमार (03394 एन)	04 जून, 1990/ 01 जनवरी, 1989
60. एम० के० कुलकर्णी (03395 आर)	24 जून 90/ 01 जनवरी, 1989
61. ए० जे० नारोन्हा (03407 टी)	14 जुलाई, 1990/ 01 जनवरी, 1989
62. के० ए० सहव (03420 बाई)	04 जून, 1990/ 01 जनवरी, 1989
63. सुभाष सिन्हा (03433 ए)	22 जुलाई, 1990/ 01 जनवरी, 1989

ए० सी० मिनीचा,
सी० एस० धो०
सहायक निदेशक/कार्यक्रम/जे० धो० ए० एण्ड आर०

कर्मशास्त्र

सं० 882, दिनांक 11 जुलाई, 1991—प्रकाशन की तारीख से—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाइंग अफसरों के मूल रेक में पदोन्नति करते हैं।

भारतीय वायु सेना

मौसम विज्ञान शाखा

पायलट अफसर नरेन्द्र कुमार कोहली (19461)—
31 दिसम्बर, 1990।

सं० 883, दिनांक 3 मई, 1991—राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा० से० मु०/एस० 24732/

पी० पी० (धो०)/पी० सी०—I/146/यू० एस०/डी (एयर IV) दिनांक 14 फरवरी, 1989 के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित को ब्रेवेट्स प्रदान करते हैं। ये अफसर ब्रेवेट्स प्राप्त करने की तारीख 07 अप्रैल, 1990 से उड़ान वेतन पाने के हकदार हैं।

भारतीय वायु सेना

फ्ला० ले० वाय० आर० एस० रेड्डी (17487)।

फ्ला० ले० एस० के० नैशानी (17503)।

फ्ला० ले० पी० वी० हरीशंकर (17782)।

फ्ला० अफ० ए० बी० पटेल (18179)।

फ्ला० अफ० पी० के० घोष (18324)।

फ्ला० अफ० पी० के० लाल (18332)।

फ्ला० अफ० इ० के० प्रसाद (18600)।

फ्ला० अफ० आई० एस० राव (18632)।

पाय० अफ० वी० के० करंदीकर (18880)।

पाय० अफ० ए० त्यागी (18903)।

पाय० अफ० के० एस० राव (19246)।

पाय० अफ० के० शामसुन्दर (19247)।

पाय० अफ० ए० के० पान (19377) और

पाय० अफ० एस० के० पाण्डेय (19379)—07 अप्रैल, 1990 से।

सं० 884, दिनांक 13 मई, 1991—राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा० से० मु०/एस० 24732/ पी० पी० (धो०)/पी० सी०—I/25/यू० एस०/डी (एयर IV) दिनांक 15 जनवरी, 1990 के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित को ब्रेवेट्स प्रदान करते हैं। ये अफसर ब्रेवेट्स प्राप्त करने की तारीख 06 अक्टूबर, 1990 से उड़ान वेतन पाने के हकदार हैं।

भारतीय वायु सेना

पायलट अफसर डी० अश्वरथ (19375) उपस्कर, फ्लाइंग अफसर एस० एस० लक्ष्मिदेवा (18604) प्रशासन, फ्लाइंग लेफ्ट० आर० बैकटरमन (17480) प्रशासन, फ्लाइंग लेफ्ट० एन० पी० राजेश (18139) प्रशासन, फ्लाइंग लेफ्ट० जे० एस० बेदी (17491) प्रशासन/ए० टी० सी०, फ्लाइंग अफसर एम० एम० डी० मुल्ला (18646) उपस्कर—06 अक्टूबर, 1990 से।

बी० यू० पिल्ले,
स्वयंसेवा लीडर, ए० डी० पी० धो० 3 (डी)

थल सेना विभाग

शुद्धि पत्र

सं० 885, दिनांक 11 जून, 1991—रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1072/88 के अन्तर्गत जो कि तिथि 16-7-1988 को शीर्षक नियमित सेना, स्थायी कमीशन और उपशीर्षक 14 दिसम्बर, 1985 से 2/लैफ्टिनेंट में प्रकाशित किया गया था :—

के लिए : देव व्रत ओहरी (आई० सी०-43344 एच) ।
पढ़ा जाए : देव व्रत ओहरी (आई० सी०-43344 एम) ।

डी० सी० कटोच
ले० कर्नल
सं० से० सचिव (आई० सी०)

विद्युत और यांत्रिक इन्जिनियरी कोर

सं० 886, दिनांक 5 जून, 1991—राजपत्र अधिसूना प्रकाशित दिनांक 23 जनवरी, 1988 में प्रवक्ता श्री ओ० एस० सिलवामनी के सम्बन्ध में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

अंतिम पंक्ति को मिटाया जाता है :—

“वह दो वर्ष के कार्यकाल तक परख अवधि में रहेगा” ।

शक्ति सिंह नेगी,
अपर सचिव

(सेना मुख्यालय)

सं० 887, दिनांक 10 जून, 1991—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को उनकी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति देते हैं :—

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

1. मे० जन० जे० खन्ना (आई० सी०-6171), ए० ओ० सी०-31 जनवरी, 1989 (अपराह्न) ।
2. ब्रिग० आर० डी० पालिभिय्याल (आई० सी०-7128) इन्ट० कोर—31 जनवरी, 1989 (अपराह्न) ।
3. ब्रिग० डी० ए० जन्तरकार (आई० सी०-8632), ए० एस० सी०-31 जनवरी, 1989 (अपराह्न) ।
4. ब्रिग० वी० वी० गुप्ता (आई० सी०-10097), वि० से० मे०, ई० एम० ई०-31 जनवरी, 1989 (अपराह्न) ।
5. ले० जन० ई० जी० केर (आई० सी०-5840) आर्टी०—28 फरवरी, 1989 (अपराह्न) ।
6. मे० जन० बी० अक्थी (आई० सी०-6455), इनफे०-28, फरवरी, 1989 (अपराह्न) ।

7. मे० जन० पी० एल० खेर (आई० सी०-6405), अ० वि० से० मे०, मे० वीरचक्र, एस० एम०, इनफे०-28 फरवरी, 1989 (अपराह्न) ।
8. मे० जन० शमशेर सिंह (आई० सी०-6712), अ० वि० से० मे०, एस० एम०, इनफे०-28 फरवरी, 1989 (अपराह्न) ।
9. मे० जन० पी० एल० कुन्नेली (आई० सी०-8104), एस० एम०, इनफे०-28 फरवरी, 1989 (अपराह्न) ।
10. ब्रिग० खुसिन्दर सिंह (आई० सी०-7668), आर्टी०—28 फरवरी, 1989 (अपराह्न) ।
11. ब्रिग० आर० एन० शर्मा (आई० सी०-7796), इनफे०-28 फरवरी, 1989 (अपराह्न) ।
12. ब्रिग० एम० एल० धीमान (आई० सी०-8538), ए० ओ० सी०-28 फरवरी, 1989 (अपराह्न) ।
13. ब्रिग० ए० एम० वर्ती (आई० सी०-10028), आर्टी०—28 फरवरी, 1989 (अपराह्न) ।
14. कर्नल (ए०/ब्रिग०) के० आर० शर्मा (आई० सी०-11710), ए० एस० सी०-28 फरवरी, 1989 (अपराह्न) ।
15. मे० जन० गुरदीप सिंह (आई० सी०-8593), अ० वि० से० मे०, इनफे०-31 मार्च, 1989 (अपराह्न) ।
16. ब्रिग० डी० एम० गुप्ता (आई० सी०-6545), इन्जी०—31 मार्च, 1989 (अपराह्न) ।
17. ब्रिग० के० के० कोहली (आई० सी०-7075), ए० ओ० सी०-31 मार्च, 1989 (अपराह्न) ।
18. ब्रिग० पी० एन० शुक्ला (आई० सी०-11216), ए० ओ० सी०-31 मार्च, 1988 (अपराह्न) ।
19. ब्रिग० पी० एस० कुलकर्णी (आई० सी०-11661), ए० एस० सी०-31 मार्च, 1989 (अपराह्न) ।
20. ब्रिग० एस० सी० गोस्वामी (आई० सी०-7605), इनफे०-31 मार्च, 1989 (अपराह्न) ।
21. ले० जन० समीखान (आई० सी०-5376), प० वि० से० मे०, एस० एम०, इनफे०-31 मार्च, 1989 (अपराह्न) ।
22. ले० जन० पी० एस० राय (आई० सी०-6543), अ० वि० से० मे०, इन्जी०-31 मार्च, 1989 (अपराह्न) ।
23. मे० जन० के० चन्द्रशेखरन (आई० सी०-11723), अ० वि० से० मे०, इन्जी०-30 अप्रैल, 1989 (अपराह्न) ।
24. ब्रिग० एम० एस० दिल्लन (आई० सी०-6761), ए० एस० सी०-30 अप्रैल, 1989 (अपराह्न) ।

25. ब्रिग० तिलक राज (आई० सी०-7166), इनफे०—
30 अप्रैल, 1989 (अपराह्न) ।
26. ब्रिग० राम नारायण (आई० सी०-7365), आर्टी०,
—30 अप्रैल, 1989 (अपराह्न) ।
27. ब्रिग० प्रेम प्रकाश (आई० सी०-7341), इन्ट कोर—
30 अप्रैल, 1989 (अपराह्न) ।
28. ब्रिग० हरदेव सिंह (आई० सी०-7769), इनफे०—
30 अप्रैल, 1989 (अपराह्न) ।
29. ब्रिग० एस० पी० दिवान (आई० सी०-7865),
सिग्न०—30 अप्रैल, 1989 (अपराह्न) ।
30. कर्नल (ए०/ब्रिग०) के० एन० नोटियाल (वी०-66),
आर० वी०सी०—30 अप्रैल, 1989 (अपराह्न) ।
31. ले० जन० वी० सी० नन्दा (आई० सी०-5310),
प० वि० से० मे०, अ० वि० से० मे०, इनफे०—31 मई,
1989 (अपराह्न) ।
32. ए०/मे० जन० एस० के० आनन्द (टी० सी०-31262)
अ० वि० से० मे०, ए० पी० एस०—31 मई,
1989 (अपराह्न) ।
33. ब्रिग० आर० एन० पण्डित (आई० सी०-8105),
अ० वि० से० मे०, वि० से० मे० इनफे०—31 मई,
1989 (अपराह्न) ।
34. ले० कर्नल (ए०/ब्रिग०) आर० आर० वी० एन० वर्मा
(आई० सी०-8652), ई० एम० ई०—31 मई,
1989 (अपराह्न) ।
35. ले० जन० के० एस० रन्धावा (आई० सी०-5987)
प० वि० से० मे०, अ० वि० से० मे०, ए० सी०—
30 जून, 1989 (अपराह्न) ।
36. ले० जन० के० डी० पराशर (आई० सी०-6535),
अ० वि० से० मे०, ई० एम० ई०—30 जून 1989
(अपराह्न) ।
37. मे० जन० जी० एस० कपूर आई० सी०-6124),
ई० एम० ई०—30 जून, 1989 (अपराह्न) ।
38. ब्रिग० वी० बी० एस० कारकी (आई० सी०-5299),
इन्जी०—30 जून, 1989 (अपराह्न) ।
39. ब्रिग० वी० एन० खन्ना (आई० सी०-8495), ए०
वी० एस० एम०, वि० से० मे०, इनफे०—30 जून,
1989 (अपराह्न) ।
40. ब्रिग० ए० सी० पमड्या (आई० सी०-11724),
ई० एम० ई०—30 जून, 1989 (अपराह्न) ।
41. ब्रिग० वी० श्रीरामलू (आई० सी०-12753), ई०
एम० ई०—30 जून, 1989 (अपराह्न) ।
42. मे० जन० वाई० देवा (आई० सी०-6640), सिग्न०
—31 जुलाई, 1989 (अपराह्न) ।
43. मे० जन० के० जे० सिंह (आई० सी०-6786),
सिग्न०—31 जुलाई, 1989 (अपराह्न) ।
44. मे० जन० एम० एल० खन्ना (आई० सी०-7698),
ई० एम० ई०—31 जुलाई, 1989 (अपराह्न) ।
45. ब्रिग० दिलबाग सिंह (आई० सी०-7083), अ० वि०
से० मे०, इनफे०—31 जुलाई, 1989 (अपराह्न) ।
46. ब्रिग० ज० एस० भण्डारी (आई० सी०-7340),
आर्टी०—31 जुलाई, 1989 (अपराह्न) ।
47. ब्रिग० एस० सी० कटोच (आई० सी०-7797), इनफे०
—31 जुलाई, 1989 (अपराह्न) ।
48. ब्रिग० गुरु चरन सिंह (आई० सी०-8101), अ०
वि० से० मे०, इन्जी०—31 जुलाई, 1989 (अपराह्न) ।
49. ब्रिग० के० पी० सिंह (आई० सी०-20710), जै०—
31 जुलाई, 1989 (अपराह्न) ।
50. मे० जन० के० एम० धोडी (आई० सी०-6830),
अ० वि० से० मे०, ए० सी०—31 अगस्त, 1989
(अपराह्न) ।
51. ब्रिग० आर० एस० थापर (आई० सी०-10546),
वि० से० मे०, इनफे०—31 अगस्त, 1989 (अपराह्न) ।
52. ब्रिग० एस० के० दिवान (आई० सी०-8221), ए०
एस० सी०—31 अगस्त, 1989 (अपराह्न) ।
53. ब्रिग० वी० पी० मनचन्दा (वी०-58), आर० वी०
सी०—31 अगस्त, 1989 (अपराह्न) ।
54. ब्रिग० एस० के० पसरिचा (आई० सी०-10547),
वि० से० मे०, आर्टी०—31 अगस्त, 1989 (अपराह्न) ।
55. ब्रिग० ए० के० आनन्द (आई० सी०-8592), इन्ट०
कोर—31 अगस्त, 1989 (अपराह्न) ।
56. मे० जन० सुरिन्दर नाथ (आई० सी०-6606), अ०
वि० से० मे०, वि० से० मे०, इनफे०—30 सितम्बर,
1989 (अपराह्न) ।
57. मे० जन० एम० जे० एस० छतवाल (आई० सी०-
7904), इनफे०—30 सितम्बर, 1989 (अपराह्न) ।
58. ब्रिग० आर० एम० कपूर (आई० सी०-8246),
सिग्न०—30 सितम्बर, 1989 (अपराह्न) ।
59. ब्रिग० रन्जीत सिंह (आई० सी०-11504), एस०
एम०, वि० से० मे०, इनफे०—30 सितम्बर, 1989
(अपराह्न) ।
60. ब्रिग० वी० सी० पाठक (आई० सी०-7652),
इन्जी०—30 सितम्बर, 1989 (अपराह्न) ।
61. ब्रिग० वी० एम० कपूर (आई० सी०-7606),
सिग्न०—30 सितम्बर, 1989 (अपराह्न) ।
62. ले० जन० वी० के० नायर (आई० सी०-5858),
प० वि० से० मे०, एस० एम० इनफे०—31 अक्टूबर,
1989 (अपराह्न) ।

63. ले० जन० मान सिंह (आई० सी०-5955), इन्जी०—
31 अक्टूबर, 1989 (अपराह्न) ।
64. मे० जन० आई० सी० सिवाल (आई० सी०-7949),
सिग्न०—31 अक्टूबर, 1989 (अपराह्न) ।
65. ब्रिग० ए० एस० क्लर (आई० सी०-7814), वी०
च०, इनफे०—31 अक्टूबर, 1989 (अपराह्न) ।
66. ब्रिग० के० के० देवा (आई० सी०-8413), ए० सी०—
31 अक्टूबर, 1989 (अपराह्न) ।
67. ब्रिग० आई० एस० वाल (आई० सी०-10062),
वि० से० मे०, आर्टी०—31 अक्टूबर, 1989
(अपराह्न) ।
68. ब्रिग० एस० के० गुप्ता (आई० सी०-10057),
आर्टी०—31 अक्टूबर, 1989 (अपराह्न) ।
69. ब्रिग० नागिन्दर सिंह (आई० सी०-11108), इनफे०—
31 अक्टूबर, 1989 (अपराह्न) ।
70. ब्रिग० वा० एस० रघुवा (आई० सी०-10412),
इन्जी०—31 अक्टूबर, 1989 (अपराह्न) ।
71. ब्रिग० एल० डी० कन्वाल (आई० सी०-10548),
ई० एम० ई०—31 अक्टूबर, 1989 (अपराह्न) ।
72. ब्रिग० के० अक्षय (आई० सी०-20520), जे०—
31 अक्टूबर, 1989 (अपराह्न) ।
73. ब्रिग० टी० एस० चौधरी (आई० सी०-8268),
अ० वि० से० मे०, सिग्न०—31 अक्टूबर, 1989
(अपराह्न) ।
74. आर०एन० लोबा (आई० सी०-7890), सिग्न०—
31 अक्टूबर, 1989 (अपराह्न) ।
75. मे० जन० एस० के० कार (आई० सी०-6500),
वि० से० मे०, ए० सी०—31 अक्टूबर,
1989 (अपराह्न) ।
76. ले० जन० विरेन्द्र परता (आई० सी०-5853),
अ० वि० से० मे०, इन्फे०—31 अक्टूबर,
1989 (अपराह्न) ।
77. ले० जन० हरजस जाल (आई० सी०-6985), वि०
से० मे०, ई० एम० ई०—30 अक्टूबर, 1989
(अपराह्न) ।
78. मे० जन० एच० सी० सखेव (आई० सी०-6848),
एस० एम०, इनफे०—30 नवम्बर, 1989 (अपराह्न) ।
79. मे० जन० के० एम० सेनाप्प (आई० सी०-7900),
ए० सी०—30 नवम्बर, 1989 (अपराह्न) ।
80. ब्रिग० पी० के० गुप्ता (आई० सी०-7330), अ०
वि० से० मे०, इनफे०—30 नवम्बर, 1989 (अपराह्न)
81. ब्रिग० बी० एस० जामवाल (आई० सी०-7348),
इनफे०—30 नवम्बर, 1989 (अपराह्न) ।
82. ब्रिग० बंदिन्द्र सिंह (आई० सी०-7322), ए० सी०—
30 नवम्बर, 1989 (अपराह्न) ।
83. ब्रिग० सुरजीत सिंह (आई० सी०-7628), आर्टी०—
30 नवम्बर, 1989 (अपराह्न) ।
84. ब्रिग० के० सी० गर्गा (आई० सी०-7717), सिग्न०—
30 नवम्बर, 1989 (अपराह्न) ।
85. ब्रिग० एस० के० बालिया (आई० सी०-8209),
सिग्न०—30 नवम्बर, 1989 (अपराह्न) ।
86. ब्रिग० एच० डब्ल्यू० शरपुरे (आई० सी०-8612),
आर्टी०—30 नवम्बर, 1989 (अपराह्न) ।
87. ब्रिग० आर० के० घई (आई० सी०-10582)
ए० सी०—30 नवम्बर, 1989 (अपराह्न) ।
88. ले० जन० वाई० वी० राधाकृष्ण (आई० सी०-6948),
अ० वि० से० मे०, ई० एम० ई०—31 दिसम्बर,
1989 (अपराह्न) ।
89. मे० जन० सुरिन्दर कुमार (आई० सी०-6631),
अ० वि० से० मे०, ए० एस० सी०—31 दिसम्बर,
1989 (अपराह्न) ।
90. मे० जन० आर० के० सूद (आई० सी०-6611),
इनफे०—31 दिसम्बर, 1989 (अपराह्न) ।
91. मे० जन० पी० के० खन्ना (आई० सी०-7380),
महासैनिक, इनफे०—31 दिसम्बर, 1989 (अप-
राह्न) ।
92. ब्रिग० एस० धर (आई० सी०-7065), ई० एम०
ई०—31 दिसम्बर, 1989 (अपराह्न) ।
93. ब्रिग० एस० के० बम्मी (आई० सी०-7647), आर्टी०—
31 दिसम्बर, 1989 (अपराह्न) ।
94. ब्रिग० कुलदीप सिंह (आई० सी०-12031), वि०
से० मे०, इनफे०—31 दिसम्बर, 1989 (अपराह्न) ।

(सं० 888, दिनांक 10 जून, 1991—राष्ट्रपति,
निम्नलिखित अफसरों को उनकी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की
आयु प्राप्त करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति देते
हैं :—

नियमित सेना

रिजर्व कर्मियों

1. मे० जन० जी० सी० अग्रवाल (आई० सी०-5883),
इन्जीनियरी—31 जनवरी, 1988 (अपराह्न) ।

2. ब्रिगं जगजीत सिंह (आई० सी०-6603), अ० वि० से० मे०, वि० से० मे०, आर्टी०-31 जनवरी, 1988 (अपराह्न) ।
3. ब्रिगं देवेन्द्र सिंह (आई० सी०-8554), ए० ओ० सी०-31 जनवरी, 1988 (अपराह्न) ।
4. कर्न० (ए०/ब्रिग०) कै० एन० आचार्य (आई० सी०-12269), ए० एस० सी०-31 जनवरी, 1988 (अपराह्न) ।
5. ले० जन० देविन्द्र सिंह (आई० सी०-5169), वि० वि० से० मे०, वि० से० मे०, इनफो०-29 फरवरी, 1988 (अपराह्न) ।
6. मे० जन० बी० पी० मुल्गई (आई० सी०-6127), वि० से० मे०, सिग०-29 फरवरी, 1988 (अपराह्न) ।
7. मे० जन० वई० प्रताप (आई० सी०-6197), सिग०-29 फरवरी, 1988 (अपराह्न) ।
8. मे० जन० देविन्द्र सिंह (आई० सी०-6247), ए० एस० सी०-29 फरवरी, 1988 (अपराह्न) ।
9. मे० जन० सुखील नाथ (आई० सी०-6188), सिग०-29 फरवरी, 1988 (अपराह्न) ।
10. मे० जन० जे० मे० कपूर (आई० सी०-7219), ई० एम० ई०-29 फरवरी, 1988 (अपराह्न) ।
11. ब्रिग० एस० वी० अभ्याकर (आई० सी०-4774), इन्जीनियर्स-29 फरवरी, 1988 (अपराह्न) ।
12. ब्रिग० एम० पी० जी० मेहन (आई० सी०-2100), अ० वि० से० मे०, जैंग०-29 फरवरी, 1988 (अपराह्न) ।
13. मे० जन० बी० एम० तिवारी (आई० सी०-6124), इनफो०-31 मार्च, 1988 (अपराह्न) ।
14. मे० जन० के० एस० मधू (आई० सी०-6212), एम० वी० सी०, इनफो०-31 मार्च, 1988 (अपराह्न) ।
15. ब्रिग० जे० एस० कन्देल (आई० सी०-6723), इनफो०-31 मार्च, 1988 (अपराह्न) ।
16. ले० जन० एस० वी० गिरी (आई० सी०-5827), अ० वि० से० मे०, इनफो०-30 अप्रैल, 1988 (अपराह्न) ।
17. ले० जन० एस० मजूमदार (आई० सी०-5821), वि० से० मे०, इन्जी०-31 मई, 1988 (अपराह्न) ।
18. ले० जन० एल० एम० राजगोपाल (आई० सी०-7191), अ० वि० से० मे०, ई० एम० ई०-30 जून, 1988 (अपराह्न) ।
19. मे० जन० आर० के० आर० बालासुब्रमनियन (वी०-52), अ० वि० से० मे०, आर० वी० सी०-30 जून, 1988 (अपराह्न) ।
20. ब्रिग० बी० एम० काकर (आई० सी०-7041), ए० एस० सी०, वि० से० मे०, इनफो०-30 जून, 1988 (अपराह्न) ।
21. ब्रिग० जसजोत सिंह (आई० सी०-7029), सिग०-30 जून, 1988 (अपराह्न) ।
22. ब्रिग० (ए०/मि० जन०) आर० एस० दयाल (आई० सी०-7335), वि० से० मे०, आर्टी०-30 जून, 1988 (अपराह्न) ।
23. ब्रिग० एस० जी० राजीपाठ्याय (आई० सी०-7909), सिग०-30 जून, 1988 (अपराह्न) ।
24. ब्रिग० ए० एस० शर्मा (आई० सी०-7941), इन्जीनियर्स-30 जून, 1988 (अपराह्न) ।
25. ब्रिग० के० एस० दीक्षित (आई० सी०-8628), ए० ओ० सी०-30 जून, 1988 (अपराह्न) ।
26. कर्न० (ए०/ब्रिग०) कर्मीजीत सिंह (आई० सी०-8436), इन्जी०-30 जून, 1988 (अपराह्न) ।
27. ले० जन० एम० मध्यावास (आई० सी०-5102), ए० वि० से० मे०, ए० सी०-31 जुलाई, 1988 (अपराह्न) ।
28. ले० जन० जी० बी० बिप्रादी (आई० सी०-6157), इनफो०-31 जुलाई, 1988 (अपराह्न) ।
29. मे० जन० एस० लाल सुक्ल (आई० सी०-6218), ए० ओ० सी०-31 जुलाई, 1988 (अपराह्न) ।
30. मे० जन० प्रेम प्रकाश (आई० सी०-6423), ई० एम० ई०-31 जुलाई, 1988 (अपराह्न) ।
31. मे० जन० बी० एस० डायर (आई० सी०-7350), वि० से० मे०, इनफो०-31 जुलाई, 1988 (अपराह्न) ।
32. ब्रिग० रतन सिंह (आई० सी०-8133), आर्टी०-31 जुलाई, 1988 (अपराह्न) ।
33. ब्रिग० ए० एम० शास्त्री (आई० सी०-8231), इन्जी०-31 जुलाई, 1988 (अपराह्न) ।
34. ब्रिग० आर० पी० श्रीवस्तव (आई० सी०-6679), ई० एम० ई०-31 जुलाई, 1988 (अपराह्न) ।
35. ब्रिग० एल० एम० कपूर (आई० सी०-7920), जैंग०-31 जुलाई, 1988 (अपराह्न) ।
36. कर्न० (ए०/ब्रिग०) बी० एल० सेठी (आई० सी०-10616), इन्जी०-31 जुलाई, 1988 (अपराह्न) ।
37. मे० कर्न० (ए०/ब्रिग०) जी० आर० एस० सिवाच (आई० सी०-8145), इनफो०-31 जुलाई, 1988 (अपराह्न) ।
38. ब्रिग० (ए०/मे० जन०) डी० के० चावला (आई० सी०-7907), ए० ई० सी०-31 अगस्त, 1988 (अपराह्न) ।

39. ब्रिग० आई० डी० वशिष्ठ (आई० सी०-7043), अ० वि० से० मे०, इनफे०—31 अगस्त, 1988 (अपराह्न) ।
40. ब्रिग० वी० के० नायर (आई० सी०-7073), इनफे०—31 अगस्त, 1988 (अपराह्न) ।
41. ब्रिग० वी० के० चावला (आई० सी०-7611), अ० वि० से० मे०, आर्टी०—31 अगस्त, 1988 (अपराह्न) ।
42. ब्रिग० एस० ए० देशपाण्डे (आई० सी०-10625), ई० एम० ई०—31 अगस्त, 1988 (अपराह्न) ।
43. ब्रिग० वी० बी० थापा (आई० सी०-16038), इनफे०—31 अगस्त, 1988 (अपराह्न) ।
44. ब्रिग० ए० सी० बनर्जी (आई० सी०-5870), आर्टी०—31 अगस्त, 1988 (अपराह्न) ।
45. मे० जन० राम नाथ (आई० सी०-6153), एस० एम०, आर्टी०—30 सितम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
46. ब्रिग० हरजीत सिंह (आई० सी०-6799), ए० एस० सी०—30 सितम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
47. ब्रिग० वी० के० मलिक (आई० सी०-7157), आर्टी०—30 सितम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
48. ब्रिग० पी० जे० थोमस (आई० सी०-7395), आर्टी०—30 सितम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
49. ब्रिग० टी० के० गुप्ता (आई० सी०-7361), इनफे०—30 सितम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
50. ब्रिग० ए० डी० चौबल (आई० सी०-7720), वि० से० मे०, इनफे०—30 सितम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
51. ब्रिग० एम० पी० गुप्ता (आई० सी०-7461), इन्ट० कोर—30 सितम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
52. ले० जन० एस० एल० मेहरोत्रा (आई० सी०-7218), सिग०—31 अक्टूबर, 1988 (अपराह्न) ।
53. मे० जन० वाई० बी० जोशी (आई० सी०-7935), इन्जी०—31 अक्टूबर, 1988 (अपराह्न) ।
54. मे० जन० के० एस० पेन्डसे (आई० सी०-6413), ई० एम० ई०—31 अक्टूबर, 1988 (अपराह्न) ।
55. ब्रिग० जी० के० डोंगरा (आई० सी०-7040), इन्जी०—31 अक्टूबर, 1988 (अपराह्न) ।
56. ब्रिग० पी० के० कौल (आई० सी०-7630), इनफे०—31 अक्टूबर, 1988 (अपराह्न) ।
57. ब्रिग० ए० ए० वाग (आई० सी०-7636), आर्टी०—31 अक्टूबर, 1988 (अपराह्न) ।
58. ले० जन० एल० एस० रावत (आई० सी०-5316), ए० वी० एस० एम०, इनफे०—30 नवम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
59. मे० जन० एन० सोन्नी (आई० सी०-6130), ए० वी० एस० एम०, आर्टी०—30 नवम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
60. मे० जन० एच० एस० सोनी (आई० सी०-6187), इन्जी०—30 नवम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
61. मे० जन० जे० वरगिस (आई० सी०-6181), वि० से० मे०, ए० एस० सी०—30 नवम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
62. मे० जन० एन० के० कन्धारी (आई० सी०-7691), ए० एस० सी०—30 नवम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
63. ब्रिग० डी० एस० सिधू (आई० सी०-7025), अ० वि० से० मे०, वि० से० मे०, इनफे०—30 नवम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
64. ब्रिग० एस० एल० कपूर (आई० सी०-7836), इनफे०—30 नवम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
65. ब्रिग० एम० एम० एल० सेहगल (आई० सी०-8186), आर्टी०—30 नवम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
66. मे० जन० जी० के० सेन (आई० सी०-6109), इन्जी०—31 दिसम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
67. मे० जन० एस० पी० मुलाटी (आई० सी०-6454), आर्टी०—31 दिसम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
68. ब्रिग० आर० के० सिंह (आई० सी०-7113), अ० वी० च०, इनफे०—31 दिसम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
69. ब्रिग० आर० के० वर्मा (आई० सी०-7456), अ० वि० से० मे०, आर्टी०—31 दिसम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
70. ब्रिग० वी० के० कपूर (आई० सी०-7822), आर्टी०—31 दिसम्बर, 1988 (अपराह्न) ।
71. ब्रिग० एस० जैकब (आई० सी०-8151), ए० ओ० सी०—31 दिसम्बर, 1988 (अपराह्न) ।

प्र० जी० सक्सेना,
सहायक सेना सचिव/एम० एस० (एक्स)

सं० 889, दिनांक 29 जुलाई 91—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सेवा निवृत्ति आयु प्राप्त होने पर सेवा निवृत्त करते हैं :—

प्रादेशिक सेना कमीशन

1. लेफ्टिनेंट देवीदास बाजीराव पटेल, टी० ए०-41780 इन्जी०—31 जन० 91 (ए० एन०) ।
2. लेफ्टि० महेन्द्र सिंह बली, टी० ए०-41787 इन्जी०—31 जन० 91 (ए० एन०) ।
3. लेफ्टि० निरंजन रामजीकलाल भूपतकर, टी० ए०-41804 इन्जी०—27 फरवरी 91 (ए० एन०) ।

4. लेफ्टि० धरमपाल कपूर, टी०ए०-41784 इंजी०-30
जून 90 (ए० एन०) ।

सं० 890, दिनांक 29 जुलाई 91—राष्ट्रपति निम्नलिखित, अधिकारियों को प्रादेशिक सेना सेवा से निष्कासित करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक सेना धर्मोशन

ले कर्नल (टी० एस०) पंचम सिंह (टी० ए०-41150 एल०),
इन्फैन्ट्री—30 जून 90 ए० एन० ।

कैप्टन के० डी० मोटल (टी० ए०-41068), इन्फैन्ट्री—
15 नव० 90 (पूर्वाह्न) ।

जे० सी० शर्मा
अवर सचिव

सैनिक अभियंता सेवाएं

सं० 891, तिथि 15 जुलाई 91—निम्नलिखित अधिकारी, उनके नाम के सामने लिखी हुई तिथि से सेवा-निवृत्त हुए :—

एम० ई० एस०-125013 श्री डी० एस० पूरनदारे
सैनियर आर्चीटेक्ट—28 फरवरी 91 (अपराह्न) ।

सं० 892, तिथि 15 जुलाई 91—निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने लिखी हुई तिथि से सेवा-निवृत्त हुए :—

एम० ई० एस०-181376 श्री एस० एस० जोशी
चीफ इंजीनियर —30 अप्रैल 91 (अपराह्न) ।

श्रीमती रीटा चटर्जी
अवर सचिव

(एम० एस० शाखा)

सं० 893 तारीख 4 मार्च 91—एम०एस० शाखा के आशु-लिपिक ग्रेड "बी" श्री बी० के० गांधी 7-2-91 को 58 वर्ष की निवर्तन आयु को प्राप्त होने पर दिनांक 28-2-91 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त तथा दिनांक 1-3-91 (पूर्वा०) से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित ।

टी० एस० स्याल
निदेशक (टी० एस०)

वायुसेना

सं० 894, तारीख 15 जुलाई 91—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को उनके सामने दी गयी तारीख से स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायुसेना

वैमा० इंजी (इलैक्ट) शाखा

प्रशासन शाखा

1. विंग कमांडर पी० राठीनाथ, (9690) वैमा० इंजी० (इलैक्ट०)
28-2-90 (ए० डी०) ।

6-204 GI/91

2. विंग कमांडर ए० के० जैन (9944), वैमा० इंजी० (इलैक्ट)—
31-3-90 (ए० डी०) ।

3. विंग कमांडर ए० के० मिश्रा (11689) प्रशासन—31-3-90
(ए० डी०) ।

सं० 895, तारीख 15 जुलाई 91—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को उनके सामने दी गयी तारीख से स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्त होने की अनुमति, प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायुसेना

शिक्षा शाखा

विंग कमांडर इंजी० सानथम (8833)—31-10-90 (ए० डी०)

उड़ान (पायलट) शाखा

विंग कमांडर एस० एस० अंसारी (11365)—14-9-90
(ए० डी०) ।

विंग कमांडर एन० श्रीवास्तवा (11034)—31-10-90
(ए० डी०) ।

ग्रुप कैप्टन टी० जयरामन (9474)—30-6-90 (ए० डी०)

वैमा० इंजी (इलैक्ट०) शाखा

ग्रुप कैप्टन एस० चन्द्रमौली (6571)—30-4-90
(ए० डी०) ।

स्क्वाड्रन लीडर आई० जे० सिंह (14129)—30-9-90
(ए० डी०) ।

प्रशासन शाखा

विंग कमांडर के० के० कपूर (8738)—30-9-90 (ए० डी०) ।

विंग कमांडर एस० एन० रथ (8680)—31-3-90
(ए० डी०) ।

विंग कमांडर एस० बालाकृष्णन (9189)—31-8-90
(ए० डी०) ।

विंग कमांडर आर० पी० खन्ना (9193)—31-3-90
(ए० डी०) ।

उड़ान पायलट शाखा

विंग कमांडर पी० आर० पोटनीस (9544)—30-6-90
(ए० डी०) ।

विंग कमांडर एम० एस० माहली (9534)—30-6-90
(ए० डी०) ।

विंग कमांडर जी० पी० एस० सिद्धू (11315)—28-2-90
(ए० डी०) ।

उड़ान (नेवी) शाखा

विंग कमांडर डी० वी० भागवत (11274)—24-7-90
(ए० डी०) ।

विंग कमांडर वाई० पी० सिंह (9867)—31-3-90
(ए० डी०) ।

विंग कमांडर एस० एस० फांसे (9862)—30-6-90
(ए० डी०)।

वैमा० इंजी० (इलैक्ट०) शाखा

स्क्वाड्रन लीडर वी० एस० लाम्बा (14130)—31-8-90 (ए० डी०)।

ग्रुप कैप्टन वी० चन्द्रसकरन (6850)—31-5-90
(ए० डी०)।

विंग कमा० ए०के० टंडन (7919)—28-2-90 (ए० डी०)।

विंग कमा० के० आर० कृष्णामूर्ति (6829)—
28-2-90 (ए० डी०)।

उड़ान (पायलट) शाखा

विंग कमा० ए० भल्ला (9730)—30-6-90 (ए० डी०)।

ग्रुप कैप्टन वी० के० श्रीर (6862)—22-12-88 (पूर्वाह्न)।

विंग कमा० जी० एस० गिल (11426)—31-3-90
(ए० डी०)।

विंग कमांडर वी० के० जोशी (8703)—31-3-90
(ए० डी०)।

विंग कमा० ए० सी० केलकर (11662)—16-3-90
(ए० डी०)।

एयर कमांडर ए० के० सिंह (6336)—30-6-90
(ए० डी०)।

परिभारिका शाखा

विंग कमा० वाई० मेहता (7560)—31-7-90
(ए० डी०)।

विंग कमा० वी० राघव (10022)—31-5-90
(ए० डी०)।

वैमा० इंजी (यांत्रिक) शाखा

पायलट अफसर पी० पुंज (20234)—30-11-90
(पूर्वाह्न)।

विंग कमा० पी० के० रामामूर्ति (7320)—20-3-90
(ए० डी०)।

उड़ान (पायलट) शाखा

विंग कमा० एन० एस० मंगत (10129)—30-11-90
(ए० डी०)।

ग्रुप कैप्टन ए० सी० चौधरी (7604)—10-7-90
(ए० डी०)।

विंग कमा० एस० के० भौमिक (11606)—15-6-90
(ए० डी०)।

वी० बालागोपालन

स्क्वाड्रन लीडर

ए डी पी ओ 3 (एफ)

कृते ए डी पी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 24th August 1991

No. 854, dated 18th July 1991.—The President is pleased to appoint Shri J. S. Rana, IAS (GJ: 75) on transfer from Govt. of Gujarat as Director in the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 17th July 1991 upto 31-5-1996 or until further orders, whichever is earlier.

No. 855, dated 19th July 1991.—The President is pleased to appoint Shri Janardhan Sahay, ISS, Deputy Chief Director of Purchase, Ministry of Defence, as Director in the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 16-7-1991 upto 31-5-1993 or until further orders, whichever is earlier.

No. 858, dated 4th July, 1991.—The President is pleased to appoint/extend the appointment of the following Section Officers of CSS of the Ministry of Defence to officiate as Desk Officers in the Ministry for the period(s) mentioned against each or, until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	From	To
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	G.D. Nangal	1-7-1991	30-9-1991
2.	Mukesh Singhal	1-7-1991	30-9-1991
3.	U.K. Jindal	1-7-1991	30-9-1991
4.	Ram Krishan	1-7-1991	30-9-1991
5.	S.P.S. Sangwan	1-7-1991	30-9-1991
6.	S.T. Vijayaraghavan	1-7-1991	30-9-1991
7.	Prem Kumar Hans	1-7-1991	30-9-1991

No. 856, dated 28th June 1991.—The President is pleased to appoint Shri K. P. Kamalakaran, as Additional Private Secretary to Raksha Mantri (Shri Sharad Pawar) in the pay scale of Rs. 3000—4500/- with effect from the forenoon of 28th June 1991 till the Minister demits office, or until further orders, whichever is earlier.

No. 857, dated 15th July 1991.—The President is pleased to appoint Shri P. R. Bhagawat as Additional Private Secretary to Raksha Mantri (Shri Sharad Pawar) in the pay scale of Rs. 3000—4500/- with effect from the forenoon of 9th July 1991, till the Minister demits office or until further orders, whichever is earlier.

1	2	3	4
8.	S.S. Bedi	1-7-1991	30-9-1991
9.	D.N. Kataria	1-7-1991	30-9-1991
10.	D.R. Mehra	1-7-1991	30-9-1991
11.	J.P. Gupta	1-7-1991	30-9-1991
12.	V.K. Kapoor	1-7-1991	30-9-1991
13.	Om Prakash	1-7-1991	30-9-1991
14.	Dilbagh Singh	1-7-1991	30-9-1991
15.	R.N. Guha	1-7-1991	30-9-1991
16.	Balram Verma	17-6-1991 (FN)	30-9-1991
17.	Suman K. Sharma	21-6-1991 (FN)	30-9-1991

No. 859, dated 2nd July 1991.—The President is pleased to appoint the following Section Officers of CSS Cadre as Under Secretaries on ad-hoc basis in the Ministry of Defence for periods as mentioned against each or until further orders, whichever is earlier.

Sl. No.	Name of the Officer	From	To
	S/Shri		
1.	N.C.S. Negi	18-7-91	17-10-91 with a day's break on 17-7-1991.
2.	K.M. Goel	12-7-91	11-10-91 with a day's break on 11-7-1991.
3.	Sachindra Sharma	17-7--91	16-10-91 with a day's break on 16-7-1991.
4.	Des Raj Sharma	15-7-91	14-10-91 with breaks on 12-7-91, 13-7-91 & 14-7-91.

The aforesaid appointments are subject to the outcome of the SLP pending before the Supreme Court in the Union of India Vs. Amrit Lal & others.

No. 860, dated 22nd July 1991.—The President is pleased to appoint the following Section Officers of CSS of the Ministry of Defence to officiate as Desk Officers in the Ministry for the period(s) mentioned against each or, until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	From	To
	S/Shri		
1.	R.S. Dudani	9-7-1991	30-9-1991
2.	Diwan Chand	10-7-1991	30-9-1991
3.	V.K. Mehta	9-7-1991	30-9-1991
4.	A.K. Madan	11-7-1991	30-9-1991
5.	Smt. Shakuntala Jain	24-6-1991	30-9-1991
6.	S.K. Deb	14-6-1991	30-9-1991

No. 861, dated 18th July 1991.—On reversion from deputation to National Commission on Rural Labour, Shri S. K. Sud, Private Secretary (Pay Scale Rs. 2000—3500/-) resumed charge as Private Secretary of CSSS cadre of Ministry of Defence with effect from the afternoon of 15th July 1991.

No. 862, dated 27th June 1991.—Consequent upon his nomination for inclusion in the Select List of Merged Grades 'A&B' of CSSS (now Private Secretary—Pay Scale Rs. 2000—3500) for the year 1989, in the Ministry of Environment and Forests, Shri S. M. Fotedar, a permanent Grade 'C'

Stenographer of CSSS, presently officiating on ad hoc basis in Merged Grades 'A&B' of CSSS in the Ministry of Defence is relieved of his duties in this Ministry with effect from the forenoon of 1st July 1991.

No. 863, dated 4th July 1991.—The President is pleased to appoint Smt. Rita Mehta, permanent Grade 'C' Stenographer of CSSS, Ministry of Defence Cadre as Private Secretary (pay scale: Rs. 2000—3500) on ad-hoc basis with effect from 1-7-1991 to 31-8-1991, or till further orders, whichever is earlier.

No. 864, dated 29th July 1991.—On expiry of tenure/leave granted to him, the services of Shri A. P. Chopra, IRAS, Joint Secretary and Addl. FA, Ministry of Defence, are placed at the disposal of, Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi, with effect from the forenoon of 1-8-1991.

G. B. WADAWADIGI, Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 865, dated 11th June 1991.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be 2/Lts with effect from 16 Dec 89

Suneet Vir Singh (IC-49047P) Inf seniority below Ashwani Kumar (IC-49046M) Arty, Bikramjeet Kanwarpal (IC-46052A) AC seniority below Sanjay R Pande (IC-49051X) Arty, Pankaj Bhargava (IC-49112K) Engrs seniority below Sanjay Kumar Dahiya (IC-49111F) EME, Surindra Singh Gusain (IC-49173F) ASC seniority below Mohinder Pal Singh (IC-49172Y) Inf, Anand Acharya (IC-49190F) Arty seniority above Manish Dhawan (IC-49191K) ASC, Satchit Hemant Hasabnis (IC-49203N) Arty seniority below Vikram Shedha (IC-49202L) Inf, John Mathew (IC-49277H) Arty seniority above Sandeep Nain (IC-49278L) Arty, Sunil Nair (IC-49283W) AOC seniority below Virinder Singh Hundal (IC 49282N) Inf, Sudhakar Tyagi (IC-49293A) Arty seniority below Ajay Uniyal (IC-49292X) Engrs, Shabib Haider Naqvi (IC-49308X) Inf seniority above Sanjay Khanna (IC-49310P) Inf, Sanjay Singh Thakur (IC-49327H) Inf seniority below Trilochan Sahni (IC-49326P) Inf, whose names had been appeared in the Gazette of India, Min of Def Notification published on 08 Sep 90 and 24 Nov 90.

BK JAIN
Maj

Offg AMS/Initial Commission

(QMG's BRANCH)

No. 866, dated 25th April 1991.—The following Assistant Civilian Staff Officers are appointed as Officiating Civilian Staff Officers of AFHQ Civil Service, under Rule 10(2) of AFHQ Civil Service Rules, 1968 with effect from the dates shown against their names upto and including 14-4-91 or till regular incumbents become available, whichever is earlier:—

1. Shri Ramji Lal—15-10-90.
2. Shri K. Siddharthan—15-10-90.
3. Shri Komal Singh—17-10-90.
4. Shri JR Goyal—15-10-90.
5. Shri Mukandi Lal—15-10-90.
6. Shri Jagdeo Singh—15-10-90.
7. Shri RS Kharag—15-10-90.
8. Shri T. Gange—15-10-90.
9. Smt. Sudeshna Gupta—15-10-90.
10. Shri Mathew S Abraham—15-10-90.

2. These appointments are made purely as stop-gap arrangements and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

S. LOGANATHAN
Dy. Chief Administrative Officer

No. 867, dated 3rd July 1991.—The President is pleased to make the following appointment:—

TERRITORIAL ARMY
(TERRITORIAL COMMISSION)

To be 2/Lt (On probation)

SRUNGAVARAPU SRINIVAS (TA-42086), Engrs, 20 Jan 91.

R. S. DUDANI
Desk Officer

(KARYALAYA MAHA NIDESHAK SASHAstra SENA
CHIKITSA SEWA)

No. 868, dated the 15th July 1991.—The President is pleased to appoint Shri DS Dubey as Store Officer (Civilian) in Directorate of Standardisation with effect from 19 June 91 (FN) till further orders. He will be on probation for a period of two years.

JD PAL
Col
ADG (Ping)

(Military Engineer Service)

No. 869, dated 10th July 1991.—Engineer-in-Chief is pleased to appoint the following office superintendent Gde I as Adm Officer Gde II with effect from the dates shown against their names, until further orders. The officers will be on probation for a period of two years:—

- (a) MES-237040 Shri Amaresh Chandra Bhattacharjee—26-07-90 (FN).
- (b) MES-210019 Shri Sunil Kumar Ganguly—05-10-90 (FN).
- (c) MES-303191 Shri Munshi Ram—11-12-90 (FN).
- (d) MES-302456 Shri Manohar Lal Kalra—05-02-91 (FN).
- (e) MES-460082 Shri Kanwal Sheel Jain—05-04-91 (FN).
- (f) MES-8463696 Shri J S Kapoor—16-04-91 (FN).

No. 870, dated 10th July 1991.—The Engineer-in-Chief is pleased to appoint the following Supdt B/R Gde I as Assistant Engineer B/R with effect from the dates shown against their names, until further orders. The officers will be on probation for a period of two years:—

- (a) MES-127570 Shri B. Chikkapauttaiah—23 Jan 91 (FN).
- (b) MES-436488 Shri S S Dubey—24 Nov 90 (FN).
- (c) MES-408264 Shri S Sindhwani—21 Nov 90 (FN).
- (d) MES-440091 Shri K K Gupta—26 Nov 90 (FN).
- (e) MES-435383 Shri B P Gupta—18 Mar 91 (FN).
- (f) MES-440077 Shri S M N Goswami—25 Feb 91 (FN).
- (g) MES-440085 Shri N C Pandey—18 Jan 91 (FN).
- (h) MES-181085 Shri B Ashok Verma—06 Mar 91 (FN).
- (j) MES-148046 Shri M V Krishna—19 Dec 90 (FN).

No. 871, dated 10th July 1991.—The Engineer-in-Chief is pleased to appoint the following Supdt E/M Gde I as Assistant Engineer, Elect/Tech with effect from the dates shown against their names, until further orders. The officers will be on probation for a period of two years:—

- (a) MES-466333 Shri D Mazumdar—24 Dec 90 (FN).
- (b) MES-470011 Shri Rajender Singh—15 Nov 90 (FN).
- (c) MES-447592 Shri Devendra Pal Singh—12 Nov 90 (FN).
- (d) MES-440291 Shri OM Prakash Saxena—14 Dec 90 (FN).

S. KAPUR
Col
Dir Pers 'B'

ARMY BRANCH

No. 872, dated 29th July 1991.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS

(Religious Teachers)

To be Nb Sub

- Rishi Pal Vedalankar (Now JC-206459M), 17 Dec 90.
Suresh Chander Sehla (Now JC-206460F), 17 Dec 90.
Bagesh Kumar (Now JC-206461K), 15 Apr 91.
Narottam Tripathi (Now JC-206462M), 15 Apr 91.

(ARMY BRANCH)

No. 873, dated 3rd June 1991.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Nb Sub

Hav Azad Singh (No. 9506423A now JC-206318X), 19th Mar 1991.*

Hav Sarb Mohan Singh (No. 9506429F now JC-206319A), 24th Jan 1991.*

Hav Bhoj Raj Singh (No. 9506450K now JC-206320P), 30th Mar 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Kishan Lal Yadav (No. 9506514K now JC-206321X), 27th Mar 1991.**

Hav Vinod Kumar (No. 9506479M now JC-206322A), 14th Mar 1991.**

Hav Pratap Singh (No. 9506472H now JC-206323H), 05th Mar 1991.**

Hav Yag Pal (No. 9506502P now JC-206324L), 21st Mar 1991.**

Hav Tilak Raj (No. 9506554L now JC-206325N), 23rd Mar 1991.**

Hav Tapan Kumar Pal (No. 9506565X now JC-206326W), 23rd Mar 1991.**

Hav Sadhan Kumar Chakrabarti (No. 9506575F now JC-206327Y), 30th Mar 1991.**

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Amrit Lal Dhull (No. 9506589F now JC-206328F), 23rd Mar 1991.@

Hav Sumer Singh (No. 9506590W now JC-206329K), 01st Mar 1991.@

Hav Lakhmi Chand Darolia (No. 9506597A now JC-206330Y), 11th Mar 1991.@

Hav Gurmukh Singh Ajrah (No. 9506598H now JC-206331F), 05th Apr 1991.@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Om Parkash (No. 9506603H now JC-206332K), 13th Apr 1991.@

Hav NK Santhakumar (No. 9506606W now JC-206333M), 21st Mar 1991.@

Hav Ram Kishan Suhag (No. 9506608F now JC-206334P), 06th Apr 1991.@

Hav Pokhar Mal Ruhela (No. 9506610Y now JC-206335X), 14th Mar 1991.@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Rameshver Dass Saini (No. 9506630M now JC-206336A), 01st Apr 1991.

Hav Diwakar Chaubey (No. 9506655Y now JC-206337H), 01st Apr 1991.

Hav Padmanabhan Asarikkandiyil (No. 9506683L now JC-206338L), 01st Apr 1991.

M. L. SALHOTRA

Under Secy.

No. 874, dated 29th July 1991.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Corps of Electrical and Mechanical Engineers

To be Sub Clk (GD)

- Naib Sub Dhaneswar Gogoi (JC-144430Y), 01 Sep 1990.
Naib Sub Mathai MT (JC-144437Y), 01 Nov 1990.
Naib Sub Chander Bhan (JC-144488Y), 01 Dec 1990.
Naib Sub Sharafatullah (JC-146337W), 01 Dec 1990.
Naib Sub Balbir Singh (JC-146338Y), 01 Dec 1990.
Naib Sub Janardhan Tiwari (JC-146339N), 01 Dec 1990.
Naib Sub Chandrasekharan (JC-146340W), 01 Dec 1990.
Naib Sub Ram Lachman Ram (JC-146341Y), 01 Dec 1990.
Naib Sub Balwant Singh Rawat (JC-146342F), 01 Jan 1991.
Naib Sub Des Raj Sharma (JC-146905W), 01 Jan 1991.
Naib Sub Ram Kanwar (JC-147980P), 01 Jan 1991.
Naib Sub Karam Singh Choudhary (JC-147982X), 01 Jan 1991.
Naib Sub Manohar Lal Datta (JC-149636A), 01 Jan 1991.
Naib Sub Dinanath Singh (JC-146908K), 01 Jan 1991.
Naib Sub Sant Ram Saxena (JC-146909M), 01 Jan 1991.
Naib Sub Devi Lal Sharma (JC-149851L), 01 Jan 1991.
Naib Sub Balbir Singh (JC-146910F), 01 Jan 1991.
Naib Sub Shiv Chand (JC-149635X), 01 Jan 1991.
Naib Sub Jagdish Chandra Joshi (JC-147984H), 01 Jan 1991.
Naib Sub Deo Narayan Mahto (JC-146914X), 01 Jan 1991.
Naib Sub Ram Narayan Bhardwaj (JC-146915A), 01 Jan 1991.
Naib Sub Dhanna Lal Lunia (JC-146916H), 01 Jan 1991.
Naib Sub Chandrika Rai (JC-147985L), 01 Feb 1991.
Naib Sub Trilok Nath (JC-134897W), 01 Feb 1991.
Naib Sub Gian Chand Nirala (JC-147986N), 01 Feb 1991.
Naib Sub Gopal Singh Rathore (JC-146918L), 01 Feb 1991.
Naib Sub Surender Singh (JC-147988K), 01 Feb 1991.
Naib Sub Balbir Singh Bhullar (JC-149637H), 01 Mar 1991.
Naib Sub Neeru Ram (JC-149852N), 01 Mar 1991.
Naib Sub Mangonam Deo Suralkar (JC-149640H), 01 Mar 1991.
Naib Sub Dharam Chand Tehri (JC-153367W), 01 Mar 1991.
Naib Sub Prabhu Singh Shekhawat (JC-153370W), 01 Mar 1991.
Naib Sub Ramji Lal Shivhar (JC-155241P), 01 Mar 1991.
Naib Sub Om Prakash Pathak (JC-154073P), 01 Mar 1991.

Naib Sub Mohd Nazibar Rehman (JC-155242X), 01 Mar 1991.

Naib Sub Angad Singh (JC-155244H), 01 Mar 1991.

Naib Sub Madhusudan Bhoi (JC-155245L), 01 Mar 1991.

Naib Sub Bansi Ram Rana (JC-155246N), 01 Mar 1991.

To be Sub SK Tech

Naib Sub Balagopalan Nambiar Kannothe Kuttiyetan (JC-162661X), 01 Nov 1990.

Naib Sub Sri Ram (JC-162662A), 01 Nov 1990.

Naib Sub Manbag Singh Bist (JC-163782L), 01 Dec 1990.

Naib Sub Didar Singh (JC-163786F), 01 Dec 1990.

Naib Sub Shri Niwas Tripathi (JC-166457W), 01 Jan 1991.

Naib Sub Subash Chandra Biswas (JC-163787K), 01 Jan 1991.

Naib Sub Dhirendranath Paul (JC-163789A), 01 Jan 1991.

Naib Sub Tarsem Singh (JC-164166X), 01 Jan 1991.

Naib Sub Kameswaranath Upadhyay (JC-134955P), 01 Mar 1991.

To be Sub Armrs

Naib Sub Chinnappa Rajarathinam (JC-165896P), 01 Dec 1990.

Naib Sub Heera Ram (JC-169072K), 01 Dec 1990.

Naib Sub Swarup Singh Randhawa (JC-169075X), 01 Dec 1990.

Naib Sub Pritam Das (JC-170889H), 01 Jan 1991.

Naib Sub Gournitai Sarma (JC-170890X), 01 Jan 1991.

Naib Sub KO Philip (JC-170892H), 01 Jan 1991.

Naib Sub Malkit Singh (JC-170893L), 01 Jan 1991.

Naib Sub Girraj Singh (JC-170833W), 01 Jan 1991.

Naib Sub Sukh Dev Singh (JC-170792X), 01 Jan 1991.

Naib Sub Ram Binay Singh (JC-170793A), 01 Jan 1991.

Naib Sub Bishan Singh (JC-170794H), 01 Mar 1991.

Naib Sub Datta Jadhav Kahion (JC-170835F), 01 Mar 1991.

To be Sub Rec Mech

Naib Sub Daleep Chand (JC-177604N), 01 Sep 1990.

Naib Sub Roshan Lal (JC-179113W), 01 Oct 1990.

Naib Sub Inder Singh (JC-179115F), 01 Nov 1990.

Naib Sub Banwari Lal (JC-179119X), 01 Nov 1990.

Naib Sub Inder Jit (JC-179123A), 01 Dec 1990.

Naib Sub Jaipal Singh (JC-18947N), 01 Jan 1991.

Naib Sub Girand Singh (JC-179127W), 01 Jan 1991.

Naib Sub Madan Lal (JC-179128Y), 01 Jan 1991.

Naib Sub Sardar Singh (JC-179129F), 01 Jan 1991.

Naib Sub Sardara Ram (JC-179130W), 01 Jan 1991.

Naib Sub Ved Ram (JC-184205M), 01 Jan 1991.

Naib Sub Pritam Singh (JC-181173K), 01 Feb 1991.

Naib Sub Shankar Das (JC-181174M), 01 Feb 1991.

Naib Sub Tara Singh (JC-182438P), 01 Feb 1991.

Naib Sub Mahabir Prasad Yadav (JC-187872L), 01 Feb 1991.

Naib Sub Kishan Singh (JC-187873X), 01 Mar 1991.

Naib Sub Mohinder Singh (JC-182365M), 01 Mar 1991.

Naib Sub Sham Lal (JC-181178H), 01 Mar 1991.

Naib Sub Dharampal (JC-181177L), 01 Mar 1991.

To be Sub Artzn (NE)

Naib Sub Parshotam Singh (JC-167747A), 01 Oct 1990.

Naib Sub Attar Singh (JC-167847L), 01 Nov 1990.

Naib Sub Shankar Singh (JC-169095L), 01 Dec 1990.

Naib Sub Rajendra Moktan (JC-170897F), 01 Dec 1990.

Naib Sub Ram Bahadur Thapa (JC-170807P), 01 Dec 1990.

Naib Sub Ram Gopal (JC-170803Y), 01 Dec 1990.

Naib Sub Nani Gopal Basu (JC-170840M), 01 Dec 1990.

Naib Sub Jai Karan (JC-170841P), 01 Jan 1991.

Naib Sub Sahib Din (JC-170842K), 01 Jan 1991.

Naib Sub Ganga Prasad Pandey (JC-174409L), 01 Jan 1991.

Naib Sub Gowri Shankar (JC-172490H), 01 Jan 1991.

Naib Sub Karuna Kanta Baruah (JC-172491M), 01 Jan 1991.

Naib Sub Bhimrao Sawant (JC-174399M), 01 Jan 1991.

Naib Sub Bhagwan Singh Negi (JC-174400W), 01 Feb 1991.

Naib Sub Ram Swarup (JC-174411H), 01 Feb 1991.

Naib Sub Brahm Dass (JC-174403K), 01 Feb 1991.

Naib Sub Kamlakanta Das (JC-174404M), 01 Feb 1991.

Naib Sub Sukh Ram Singh (JC-174405P), 01 Mar 1991.

Naib Sub Soni Lal (JC-176949H), 01 Mar 1991.

Naib Sub Sham Rao Shinde (JC-176927K), 01 Mar 1991.

Naib Sub Inder Singh Karki (JC-177596A), 01 Mar 1991.

S. K. RAY, Under Secy.

No. 875, dated 26th July, 1991.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Defence Security Corps

To be Sub Maj

Sub Gian Singh Rana (JC-96711P) 01 Mar 1991.

To be Sub

Nb Sub Naher Singh (JC-109504K) 01 Mar 1991.

Nb Sub Arjan Singh (JC-95199P) 01 Mar 1991.

Nb Sub Vijay Kumar Dubey (JC-122146H) 01 Mar 1991.

Nb Sub Didar Singh (JC-91971W) 01 Mar 1991.

Nb Sub Gopal Singh Pardhan (JC-94196P) 01 Mar 1991.

Nb Sub Darshan Singh (JC-96217Y) 01 Mar 1991.

Nb Sub Jiwa Singh (JC-109589L) 01 Mar 1991.

Nb Sub Gurdalay Singh Yadava (JC-87615Y) 01 Mar 1991.

Nb Sub Ganesh Bahadur Thapa (JC-60578M) 01 Mar 1991.

Nb Sub Rohtas (JC-130173F) 01 Apr 1991.

Nb Sub Mohammad Amanatullah Ansari (JC-130154W) 01 Apr 1991.

Nb Sub Indar Singh (JC-77368H) 01 Apr 1991.

Nb Sub PK Bala Nambiar (JC-82520P) 01 Apr 1991.

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Bhagyam Rajaiah (JC-143229F) 1st Mar 1990.

Nb Sub Mahaveer Singh Yadava (JC-153190N) 1st Jan 1991.

- Nb Sub Pathuvakkadan Kannothe Purushothaman Nambiar (JC-143150Y) 1st Feb 1991.
- Nb Sub Lakshman Rao (JC-186499K) 1st Feb 1991.
- Nb Sub Raj Mal (JC-176203M) 1st Feb 1991.
- Nb Sub Kamble Gangaram Balu (JC-187563H) 1st Feb 1991.
- Nb Sub Shri Ram (JC-162497A) 1st Feb 1991.
- Nb Sub Mohan Shyam Singh (JC-150418N) 1st Feb 1991.
- Nb Sub Om Pal Singh (JC-150417L) 1st Feb 1991.
- Nb Sub Ghisa Ram (JC-157605P) 1st Feb 1991.
- Nb Sub Dulare Singh (JC-175264X) 1st Feb 1991.
- Nb Sub Baldev Singh (JC-176266P) 1st Feb 1991.
- Nb Sub Ram Niwas Yadava (JC-182012N) 1st Feb 1991.
- Nb Sub Rajan KN (JC-177850Y) 1st Feb 1991.
- Nb Sub Krishna Ram (JC-182060N) 1st Feb 1991.
- Nb Sub Suresh Chandra (JC-197463L) 1st Feb 1991.
- Nb Sub Narendra Singh Chand (JC-148072W) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Indra Bahadur Gurung (JC-176254A) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Purna Bahadur Rai (JC-180398A) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Bal Bahadur Ale (JC-167766L) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Kuldip Singh (JC-182126Y) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Sharif Khan (JC-182127F) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Subash Chander (JC-180429P) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Tara Chand (JC-186691N) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Venkata Krishnarao Vaka (JC-190706H) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Kaippilly Raman Mohanan (JC-190683M) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Rishipal (JC-168248X) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Venugopalan PS (JC-175282A) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Karajange Mahadeo (JC-177842A) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Chaugule Vithoba Babu (JC-177843H) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Bal Kishan Gautam (JC-179633F) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Ramesh Chander (JC-171111W) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Mange Ram Malik (JC-176784P) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Gordhan (JC-176789M) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Krishan Pal Singh (JC-184649W) 1st Mar 1991.
- Nb Sub P Sekar (JC-190651K) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Sukhpal Singh (JC-173326N) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Karkhile Nathu (JC-157490M) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Gokal Singh (JC-193399F) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Jugal Singh (JC-167750A) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Indar Singh (JC-175244K) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Mahabir Singh (JC-184593P) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Amarjit Singh (JC-190577N) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Ram Niwas (JC-182020M) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Anuradha Tiwari (JC-174141Y) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Yad Ram (JC-162997X) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Ram Avtar Yadav (JC-152724F) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Mohan Lal Jat (JC-174155Y) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Venkateswarlu Jetty (JC-176595L) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Flix Fernandes (JC-180467L) 1st Mar 1991.
- Nb Sub V Krishna Murthi (JC-181992N) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Mahesh Chand Yadav (JC-182113F) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Karan Singh (JC-164566L) 1st Mar 1991.
- Nb Sub V Seenivasan (JC-195008K) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Bhanwar Singh Rajput (JC-127008L) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Amarnath Yadav (JC-134740W) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Pan Singh Bisht (JC-138367Y) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Rajagopalan Sundaravelu (JC-139438Y) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Nirmal Singh (JC-141009Y) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Raghbir Singh Yadava (JC-149075K) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Shiv Kumar Thapa (JC-149880A) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Madrira Subbaiah Muthappa (JC-151863Y) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Barmeshwar Singh (JC-153418Y) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Jagdish Chander (JC-157468F) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Ram Saran Singh (JC-163839P) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Sati Ram (JC-160637H) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Baljit Singh (JC-159364Y) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Kunwar Singh (JC-166987L) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Ram Singh (JC-168245K) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Shankar Rao Dagdu Panke (JC-167382N) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Satwant Singh (JC-169890L) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Mamidi Appa Rao (JC-169746W) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Sadanandan T (JC-169673P) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Durga Ram (JC-171017M) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Deochand (JC-170910A) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Lekh Bahadur Thapa (JC-174162P) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Ajab Singh (JC-169926Y) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Tholuvan Elumalai (JC-173303M) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Ram Pravesh Tiwari (JC-173306A) 1st Mar 1991.
- Nb Sub Raghbir Singh (JC-171437M) 1st Mar 1991.

Pioneer Corps

To be Sub Ck (GD)

Nb Sub Ck (GD) Anibran Singh (JC-174274P) 01st March 1991.

Nb Sub Ck (GD) Paras Ram (JC-174275X) 01st May 1991.

Nb Sub Ck (GD) Anand Singh Rawat (JC-174276A) 01st June 1991.

REGULAR ARMY

(Special List)

Regiment of Artillery

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Naresh Kumar Sharma (JC-206463-P) 13 Apr 1991.

Dinesh Chand Viyas (JC-206464-X) 13 Apr 1991.

Jai Prakash Sharma (JC-206465-A) 13 Apr 1991.

Corps of Signals

To be Subedar (Y of S)

Nb Sub Baban Nikam (JC-133071W) 1st May 1991.

Nb Sub Mahabir Singh Sangwan (JC-133073F) 1st May 1991.

Nb Sub Tej Narayan Singh (JC-133074K) 1st May 1991.

Nb Sub Parshotam Singh (JC-133075M) 1st May 1991.

To be Sudebar (F of S)

Nb Sub Viswalingam Sudarmani (JC-141124Y) 1st May 1991.

Nb Sub Hardial Singh (JC-141125F) 1st May 1991.

To be Subedar (OP Ciph)

- Nb Sub Dhian Singh Shan (JC-153912P) 1st Dec 1990.
 Nb Sub Joginder Singh Chaudhary (JC-153929H) 1st Dec 1990.
 Nb Sub Govindan Nair PKG (JC-165755A) 1st May 1991.
 Nb Sub Daya Dhar (JC-166311H) 1st May 1991.
 Nb Sub Radhey Shyam (JC-166312L) 1st May 1991.
 Nb Sub S N Chaudhari (JC-168136X) 1st May 1991.
 Nb Sub Manmadhan K K (JC-166549H) 1st May 1991.

To be Subedar (OP Spec)

- Nb Sub Ram Chandra Misra (JC-161138A) 1st May 1991.
 Nb Sub Kamal Kanti Sengupta (JC-161139H) 1st May 1991.
 Nb Sub Nawal Kishore Patel (JC-161140X) 1st May 1991.

To be Subedar (Clk GD)

- Nb Sub Banwari Lal Yadav (JC-150259F) 1st Dec 1990.
 Nb Sub Ram Singh (JC-158140M) 1st May 1991.
 Nb Sub Meenakshi Sundaram Shanmugam (JC-158141P) 1st May 1991.
 Nb Sub Het Ram (JC-157064Y) 1st May 1991.

To be Subedar (GD)

- Nb Sub Shree Bhagwan Singh (JC-158162L) 1st Aug 1990.
 Nb Sub Krishna Pillai Vijayan Nair (JC-158702Y) 1st Nov 1990.
 Nb Sub Piara Ram (JC-158730L) 1st Nov 1990.
 Nb Sub Puran Bahadur Gurung (JC-158743H) 1st Dec 1990.
 Nb Sub Bhup Singh (JC-161249X) 1st Jan 1991.
 Nb Sub Om Parkash (JC-161264M) 1st Jan 1991.
 Nb Sub Kulwant Singh (JC-161265P) 1st Jan 1991.
 Nb Sub Ram Babu Sharma (JC-161267A) 1st Jan 1991.
 Nb Sub Jai Mangal Prasad Sahu (JC-161271H) 1st Jan 1991.
 Nb Sub Dharam Singh (JC-161279P) 1st Jan 1991.
 Nb Sub Lattiff Syed Mohamed (JC-162541Y) 1st Jan 1991.
 Nb Sub Kailash Chand (JC-162553N) 1st Feb 1991.
 Nb Sub Bheek Singh Rathore (JC-162567N) 1st Feb 1991.
 Nb Sub Kanshi Ram (JC-162582H) 1st Feb 1991.
 Nb Sub Hari Krishna (JC-162590F) 1st Feb 1991.
 Nb Sub Mukhtiar Singh (JC-162593P) 1st Mar 1991.
 Nb Sub Jugal Kishor (JC-162594X) 1st Mar 1991.
 Nb Sub Uma Pati (JC-162595A) 1st Mar 1991.
 Nb Sub Gokul Singh (JC-162601H) 1st Mar 1991.
 Nb Sub Om Parkash (JC-162604W) 1st Mar 1991.
 Nb Sub Mohinder Singh (JC-162605Y) 1st Mar 1991.
 Nb Sub Mukh Bilas Sahu (JC-162607K) 1st Mar 1991.
 Nb Sub Ujaagir Ram (JC-162609P) 1st Mar 1991.
 Nb Sub Sohan Singh (JC-162615H) 1st Mar 1991.
 Nb Sub Ombir Singh (JC-162619Y) 1st Mar 1991.
 Nb Sub Karnail Singh (JC-162628A) 1st Mar 1991.
 Nb Sub Surat Singh (JC-162625M) 1st Mar 1991.
 Nb Sub Venkatappa Muniswamy (JC-162741P) 1st Apr 1991.

- Nb Sub Amar Singh (JC-162756X) 1st Apr 1991.
 Nb Sub Ramayan Pratap Singh (JC-162762L) 1st Apr 1991.
 Nb Sub Hari Chand (JC-162764W) 1st Apr 1991.
 Nb Sub Abhilakh Singh Pal (JC-162766F) 1st Apr 1991.
 Nb Sub SC Debnath (JC-162787X) 1st Apr 1991.
 Nb Sub Kirpal Singh (JC-162791A) 1st Apr 1991.
 Nb Sub Albel Singh (JC-162796Y) 1st Apr 1991.
 Nb Sub Dilip Kumar Talukdar (JC-162803K) 1st Apr 1991.
 Nb Sub Sardar Singh (JC-162808H) 1st Apr 1991.
 Nb Sub Mahendra Singh (JC-162810A) 1st Apr 1991.
 Nb Sub Mahalingappa Teli (JC-162811H) 1st May 1991.
 Nb Sub Dharam Pal Singh (JC-162812L) 1st May 1991.
 Nb Sub Hari Chand VSM (JC-162813N) 1st May 1991.
 Nb Sub Anandi Lal (JC-162814W) 1st May 1991.
 Nb Sub Mehnga Singh (JC-162815Y) 1st May 1991.
 Nb Sub Mohinder Singh Suhag (JC-162816F) 1st May 1991.
 Nb Sub Jagdish Prasad (JC-162817K) 1st May 1991.
 Nb Sub Ram Kumar (JC-163354M) 1st May 1991.
 Nb Sub Jaswant Singh (JC-162821M) 1st May 1991.
 Nb Sub Jai Ram Singh (JC-162824A) 1st May 1991.
 Nb Sub Jailabdin Abdul Sathar (JC-162825H), 1st May 1991.
 Nb Sub Ompal Singh (JC-162826L), 1st May 1991.
 Nb Sub Raghubir Singh (JC-162827N), 1st May 1991.
 Nb Sub Jaswant Singh (JC-162832Y), 1st May 1991.
 Nb Sub Thadathil Skariah Varughese (JC-162836P), 1st May 1991.
 Nb Sub Amar Nath Ram (JC-157112N), 1st May 1991.
 Nb Sub Baley Din (JC-157114Y), 1st May 1991.
 Nb Sub Sobran Singh (JC-158191A), 1st May 1991.
 Nb Sub Saryu Prasad Sachan (JC-162822P), 1st May 1991.
 Nb Sub Jagdish Rai (JC-162837X), 1st May 1991.
 Nb Sub Hoshiyar Singh (JC-162838A), 1st May 1991.
 Nb Sub Somendran MV (JC-162840X), 1st May 1991.
 Nb Sub Phool Singh (JC-162842H), 1st May 1991.
 Nb Sub Dalip Singh (JC-162844N), 1st May 1991.
 Nb Sub Joseph PM (JC-162845W), 1st May 1991.
 Nb Sub Raghu Nath (JC-162847F), 1st May 1991.
 Nb Sub Khetradhar Borah (JC-162848K), 1st May 1991.
 Nb Sub Ram Dutt Singh (JC-162849M), 1st May 1991.
 Nb Sub Bhaiya Lal (JC-162850F), 1st May 1991.
 Nb Sub Lal Masih (JC-162851K), 1st May 1991.
 Nb Sub Darmej Singh (JC-162852M), 1st May 1991.

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Nb Sub

- Hav Kewal Singh (No. 14306993P now JC-206466H), 01 Nov. 89.
 Hav Om Prakash Yadave (No. 14316296H now JC-206467L), 01 Mar 90.
 RHM Shingote Sadashiv Shripat (No. 1260769F now JC-206468N), 21 Mar 90.

BHM Durg Singh (No. 14326614P now JC-206469W), 22 Mar 90.

Hav AW Aiyappa (No. 14320488X now JC-206470L), 26 Mar 90.

Hav Suresh Matte (No. 14305070X now JC-206471N), 01 May 90.

Hav Kishori Lal (No. 1248567N now JC-206472W), 06 May 90.

BHM Ved Parkash (No. 11127043F now JC-206473Y), 01 June 90.

Hav Om Prakash (No. 1265096F now JC-206474F), 26 Jul 90.

Hav Mool Chand Yadava (No. 1251247K now JC-206475K), 04 Feb 91*.

*(Granted seniority wef 01 Aug 90 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Piara (No. 8019079A now JC-206476M), 01 Aug 90.

BHM Basu Dev (No. 1246071A now JC-206477P), 21 Aug 90*.

*(Granted seniority wef 07 Aug 90 without effect on pay and allowances).

BHM Ramesh Chand (No. 1252395F now JC-206478X), 24 Oct 90*.

*(Granted seniority wef 30 Aug 90 without effect on pay and allowances).

BHM Ishwar Dass (No. 1252816Y now JC-206479A), 24 Oct 90*.

*(Granted seniority wef 30 Aug 90 without effect on pay and allowances).

BHM Ishwar Singh (No. 1249251N now JC-206480P), 01 Sep 90.

Hav Ram Kishan (No. 14316609W now JC-206481X), 18 Sep 90*.

*(Granted seniority wef 01 Sep 90 without effect on pay and allowances).

Hav Bhawani Bahadur Chhetri (No. 5842132L now JC-206482A), 01 Sep 90.

Hav Balkar Singh (No. 14327028Y now JC-206483H), 01 Oct 90.

BHM Thag Bahadur Thapa (No. 5039542P now JC-206484L), 01 Nov 90.

Hav Hari Singh (No. 1243407K now JC-206485N), 25 Dec 90*.

*(Granted seniority wef 01 Dec 90 without effect on pay and allowances).

BHM Pratap Singh Atri (No. 1291260W now JC-206486W), 01 Dec 90.

Hav Shadi Singh (No. 1292800W now JC-206487Y), 14 Jan 91**.

*(Granted seniority wef 01 Dec 90 without effect on pay and allowances).

BHM N Swaminathan (No. 14316117X now JC-206488F), 01 Dec 90.

BHM Mast Ram (No. 1299128L now JC-206489K), 05 Dec 90.

BHM Veeram Lankeswara Rao (No. 14316097P now JC-206490Y), 01 Jan 91.

BHM Lal Singh (No. 14305051M now JC-206491F), 01 Jan 91.

BHM Govind Singh Panwar (No. 4053351P now JC-206492K), 01 Jan 91.

Hav Manjit Singh Rana (No. 14316235L now JC-206493M), 01 Jan 91.

BHM Jaishi Ram (No. 14303092X now JC-206494P), 01 Feb 91.

BHM Manohar Lal (No. 14320388M now JC-206495X), 01 Mar 91.

BHM Swarn Singh (No. 1294049M now JC-206496A), 01 Mar 91.

Hav Prem Singh (No. 14307258L now JC-206497H), 01 Mar 91.

RHM Bachan Singh (No. 1245503X now JC-206498L), 06 Mar 91.

Hav Jagroop Singh (No. 1287793F now JC-206499N), 19 Feb 91*.

*(Granted seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay and allowances).

Defence Security Corps

To be Sub Maj

Sub Rattan Singh (JC-81174X), 01 Feb 1991.

To be Sub

Nb Sub Ram Deo Roy (JC-129536H), 01 Nov 1990.

Nb Sub Asa Ram (JC-130172Y), 01 Dec 1990.

Nb Sub Rup Lal (JC-130183L), 01 Dec 1990.

Nb Sub Roshan Singh (JC-130135L), 01 Dec 1990.

Nb Sub Ram Pukar Singh (JC-123832H), 01 Jan 1991.

Nb Sub Nisar Ahmed (JC-130128P), 01 Feb 1991.

Nb Sub Shiv Narain Singh (JC-134466K), 01 Feb 1991.

Nb Sub Faqir Chand (JC-100538W), 01 Feb 1991.

Nb Sub Rasu M. N. (JC-104911H), 01 Feb 1991.

Nb Sub Ram Saran Singh (JC-129525F), 01 Feb 1991.

Nb Sub Shri Krishana (JC-129515X), 01 Feb 1991.

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Prem Singh (JC-146269N), 1st Feb 1990.

Nb Sub Nanda Bahadur Pun (JC-156277A), 1st Sep 1990.

Nb Sub Kunjukrishna Pillai Chandrasekharan Nair (JC-160013W), 1st Jan 1991.

Nb Sub Madava Mudauar Venkatasamy (JC-142113Y), 1st Jan 1991.

Nb Sub Mirka Ram Sandhani (JC-144071W), 1st Jan 1991.

Nb Sub Jang Singh (JC-167563L), 1st Jan 1991.

Nb Sub Mansha Ram (JC-148150H), 1st Jan 1991.

Nb Sub Lalji Ram (JC-138369K), 1st Jan 1991.

Nb Sub Makhan Singh (JC-147756A), 1st Jan 1991.

Nb Sub Gopi Ram (JC-149943X), 1st Jan 1991.

Nb Sub Madhava Panicker Thyagaraja Panicker (JC-153413A), 1st Feb 1991.

Nb Sub Sellan Thavasi (JC-178928L), 1st Feb 1991.

Nb Sub Karam Chand (JC-174207K), 1st Feb 1991.

Nb Sub Hari Ram (JC-169948X), 1st Feb 1991.

Nb Sub Sher Singh (JC-139299H), 1st Feb 1991.

Nb Sub Vajinath Angde (JC-155534A), 1st Feb 1991.

- Nb Sub Roshan Lal (JC-151069F), 1st Feb 1991.
 Nb Sub PP Nanaya (JC-155886X), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Raghunathan (JC-162493K), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Bikram Singh (JC-164883L), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Taorem Nityai Chand Singh (JC-166523N), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Gur Bahadur (JC-163849Y), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Karam Chand (JC-162683W), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Rulia Ram (JC-166995X), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Mahavir Singh Gill (JC-169667F), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Birendra Narayan (JC-167385K), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Ram Kumar (JC-166976Y), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Om Prakash Sharma (JC-174004A), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Mohan Singh (JC-169922H), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Piar Singh (JC-176251M), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Mehar Singh (JC-180423N), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Joginder Singh (JC-150412M), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Kujhiyani Devassy Paulson (JC-150390Y), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Gyasi Ram (JC-175276M), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Charanjit Singh (JC-158547H), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Sant Saran Singh (JC-169941N), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Harrawinder Singh (JC-172706A), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Kabal Singh (JC-176219X), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Parkash Chander (JC-134674Y), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Amar Singh (JC-139411K), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Maru Ram (JC-139485Y), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Sant Ram (JC-146229M), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Pritam Singh (JC-147751F), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Ravinder Singh (JC-150399N), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Tota Ram (JC-164137H), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Suetarama Somayajulu Josyulu (JC-158853X), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Krishnaiah (JC-166252F), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Pritam Singh (JC-168252A), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Veluchami Gothandaraman (JC-171089W), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Surinder Singh (JC-175487P), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Rohtas Kanwar (JC-174160K), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Ram Chand (JC-169925W), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Tarlok Singh (JC-170954X), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Sultan Singh (JC-171440M), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Kalyan Singh (JC-175555X), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Narpal Singh (JC-175494L), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Sher Singh (JC-175514N), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Bhoop Singh (JC-175513L), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Surander Singh (JC-175577W), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Samunder Singh (JC-177839A), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Augustine CJ (JC-176778F), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Suresh Kumar Kushwah (JC-180603W), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Patil Balkrishna Shiyaji (JC-180608P), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Ran Bahadur Singh (JC-193577Y), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Amarjit Singh (JC-174022H), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Ramji Lal (JC-176260N), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Patil Ashok Jagannath (JC-190612L), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Main Pal (JC-180454N), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Bhanwar Singh Rathore (JC-148118N), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Manohar Lal (JC-151046A), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Parkash Chand (JC-179643L), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Bal Krishan (JC-186553M), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Kuldip Singh (JC-186426X), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Kuldip Singh Chandel (JC-186489A), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Ganga Sagar Mishra (JC-184010F), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Mohan Swroop Sharma (JC-186514N), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Sher Singh (JC-155175X), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Rama Shankar Raj (JC-167643Y), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Joginder Kumar Tora (JC-127609W), 1st Feb 1991.
 Nb Sub Dattatray Chaugule (JC-171349W), 1st Feb 1991.
- Defence Security Corps**
To be Nb Sub Clk
- Hav Clk Pittat Kumara Ratnam (No. 6896577F now JC-206851M), 25 Feb 1991.
 (Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Feb 1991 without effect on pay and allowances).
 Hav Clk Jai Ram Singh Verma (No. 6815934-F now JC-206852P), 06 May 1991.
 (Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Apr 1991 without effect on pay and allowances).
- To be Sub Maj**
- Sub Jagmal Singh (JC-60466M), 01 Dec 1990.
 Sub Cheruvari Balakrishnan (JC-109691N), 01 Dec 1990.
 Sub Ranbir Singh (JC-96333F), 01 Dec 1990.
 Sub Ramadhar Mishra (JC-105786W), 01 Jan 1991.
 Sub Surat Singh (JC-105789K), 01 Jan 1991.
- To be Sub**
- Nb Sub Jage Ram (JC-124756N), 01 July 1989.
 Nb Sub Sarvesh Chandra Gupta (JC-82927L), 01 Nov. 1990.
 Nb Sub Ram Kumar Rai (JC-80066F), 01 Dec 1990.
 Nb Sub Samshuddin Khan (JC-86598X), 01 Dec 1990.
 Nb Sub Dattatraya Kavathekar (JC-129545P), 01 Dec 1990.
 Nb Sub Than Singh (JC-130134H), 01 Dec 1990.
 Nb Sub Om Prakash (JC-107922A), 01 Dec 1990.
 Nb Sub Mohan Singh (JC-80846M), 01 Dec 1990.
 Nb Sub Chandra Datt Pandey (JC-71422P), 01 Dec 1990.
 Nb Sub Janardhan Prasad Kukreti (JC-55042M), 01 Dec 1990.
 Nb Sub Dipti Lal (JC-89946Y), 11 Dec 1990.
 Nb Sub Jagdev Singh (JC-97476N), 01 Jan 1991.
 Nb Sub Tek Ram (JC-100305P), 01 Jan 1991.
 Nb Sub Shyam Singh (JC-111037W), 01 Jan 1991.
 Nb Sub Gaj Raj (JC-119692K), 01 Jan 1991.
 Nb Sub Dilwan Singh Negi (JC-80064W), 01 Jan 1991.
 Nb Sub Gunwan Singh Gusain (JC-84440W), 01 Jan 1991.

Nb Sub Suresh Singh Chauhan (JC-108434K), 01 Jan 1991.

Nb Sub Basanta Kumara Nayak (JC-123835W), 01 Jan 1991.

Nb Sub Mam Chand (JC-125027X), 01 Jan 1991.

G. D. Nangal,
Desk Officer.

No. 876, dated 11th July 1991.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Sub Maj

Sub Rajpal Singh (JC-86071H), 1st Jun 1991.

To be Nb Sub

Hav Kanwal Singh (No. 9506456L now JC-206339N), 5th Mar 1991**.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Vijaya Kumar K. (No. 9506548X now JC-206340H), 18th Mar 1991**.

Hav Hoshiar Singh (No. 9506551X now JC-206341L), 8th Mar 1991**.

Hav Rattan Singh (No. 9506552A now JC-206342N), 5th Mar 1991**.

Hav Har Mohinderjit Singh (No. 9506563M now JC-206343W), 15th Mar 1991**.

Hav Randhir Singh (No. 9506567H now JC-206344Y), 28th Feb 1991**.

Hav Khem Raj (No. 9506569N now JC-206345F), 19th Feb 1991**.

Hav D. Selwandurairaj (No. 9506572N now JC-206346K), 17th Mar 1991**.

Hav Ram Naresh Dubey (No. 9506574Y now JC-206347M), 10th Mar 1991**.

Hav Markandey Pandey (No. 9506577M now JC-206348P), 19th Feb 1991**.

** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Raj Kishore (No. 9506587W now JC-206349X), 18th Mar 1991@.

Hav Ghisa Ram (No. 9506593K now JC-206350M), 13th Mar 1991@.

Hav Ram Diya Sharma (No. 9506596X now JC-206351P), 23rd Mar 1991@.

Hav Ram Pratap Singh (No. 9506600P now JC-206352X), 19th Mar 1991@.

Hav Surjan Singh (No. 9506604L now JC-206353A), 2nd Mar 1991@.

Hav Geetha Govindan K (No. 9506605N now JC-206354H), 9th Mar 1991@.

Hav Jai Singh Chahal (No. 9506607Y now JC-206355L), 2nd Mar 1991@.

Hav Kalokhe Sanjay Ramkrishna (No. 9506613M now JC-206356N), 2nd Mar 1991@.

Hav Aruna Kumar Sharma R (No. 9506620H now JC-206357W), 28th Mar 1991@.

Hav Madanan PP (No. 9506622N now JC-206358Y), 1st Apr 1991@.

Hav Kartar Singh Dhull (No. 9506623W now JC-206359F), 2nd Mar 1991@.

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 1991 without effect on pay and allowances).

M. L. SALHOTRA,
Under Secy.

No. 877, dated the 10th July 1991.—The President is pleased to make the following promotion :—

TERRITORIAL ARMY

RLY ENGR REGT

969 Railway Engineer Regiment (TA)

(To be Nb Sub)

Hav Pradeep Kumar (No. 12059276) Now TJ-....., 13-10-88.

Hav O P Sharma (No. 12059352) Now TJ-....., 13-10-88.

Hav J Panna (No. 12076835) Now TJ-....., 02-12-88.

Hav S N Choudhary (No. 12076858) Now TJ-....., 02-12-88.

Hav D C Thakur (No. 12076828) Now TJ-....., 02-12-88.

Hav Hardayal Singh (No. 12014242) Now TJ-....., 01-01-89.

Hav Pranay Kumar (No. 12059315) Now TJ-....., 01-08-89.

Hav A S Sinha (No. 12045045) Now TJ-....., 06-11-89.

Hav K Mukesh (No. 12059229) Now TJ-....., 09-01-90.

Hav G N Pandey (No. 12059274) Now TJ-....., 09-01-90.

Hav D N Paswan (No. 12059433) Now TJ-....., 09-01-90.

11044 Railway Engineer Regiment (TA)

(To be Nb Sub)

Hav Abdul Gafoor (No. 12379869) Now TJ-....., 25-01-89.

Hav Kanhaiya Lal Tulani (No. 12380065) Now TJ-....., 25-01-89.

Hav K S Abraham (No. 12389302) Now TJ-....., 25-01-89.

Hav H P Verma (No. 12389330) Now TJ-....., 25-01-89.

968 Railway Engineer Regiment (TA)

(To be Nb Sub)

Hav Vibhuti Narain Misra (No. 12024002) Now TJ-....., 21-02-90.

Hav Chillar Ram (No. 12023885) Now TJ-....., 21-02-90.

Hav Ramji Lal Berma (No. 12023886) Now TJ-....., 21-02-90.

Hav Ashok Kumar (No. 12024244) Now TJ-....., 21-02-90.

Hav Jagdish Prakash Arya (No. 12024026) Now TJ-....., 21-02-90.

Hav Hazara Singh (No. 12023943) Now TJ-....., 21-02-90.

Hav Bhupinder Singh (No. 12024185) Now TJ-....., 21-02-90.

Hav Shiv Pujan Pandey (No. 12024005) Now TJ-....., 21-02-90.

Hav Prakash Chandra Sharma (No. 12023888) Now TJ-....., 21-02-90.

Hav Darshan Singh (No. 12023984) Now TJ-....., 21-02-90.

Hav Chandra Mani Sharma (No. 12030851) Now TJ-....., 21-02-90.

Hav Nasiruddin (No. 12030881) Now TJ-....., 21-02-90.

Hav Jitendra Kumar Saxena (No. 12030891) Now TJ....., 01-05-90.

1032 Railway Engineer Regiment (TA)

(To be Nb Sub)

Hav B K Prasad Sinha (No. 12254149) Now TJ....., 19-11-89.

Hav Samel Harish (No. 12262947) Now TJ....., 10-01-90.

Hav D M McGuiness (No. 12263099) Now TJ....., 10-01-90.

R S DUDANI
Desk Officer

No. 878, dated the 10th July 1991.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Army Medical Corps

To be Naib Subedar Clerk (GD)

Havildar Chahder Bhan (No. 13913502-Y Now JC-206683-Y), 27th March 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 03rd March 90 without effect on pay and allowances)

Havildar Amar Nath Giri (No. 13913967-X Now JC-206684-F), 07th January 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 03rd March 90 without effect on pay and allowances)

Havildar Tribhuwan Nath Sharma (13914154-N Now JC-206685-K), 14th June 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 03rd March 90 without effect on pay and allowances)

Havildar Nandan Singh Bhandari (No. 13914185-N Now JC-206686-M), 21st May 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 03rd March 90 without effect on pay and allowances)

Havildar Subhash Chander (No. 13914644-F Now JC-206687-P), 16th May 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 17th March 90 without effect on pay and allowances)

Havildar Sultan Singh Gossain (No. 13916629-L now JC-206688-X), 18th June 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 17th March 90 without effect on pay and allowances)

Havildar Doraka-Charla-Gurivi Reddy (No. 13922391-M Now JC-206689-A), 12th April 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 17th March 90 without effect on pay and allowances)

Havildar Allu Satayanarayana (No. 13922550-Y Now JC-206690-P), 24th May 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 17th March 90 without effect on pay and allowances)

Havildar Bhagwant Singh Kang (No. 13922559-N Now JC-206691-X), 19th June 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 17th March 90 without effect on pay and allowances)

Havildar Maharudra Kallappa Badiger (No. 13914138-Y Now JC-206692A), 01st September 90.

Havildar Jai Singh (No. 13917237K now JC-206693H), 13th October 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st October 90 without effect on pay and allowances).

Havildar Jain Chand (No. 13917208P now JC-206694L), 20th December 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st November 90 without effect on pay and allowances).

Havildar Jitendra Nath Pandey (No. 13913766Y now JC-206695N), 10th January 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st November 90 without effect on pay and allowances).

Havildar K R Nanda (No. 13922926P now JC-206696W), 23rd November 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st November 90 without effect on pay and allowances).

Havildar Surendra Kumar Sharma (No. 13909489F now JC-206697Y), 15th November 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st November 90 without effect on pay and allowances).

Havildar Vasudevan Pillai KR (No. 13911889M now JC-206698F), 20th December 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st November 90 without effect on pay and allowances).

Havildar Rehakanta Salkia (No. 13913333F now JC-206699K), 09th January 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st December 90 without effect on pay and allowances).

Havildar Som Nath (No. 13913733N now JC-206700N), 01st December 90.

Havildar Satyen Sengupta (No. 13918685H now JC-206701W), 07th December 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st December 90 without effect on pay and allowances).

Havildar Bishan Singh (No. 13914117A now JC-206702Y), 12th January 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st December 90 without effect on pay and allowances).

Havildar Bhagwan Singh Kharwal (No. 13922712Y now JC-206703F), 03rd December 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st December 90 without effect on pay and allowances).

Havildar I Charles (No. 13923047N now JC-206704K), 01st December 90.

Havildar Janardanan Nair M (No. 13923143H now JC-206705M), 01st December 90.

Havildar Guina Chandra Behera (No. 13924408N now JC-206706P), 14th February 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st December 90 without effect on pay and allowances).

Havildar A B Singh (No. 13924438L now JC-206707X), 01st December 90.

Havildar Nirmal Singh Chamiyal (No. 13924558-K now JC-206708 A), 12th December 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st December 90 without effect on pay and allowances).

Havildar Govind Singh (No. 13924555-W now JC-206709 H), 05th December 90.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st December 90 without effect on pay and allowances).

Havildar Jai Dev Singh Jamwal (No. 13924653-W now JC-206710 X), 01st December 90.

Havildar Andreas Baa (No. 13909374-N now JC-206711-A), 07th January 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st January 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Daroga Pal (No. 13912512-P now JC-206712-H), 02nd January 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st January 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Bahadur Singh (No. 13917770-Y now JC-206713 L), 11th February 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st January 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Horen Chandra Patra (No. 13923360-F now JC-206714 N), 07th January 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st January 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Shiv Pal Singh (No. 13924669-F now JC-206715 W), 05th March 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st January 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Balarishna Kurup K (No. 13924726-Y now JC-206716 Y), 18th January 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st January 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Yohannan M C (No. 13931316-K now JC-206717 F), 07th January 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st January 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Labakanta Buragohain (No. 13932162-P now JC-206718-K), 15th January 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st January 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Indra-Jeet Singh Rawal (No. 13932036-P now JC-206719 M), 07th January 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st January 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Shiv Kumar Pande (No. 13932092-F now JC-206720 F), 28th January 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st January 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Charan Dass (No. 13932110-Y now JC-206721-K), 10th January 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st January 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Patel Govind Bhai Amba Lal (No. 13932224-K now JC-206722 M), 08th March 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Agya Ram Dahiya (No. 13932194-X now JC-206723 P), 09th February 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Kulwant Singh Aujla (No. 13932234-N now JC-206724 X), 08th February 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Prabhakaran K (No. 13932305-K now JC-206725 A), 18th February 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Bhupinder Singh (No. 13932375-H now JC-206726 H), 09th February 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Vipradas M K (No. 13932617-A now JC-206727 L), 11th March 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Basavantappa Kurip (No. 1243339-F now JC-206728 N), 04th February 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Sankaran Kutty Vijayokkaran Narayanan (No. 13932860-X now JC-206729 W), 07th February 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Sasidharan Pillai G (No. 13932806-K now JC-206730 L), 21st February 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Gula Ram Nitharwal (No. 13932842-P now JC-206731 N), 14th February 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Baby Kutty P A (No. 13932882-W now JC-206732 W), 11th February 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Okram Mani Singh (No. 13933196-P now JC-206733 Y), 04th March 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Philip K I (No. 13933113-Y now JC-206734-F), 12th February 1991.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Ram Singh (No. 13933129-K now JC-206735-K), 06th March 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Sarweshwar Singh (No. 13933294-P now JC-206736 M), 21st February 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Puthiyal Veetil Radha Krishnan (No. 13933797-A now JC-206737 P), 13th February 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Sachchidanand Shukla (No. 13933723-L now JC-206738 X), 02nd March 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st February 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Janardhanan Chandra Sekharan (No. 13933869-Y now JC-206739 A), 02nd March 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st March 91 without effect on pay and allowances).

Havildar M D Liaquat Ali Laskar (No. 13933966-W now JC-206740 P), 17th March 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st March 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Gurdhian Singh (No. 13933891-K now JC-206741 X), 07th March 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st March 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Gopinathan Nair (No. 13933922-Y now JC-206742 A), 08th March 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st March 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Kuriako K K (No. 13933919-Y now JC-206743 H), 16th March 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st March 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Balbir Singh (No. 13933983-W now JC-206744 L), 2nd March 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st March 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Sushil Thakur (No. 13934029-L now JC-206745 N), 06th March 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st March 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Pooran Singh Gurjar (No. 13934071-K now JC-206746 W), 08th March 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st March 91 without effect on pay and allowances).

Havildar Raj Paul Raj (No. 13934102 Y now JC-206747 Y), 02nd March 91.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st March 91 without effect on pay and allowances).

L. K. SHARMA,
Lt Col
Jt. Dir Med Services (Trg.)

No. 879, dated 1st July 1991.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

Army Ordnance Corps

To be Substantive Subedars Amn Tech

Paid Acting Sub Amn Tech Ram Niwas (JC-103609X), 01 Dec 90.

Paid Acting Sub Amn Tech Amar Singh (JC-114546A), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Amn Tech Bheemappa Vattanavar (JC-114976K), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Amn Tech Ram Paul Sharma (JC-114977M), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Amn Tech Mallepalle Venkatamuni Reddy (JC-114979X), 01 Mar 91.

Paid Acting Sub Amn Tech Suresh Nand Joshi (JC-130976N), 01 Mar 91.

Paid Acting Sub Amn Tech Amar Nath (JC-131129K), 01 Mar 91.

Paid Acting Sub Amn Tech Sita Ram Verma (JC-131922 Y), 01 Mar 91.

Paid Acting Sub Amn Tech Narain Singh (JC-134081M), 01 Mar 91.

Paid Acting Sub Amn Tech Prabhu Dayal Sharma (JC-141914A), 01 Mar 91.

To be Substantive Subedars Clerks AOC

Paid Acting Sub Clk GD Phool Shankar Shukla (JC-173588K), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Jagdish Prasad Sharma (JC-173536N), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Karnail Singh (JC-173589M), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Radhe Shyam Sharma (JC-173590F), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk GD Daulat Singh Rathore (JC-173591K), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk GD Mohammad Aslam Khan (JC-173593P), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Gir Raj Singh (JC-173537W), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk GD Om Prakash Rai (JC-173496X), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk GD Arun Chandra Das (JC-173592 K), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk GD Ramakrishna Reddiyar Ramalingam (JC-173538Y), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Nawab Khan (JC-173514P), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Abdul Hafiz Khan (JC-173539F), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk GD Vappangi Venkata Rama Rao (JC-173497A), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Ganpat Ram (JC-173540W), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Jagjit Singh (JC-173541Y), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Bala Ram Mukherjee (JC-173542F), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Gian Chandra Sharma (JC-175642L), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Shyamal Kanti Biswas (JC-173515X), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Chandra Mohan Yadav (JC-173595A), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Ram Chandra (JC-173516A), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk GD Prem Narain Pandey (JC-173499L), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk GD Leeladhara P Salian (JC-173543K), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk GD Ram Jiwan (JC-175704A), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk GD Doongar Singh (JC-175671A), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk GD Ram Chandra Savale (JC-175670X), 01 Feb 91.

To be Substantive Subedar Store Keeper Technician

Paid Acting Sub Skt Wep Inderjit Mishra (JC-175627W), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Guru Swamy Narayana Swamy (JC-176563H), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C G Purushan Pillai (JC-175629F), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Sig Gurcharan Singh (JC-175744F), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Sig Subimal Biswas (JC-175745K), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Sig Ram Babu Singh (JC-175720X), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Sig Lal Bahadur Singh (JC-175721A), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Sig Ajmat Singh (JC-175632F), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Sig Raje Singh Rawat (JC-175685A), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Sig Arbinda Sinha (JC-175633K), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Jaya Chandran P (JC-175746M), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Sig Laxminarain Mahla (JC-175722H), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Sig Bhagwati Prasad (JC-175658W), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt MT Amar Datt Sharma (JC-175634M), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Wep Satya Prakash (JC-175687L), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Balbir Singh (JC-176739H), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Sig Baljit Singh (JC-175659Y), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt MT Sughan Chand (JC-175635P), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Ghisa Ram (JC-175723L), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Amn Girindra Nath Ghosh (JC-175749A), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt MT Mukhtar Singh (JC-175661W), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Nawab Singh (JC-176582N), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Engr Jagdish Singh (JC-176583W), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Engr Ram Ashrey Singh (JC-176740X), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Engr Shambhu Nath Singh (JC-176690X), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Sig Karunakara Narayanan Nair Rajappan Nair (JC-176625X), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Engr Narayan Das (JC-176714W), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Ramesh Chand (JC-176585F), 01 Feb 01.

Paid Acting Sub Skt MT Rajinder Singh (JC-180529A), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Gopal Singh (JC-176626A), 01 Mar 91.

Paid Acting Sub Skt GC&C Shambhoo Singh (JC-176741A), 01 Mar 91.

Paid Acting Sub Skt GC&C Kishori Lal (JC-176627H), 01 Mar 91.

To be Substantive Subedars Driver

Paid Acting Sub Dvr MT Kishan Singh (JC-176660A), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Dvr MT Gur Dass Ram (JC-180532A), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Dvr MT Mata Deen (JC-183373W), 01 Feb 91.

To be Substantive Subedars SH GD

Paid Acting Sub SH GD Piarey Lal (JC-170715H), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub SH GD Jagan Nath Prasad Singh (JC-171135A), 01 Mar 91.

Army Ordnance Corps

To be Substantive Subedar Majors Amn Tech

Paid Acting Sub Maj Amn Tech Baby Thomas (JC-67738K), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Maj Amn Tech Gopala Pillai Damodaran Pillai (JC-69319L), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Maj Amn Tech Jagraj Singh (JC-70567N), 01 Apr 91.

To be Substantive Subedar Majors Clerk AOC

Paid Acting Sub Maj Clk S Prov Kooli Yadan Ouseph Rappai (JC-110864M), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Maj Clk S Prov Puthuscil Kuriako Abraham (JC-110806H), 01 Mar 91.

Paid Acting Sub Maj Clk S Prov Ganesh Chandra Nandi (JC-114638N), 01 Apr 91.

Paid Acting Sub Maj Clk S Cont Appukuttan Nair (JC-110865P), 01 Apr 91.

To be Substantive Subedar Majors SK Tech

Paid Acting Sub Maj Skt GS&C Mallappa Kada Gaudar (JC-114539K), 01 Mar 91.

Paid Acting Sub Maj Skt GS&C Ramachandran V (JC-108009Y), 01 Mar 91.

Paid Acting Sub Maj Skt Amn Bhagwat Prasad Sharma (JC-107969L), 01 Mar 91.

Paid Acting Sub Maj Skt MT Anand Prakash Sharma (JC-108014K), 01 Apr 91.

Army Ordnance Corps

To be Substantive Subedar Amn Tech

Paid Acting Sub Amn Tech Siddeshwar Kumar Pramanik (JC-104510N), 01 Dec 90.

Paid Acting Sub Amn Tech Karthikeyan PK (JC-109833A), 01 Feb 91.

To be Substantive Subedar Clerks AOC

Paid Acting Sub Clk S Cont Jaswant Singh (JC-170686Y), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Shyam Narayan Tiwari (JC-170687F), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Sahi Ram (JC-170689M), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk GD Ram Pratap (JC-170233N), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Dharam Singh (JC-173511H), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Jaswant Singh (JC-170235W), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Roshan Lal Sharma (JC-171119H), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Ravi Shankar Awasthi (JC-171120X), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk GD Dharam Singh Suman (JC-171121A), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Ram Swartha Chaudhary (JC-171122H), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Hari Dev (JC-171123L), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Kashmir Singh (JC-171124N), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Sita Ram Rana (JC-171125W), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk GD Krishan Pal Sharma (JC-171127F), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Bharat Singh Kandari (JC-173512K), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Birendra Singh (JC-173553N), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Vishwanath Singh Yadav (JC-173554W), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk GD Farquan Ahmed (JC-173555Y), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Clk GD Budhi Prakash Sharma (JC-173557K), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Dayal Chandra Saha (JC-173535L), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Manohar Lal (JC-173520M), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Clk GD Anthony Kutty PT (JC-175726Y), 01 Feb 91.

To be Substantive Subedar Store Keeper Technicians

Paid Acting Sub Skt Engr Dinesh Narain Mishra (JC-173566L), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt Sig Lal Jee Pandey (JC-173567N), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Amarnath Tripathi (JC-173520H), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt Amn Sher Singh Yadav (JC-173568W), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt Wep Rai-Ranjan Deb (JC-173521L), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt Amn Gardip Singh (JC-173570N), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Harlak Singh (JC-173571W), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt MT Tek Chand Bharadwaj (JC-173572Y), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt MT James John Sunder Raj (JC-173522N), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt MT Subbiah Shanmuga Madaswamy (JC-173573P), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Tarakaswar Singh (JC-173575M), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Ghan Shyam Singh (JC-173574K), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Subash Chandra Tyagi (JC-173576P), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt MT Askrit Pathak (JC-183921L), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt MT Rampal Sharma (JC-173577X), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Mahesh Pal (JC-173579H), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt Amn Laxman Das Dubeydi (JC-173580X), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Om Singh Pundir (JC-173580X), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt Wep Edathil Krishnan Gangadharan Nair (JC-173523W), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Ajit Kumar Debnath (JC-173584N), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Yogendra Singh Sirohi (JC-173581A), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt Wep Meghar Singh (JC-173582H), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt Wep Uttam Chand (JC-173583L), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt Wep Amiya Kumar Phukan (JC-173584W), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Pullan Cheodan Valiya Veetil Govindan (JC-173545P), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt MT CV John (JC-173500P), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt Amn Gian Singh Pathania (JC-173526N), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt Wep Bhagwan Chand Yadav (JC-173524X), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt MT Sheo Dayal Prasad (JC-173501X), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt Sig Devi Prasad (JC-176621F), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt Sig Sham Lal (JC-173525Y), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt Amn Gurpal Singh (JC-173597L), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt Wep Hamir Singh (JC-173502A), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt Wep Surjeet Singh (JC-173598N), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Shiv Prasad (JC-173504L), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Ram Nagina Mishra (JC-173527M), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Sig Indra Deo Mishra (JC-175716P), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Dharam Singh (JC-175719H), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub Skt Amn Lal Chand (JC-175747P), 01 Feb 91.

To be Substantive Subedar Drivers

Paid Acting Sub Dvr MT Ranq Lal (JC-175688N), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Dvr MT Amar Singh (JC-175636K), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Dvr MT Kanwar Singh (JC-175724N), 01 Jan 91.

To be Substantive Subedar SH GD

Paid Acting Sub SH GD Bhubaneswar Nath Pandey (JC-170631P), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub SH GD Mam Chand (JC-170645P), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub SH GD Gian Chand (JC-170646X), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub SH GD Nettar Singh (JC-170650A), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub SH GD Banshi (JC-170651H), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub SH GD Dhani Ram (JC-170652L), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub SH GD Ram Kumar (JC-170653N), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub SH GD Ishwar Chander (JC-170657K), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub SH GD Vaij Nath Yadav (JC-170708M), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub SH GD Kanaiya Singh (JC-170709P), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub SH GD Tej Bhan (JC-170710P), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub SH GD Digchandra Das (JC-170711M), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub SH GD Narayan Sabnis (JC-170713X), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub SH GD Sujan Singh (JC-170721W), 01 Feb 91.

Paid Acting Sub SH GD Nur Mohammed (JC-170723F), 01 Feb 91.

To be Substantive Subedar Carp (U)

Paid Acting Sub Carp (U) Raj Mal (JC-176698K), 01 Jan 91.

S. K. RAY, Under Secy.

No. 880, dated the 1st July 1991—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
ARMY SERVICE CORPS
(Mechanical Transport)

To be Nb Sub

Hav Suthar Chunilal Nathuji (No. 13844475-P Now JC-206437N), 05 Apr 91*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 90 without effect on pay & allowances).

Hav Rang Nath Singh (No. 13831634H now JC-206438W), 07 Feb 91@.

Hav Ram Bahor Ram (No. 13826657W now JC-206439Y), 22 Dec 90@.

Hav Nanak Chand (No. 13836060F now JC-206440N), 21 Dec 90@.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 90 without effect on pay & allowances).

Hav Ram Milan (No. 13843887A now JC-206441W), 12 Mar 91£.

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 91 without effect on pay & allowances).

Hav Budh Ram (No. 13843976Y now JC-206442Y), 16 May 91&.

Hav Sukhbir Singh (No. 13823992P now JC-206443F), 02 Mar 91&.

Hav Kanta Prasad Singh (No. 13830911M now JC-206444K), 01 Mar 91.

Hav Kartar Singh Jamwal (No. 13843780L now JC-206445M), 01 Mar 91.

Hav Nawala Ram (No. 13843828N now JC-206446P), 12 Mar 91&.

Hav Mange Ram (No. 13826107N now JC-206447X), 01 Mar 91.

Hav Harendra Thakur (No. 13831402A now JC-206448A), 09 Apr 91&.

Hav Ram Swroop Jatav (No. 13826386K now JC-206449H), 02 Mar 91&.

Hav Sarwan Kumar (No. 13826499M now JC-206450X), 19 Apr 91&.

Hav Ami Chand (No. 13826534K now JC-206451A), 12 Apr 91&.

Hav Hardhyan Chowdhry (No. 13831669P now JC-206452H), 08 Mar 91&.

Hav Girish Kumar (No. 13831703K now JC-206453L), 25 Mar 91&.

Hav Angappathevar Muniasamy (No. 13831764F now JC-206454N), 07 Mar 91&.

Hav Desrath Singh (No. 13831653K now JC-206455W), 07 Mar 91&.

Hav Shiv Lochan Ram (No. 13826867W now JC-206456Y), 15 Mar 91&.

Hav Bhag Singh (No. 13835406N now JC-206457F), 09 Apr 91&.

Hav Mohan Lal (No. 13826999K now JC-206458K), 08 Apr 91&.

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 91 without effect on pay & allowances).

PRAKASH CHAND, Under Secy

(NAVY BRANCH)

No. 881, dated 14-6-91.—The President is pleased to make the following promotions in the Executive Branch of the Indian Navy under the Regulation 121 of Regs Navy Part III Statutory :—

NAVY BRANCH
PERMANENT COMMISSION

Rank/Name	Personal No.	Promoted as Ag Sub Lt
1	2	3
Midshipmen		
1. Aruna Kumar	03453-Y	01 Jul 89
2. Ahlawat Himmat Singh	03454-Z	Do.
3. Avasthi Sanjay J Narayan	03455-A	Do.
4. Blank		
5. Agarwal Subodh Kumar	03457-F	Do.
6. Bakshi Vikram	03458-H	Do.
7. Bhandari Rajesh Kumar	03459-K	Do.
8. Chhetri Sujit Kumar	03460-N	Do.

1	2	3
9. Caroli Rajnish Kumar	03461-R	01 Jul 89
10. Dutta Soumya	03462-T	Do.
11. Das Puruvir	03463-W	Do.
12. Dabas Harkesh Singh	03464-Y	Do.
13. Deo Sanjay Kumar Singh	03465-Z	Do.
14. Dhillon Anupam Singh	03466-A	Do.
15. Acharya Debasish	03467-B	Do.
16. Das Arijit	03468-F	Do.
17. Blank		
18. Garud Yogesh	03470-K	Do.
19. Godara Krishan Lal	03471-N	Do.
20. Gupta Siddhartha Kumar	03472-R	Do.
21. Huda Najmal	03473-T	Do.
22. Jain Sharesh	03474-W	Do.
23. Kannan K	03475-Y	Do.
24. Blank		
25. Khanna Jitender	03477-A	Do.
26. Krishnan Hari	03478-B	Do.
27. Kumar Sandeep	03479-F	Do.
28. Kapoor Sandip	03480-H	Do.
29. Lakshman Ramachandran	03481-K	Do.
30. Mc Carty Vineet Samuel	03482-N	Do.
31. Nanda Satyajeet	03483-R	Do.
32. Nandi Amitabha	03484-T	Do.
33. Nilker Vasudeva Rao	03485-W	Do.
34. Panda Sanjay Ganesh	03486-Y	Do.
35. Pattanath Pramodh	03487-Z	Do.
36. Blank		
37. P Raj Kumar	03489-B	Do.
38. Pathania Vijay Singh	03490-F	Do.
39. Rupesh Kumar	03491-H	Do.
40. Rawal Kalpesh Ishwar Lal	03492-K	Do.
41. Raju Mahadeva Goverdhan	03493-N	Do.
42. Rai Shankar Man	03494-R	Do.
43. Rathore Koshendra Singh	03495-T	Do.
44. Singh Sunil Kumar	03496-W	Do.
45. Singh Sudhir	03497-Y	Do.
46. Saxena Sameer	03498-Z	Do.
47. Singh Singh Parambir	03499-A	Do.
48. Satish Chandrasekaran	03500-B	Do.
49. Sharma Karanjit	03501-F	Do.
50. Sinha Nirad Kumar	03502-H	Do.
51. Shukla Sanjay	03503-K	Do.
52. Singh Jaswinder	03504-N	Do.
53. Saini Saravjit Singh	03505-R	Do.
54. Singh Jitender Kumar	03506-T	Do.
55. Sridar Ramaswamy	03507-W	Do.
56. Srivastava Vidyanshu	03508-Y	Do.
57. Sabnis Amol Murlidhar	03509-Z	Do.
58. Sarkar Himadri	03510-A	Do.
59. Srivastava Ravikant	03511-B	Do.
60. Sajni Chitranji Lal	03512-F	Do.
61. Sharma Anil Kumar	03513-H	Do.

1	2	3
62. Sharma Ashutosh	03514-K	01 Jul 89]
63. Sohoni Aniruddha	03515-N	Do.
64. Sreedhar Sreekanth	03516-R	Do.
65. Sharma Sanjay Kumar	03517-T	Do.
66. Thind Sukhbir Singh	03518-W	Do.
67. Yadav Narider	03519-Y	Do.
68. Yadav Deepak	03520-Z	Do.
69. Yadav Jagat Singh	03521-A	Do.
70. Matharu Inderjeet Singh	03522-B	Do.
71. Kumar R Mohan	03523-F	Do.
72. Aggarwal Anup	03524-H	Do.
73. Suri Gopal	03525-K	Do.
74. Roy Sanjay Basu	03526-N	Do.
75. Srivastava Vibhas	03649-T	Do.

**NAVY BRANCH
PERMANENT COMMISSION)
SUB-LIEUTENANTS TO BE LIEUTENANT**

Sub Lt : 32nd Integrated Course	Date of Promotion
1. Joginder Chandra (03176-T)	01 Jul 89
2. Sushant Dam (03178-Y)	Do.
3. Srinivas Vennam (03227-H)	Do.
4. Ashok Kumar Aukta (03170-B)	Do.
5. Krishna D Swaminathan (03221-W)	Do.
6. Dalip Kumar Sharma ((03209-T)	Do.
7. Kuldeepak Mittal (03193-F)	Do.
8. Pravesh Singh Bist (03175-R)	16 Jul 89
9. Vivek Karnavat (03185-N)	Do.
10. Rajiv Tandon (03222-Y)	01 Aug 89
11. Praveen Bhaik (03172-H)	Do.
12. Puneet Chadha (03177-W)	16 Aug 89
13. Arun M Sabnis (03207-N)	Do.
14. Ashim Kumar Majhi (03188-W)	Do.
15. Rakesh Kumar Dahiya (03179-Z)	01 Sep 89
16. Puneet Shankta (03214-B)	Do.
17. Pankaj Singh (03219-R)	Do.
18. Gopal Mehrotra (03192-B)	Do.
19. Shiv Kumar Goel (03183-H)	16 Sep 89
20. George Antony (03182-F)	Do.
21. Ashish Mehta (03191-A)	Do.
22. Vijay Kumar Trivedi (03223-Z)	01 Oct 89
23. Murli Manohar Sharma (03212-Z)	16 Oct 89
24. Prabash Chandra Mishra (03194-H)	01 Nov 89
25. Narendra Singh S Parmar (03197-R)	*16 Feb 90.
(*Awarded forfeiture of three months time)	16 Nov 89
26. Dalbir Singh (03216-H)	16 Nov 89
27. Sarabjeet Singh Parmar (03198-T)	01 Dec 89
28. Antony Nirai Arul Selvan AD (03169-A)	Do.
29. Rambabu G (03202-A)	Do.
30. Atul Bhardwaj (03174-N)	16 Dec 89

1	2	3
31.	Des Raj (03180-A)	16 Dec 89
32.	Umamahesh Hareeshwarasarma Shista (03213-A)	Do.
33.	Madhusudana BS Reddy (03206-K)	Do.
34.	Krupakar Reddy Nami Reddy (03195-K)	01 Jan 90
35.	Ashish Bhattacharjee (03173-K)	16 Jan 90
36.	Kaza Ramana Prasad (03200-Y)	16 Feb 90
37.	Atul Ashok Dharwadkar (03181-B)	01 Mar 90
38.	Ravinder Singh Malhan (03190-Z)	Do.
39.	Paramvir Singh Rathore (03204-F)	16 Sep 89
40.	S Sharma (03211-Y)	01 Feb 90
41.	DK Madan (03189-Y)	01 Jan 90
42.	Bhartender Singh (03215-F)	16 Dec 89

PERMANENT COMMISSION

ACTING SUB LIEUTENANT TO BE SUB LIEUTENANT

	Date of Promotion/ Seniority from
1. RK Nair (03408-W)	18 Feb 90/ 01 Jan 89
2. P Chauhan (03378-A)	Do.
3. Sandeep Mehta (03405-N)	Do.
4. Ajit Kumar (03399-Z)	Do.
5. Vinay Kalia (03390-B)	Do.
6. AK Rastogi (03423-B)	Do.
7. S Ghosh (03386-W)	Do.
8. R Parmar (03415-K)	Do.
9. Y Sawhney (03434-B)	Do.
10. VK Pisharody (03411-A)	Do.
11. D Kumar (03392-H)	Do.
12. HS Sapre (03448-K)	Do.
13. R Misra (03406-R)	Do.
14. M Subramanian (03432-Z)	Do.
15. OP Verma (03412-B)	Do.
16. S Bhalla (03371-K)	Do.
17. SK Dhingra (03380-F)	Do.
18. S Rishiraj (03417-R)	Do.
19. UK Bhardwaj (03372-N)	Do.
20. Naveen Razdan (03419-W)	Do.
21. A Dutt (03379-B)	Do.
22. VR Peshwae (03410-Z)	Do.
23. GV Bhushan (03385-T)	Do.
24. C D'Souza (03383-N)	Do.
25. RK Chaudhri (03376-Y)	Do.
26. AK Mathur (03403-H)	Do.
27. MK Kukreti (03398-Y)	Do.
28. RS Parmar (03409-Y)	Do.
29. V Behl (03369-F)	Do.

	Date of Promotion/ Seniority from
30. VK Sawhney (03430-W)	18 Feb 90/ 01 Jan 89
31. S Mukerjee (03402-F)	Do.
32. DR Kulkarni (03396-T)	Do.
33. Manish Joshi (03388-Z)	Do.
34. AK Singh (03429-T)	Do.
35. DK Swain (03428-R)	Do.
36. U Rana (03422-A)	04 Mar 90/ 01 Jan 89
37. M Tewari (03437-K)	Do.
38. GS Kalkat (03400-A)	18 Feb 90/ 01 Jan 89
39. RP Singh (03436-H)	Do.
40. VS Chauhan (03374-T)	Do.
41. SK Dhawan (03382-K)	Do.
42. PE Prasad (03414-H)	Do.
43. Vivek Kumar (03397-W)	Do.
44. S Chettri (03377-Z)	Do.
45. A Ambastha (03368-B)	09 Sep 90/01 Jan 89
46. D Kumar (03391-F)	19 Aug 90/01 Jan 89
47. V Maniktala (03401-B)	25 Mar 90/01 Jan 89
48. K Prabhakar (03416-N)	01 Apr 90/01 Jan 89
49. MS Raghavan (03418-T)	10 Jun 90/01 Jan 89
50. MS Rahman (03421-Z)	01 Jul 90/01 Jan 89
51. V Singh (03424-F)	02 Dec 90/01 Jan 89
52. Inderjeet Singh (03425-H)	27 May 90/01 Jan 89
53. NK Srivastava (03426-K)	29 Jul 90/01 Jan 89
54. VRK Tewari (03438-N)	29 Apr 90/01 Jan 89
55. G Dhawan (03447-H)	29 Jul 90/01 Jan 89
56. R Banerjee (03370-H)	20 May 90/01 Jan 89
57. SK Gupta (03387-Y)	04 Jun 90/01 Jan 89
58. S Kumar (03393-K)	14 Jul 90/01 Jan 89
59. SJ Kumar (03394-N)	04 Jun 90/01 Jan 89
60. NK Kulkarni (03395-R)	24 Jun 90/01 Jan 89
61. AJ Noronha (03407-T)	14 Jul 90/01 Jan 89
62. KS Ralhan (03420-Y)	04 Jun 90/01 Jan 89
63. Sumant Singh (03433-A)	22 Jul 90/01 Jan 89

SC Minocha,

CSO

Asstt Director of Pars/JOARR

(AIR BRANCH)

No. 882, dated the 11th July 1991.—The President is pleased to promote the undermentioned officers to the substantive rank of Fg Offr wef the date stated against their names :—

INDIAN AIR FORCE

(MET BRANCH)

Flt Offr Narinder Kumar Kohli (19461), wef 31 Dec 90.

No. 883, dated the 3rd May 1991.—The President is pleased to award Brevets to undermentioned under the provisions of Govt. of India, Min. of Def. letter No. Air HQ/S-24732/PP-(O)/PC-I/146[US]D(Air-IV) dated 14 Feb 89. These officers will be eligible for the grant of Flying Pay with effect from the dates of grant of Brevets i.e. 07 Apr 90.

INDIAN AIR FORCE

Flt Lt YRS Reddy (17487) ADM/ATC, SK Naithani (17503) ADM/FC.

Flt Lt PV Harishankar (17782) LGS Fg Offr, AB Patel (18179) LGS.

Fg Offr PK Ghosh (18324) ADM/ATC Fg Offr PK Lal (18332) ADM.

Fg Offr EK Prasad (18600) ADM/ATC Fg Offr IS Rao (18632) ADM/ATC.

Plt Offr VK Karindhikar (18680) ADM/ATC Plt Offr A Tyagi (18903) ADM.

Plt Offr KS Rao (19246) LGS Plt Offr K Shyamsunder (19247) LGS.

Plt Offr AK Pan (19377) LGS & Plt Offr SK Pandey (19379) LGS.
with effect from 07 Apr 90.

No. 884, dated the 13th May 1991.—The President is pleased to award Brevets to the undermentioned under the provisions of Govt. of India, Min of Def letter No. Air HQ/S.—24732/PP(O)/PC-I/25-D(Air-IV) dated 15 Jan 90. These officers will be eligible for the grant of Flying Pay with effect from the date of grant of Brevets i.e. 06 Oct 90.

INDIAN AIR FORCE

Plt Offr D Amresh (19375) LGS Fg Offr SS Sachdeva (18604) ADM.

Flt Lt R Venkataraman (17480) ADM Flt Lt NP Rajesh (18139) ADM.

Flt Lt JS Bedi (17491) ADM/ATC Plt Offr ID Mukherjee (13980) LGS.

Fg Offr MMD Mulla (18646) LGS w.e.f. 06 Oct 90.

BU PILLAY
Sqn Ldr
ADPO3(D)

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 885, dated the 11th June 1991.—In the Gazette of India Ministry of Defence Notification No. 1072/88 published in the Gazette of India dated 16-7-88 under the heading 'Regular Army' Permanent Commission and sub heading to be 2Lts w.e.f. 14 Dec 85 :—

For Devbrat OHRI (IC-43344H)

Read Devbrat OHRI (IC-43344M)

D C KATOCH
Lt. Col.
AMS IC

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

No. 886, dated the 5th June 1991.—Gazette Notification published on 23-1-88 in respect of Professor Shri OS Selvamani is amended as under :—

Delete the last sentence i.e. "He will be on probation for a period of two years".

S. S. NEGI, Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 887, dated the 10th June 1991.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army service having attained the age of compulsory retirement :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj Gen J Khanna (IC-6171H), AOC, 31 Jan 89 (AN).

Brig RD Paliwal (IC-7128N) INT Corps, 31 Jan 89 (AN).

Brig DA Chansarkar (IC-8632A) ASC, 31 Jan 89 (AN).

Brig VV Gupta (IC-10097K), VSM, EME, 31 Jan 89 (AN).

Lt Gen EG Kerr (IC-5840K), Arty, 28 Feb 89 (AN).

Maj Gen V Awasthy (IC-6455M) INF, 28 Feb 89 (AN).

Maj Gen PL Kher (IC-6405F) AVSM, Vrc, SM, Mech INF, 28 Feb 89 (AN).

Maj Gen Shamsher Singh (IC-6712Y), AVSM, SM, INF, 28 Feb 89 (AN).

Maj Gen PL Kukrety (IC-8104W) SM, INF, 28 Feb 89 (AN).

Brig Khusinder Singh (IC-7668M) ARTY, 28 Feb 89 (AN).

Brig RN Sharma (IC-7796K), INF, 28 Feb 89 (AN).

Brig ML Dhiman (IC-8538W) ASC, 28 Feb 89 (AN).

Brig AM Warty (IC-10028N) Arty, 28 Feb 89 (AN).

Col (A/Brig) KR Sharma (IC-11710X) ASC, 28 Feb 89 (AN).

Maj Gen Gurdeep Singh (IC-8593M) AVSM, INF, 31 Mar 89 (AN).

Brig DM Gupta (IC-6545N) ENGRS, 31 Mar 89 (AN).

Brig KK Kohli (IC-7075A) AOC, 31 Mar 89 (AN).

Brig PN Shukla (IC-11216P) AOC, 31 Mar 89 (AN).

Brig PS Kulkarni (IC-11661A) ASC, 31 Mar 89 (AN).

Brig SC Goswami (IC-7605K) INF, 31 Mar 89 (AN).

Lt Gen Sami Khan (IC-5376L) PVSM, SM, INF, 31 Mar 89 (AN).

Lt Gen PS Roy (IC-6543H) AVSM, ENGRS, 31 MAR 89 (AN).

Maj Gen K Chandrasekharan (IC-11723P) AVSM, ENGRS, 30 Apr 89 (AN).

Brig MS Dhillon (IC-6761F), ASC, 30 Apr 89 (AN).

Brig Tilak Raj (IC-7166K) INF, 30 Apr 89 (AN).

Brig Ram Narayan (IC-7365X) ARTY, 30 Apr 89 (AN).

Brig Prem Prakash (IC-7341N) INT CORPS, 30 Apr 89 (AN).

Brig Hardev Singh (IC-7769A) INF, 30 Apr 89 (AN).

Brig SP Dewan (IC-7865P) SIGS, 30 Apr 89 (AN).

Col (A/Brig) KN Nautiyal (V-66W) RVC, 30 Apr 89 (AN).

Lt Gen BC Nanda (IC-5310P) PVSM, AVSM, INF, 31 May 89 (AN).

A/Maj Gen SK Anand (IC-31262X), AVSM, APS, 31 May 89 (AN).

Brig RN Pandit (IC-8105Y) AVSM, VSM, INF, 31 May 89 (AN).

Lt Col (A/Brig) RRVN Varma (IC-8652N) EME, 31 May 89 (AN).

Lt Gen KS Randhawa (IC-5987A) PVSM, AVSM, AC, 30 Jun 89 (AN).

Lt Gen KD Parashar (IC-6535K) AVSM, EME, 30 Jun 89 (AN).

Maj Gen GS Kapoor (IC-6124L) EME, 30 Jun 89 (AN).

Brig BBS Karki (IC-5299F) ENGRS, 30 Jun 89 (AN).

Brig VN Channa (IC-8495M) AVSM, VSM**, INF, 30 Jun 89 (AN).

Brig AC Pemmaiah (IC-11724X) EME, 30 Jun 89 (AN).

Brig V Sreeramulu (IC-12753Y) EME, 30 Jun 89 (AN).
 Maj Gen Y Deva (IC-6640A) SIGS, 31 Jul 89 (AN).
 Maj Gen KJ Singh (IC-6786N) SIGS, 31 Jul 89 (AN).
 Maj Gen ML Khanna (IC-7698K) EME, 31 Jul 89 (AN).
 Brig Dilbagh Singh (IC-7083Y) AVSM, INF, 31 Jul 89 (AN).
 Brig JS Bhandari (IC-7340L) ARTY, 31 Jul 89 (AN).
 Brig SC Katoch (IC-7797M) INF, 31 Jul 89 (AN).
 Brig. Gurcharan Singh (IC-8101H), AVSM, ENGRS, 31 Jul 89 (AN).
 Brig K P Singh (IC-20710Y) JAG, 31 Jul 89 (AN).
 Maj Gen KM Dhody (IC-6830M) AVSM, AC, 31 Aug 89 (AN).
 Brig RS Thapar (IC-10546N) VSM, INF, 31 Aug 89 (AN).
 Brig SK Diwan (IC-8221F) ASC, 31 Aug 89 (AN).
 Brig VP Manchanda (V-58X) RVC, 31 Aug 89 (AN).
 Brig SK Pasricha (IC-10547W) VSM, ARTY, 31 Aug 89 (AN).
 Brig A K Anand (IC-8592F) INT, CORPS, 31 Aug 89 (AN).
 Maj Gen Surinder Nath (IC-6606A) AVSM, VSM, INF, 30 Sep 89 (AN).
 Maj Gen MJS Chhatwal (IC-7904H) INF, 30 Sep 89 (AN).
 Brig RN Kapur (IC-8246N) SIGS, 30 Sep 89 (AN).
 Brig Ranjit Singh (IC-11504N) SM, VSM, INF, 30 Sep 89 (AN).
 Brig BC Pathak (IC-7652P) ENGRS, 30 Sep 89 (AN).
 Brig BM Kapoor (IC-7606M) SIGS, 30 Sep 89 (AN).
 Lt Gen VK Nayar (IC-5858A) PVSM, SM, INF, 31 Oct 89 (AN).
 Lt Gen G Man Singh (IC-5955X) ENGRS, 31 Oct 89 (AN).
 Maj Gen IC Singal (IC-7949H), SIGS, 31 Oct 89 (AN).
 Brig AS Brar (IC-7814P) Vrc, INF, 31 Oct 89 (AN).
 Brig KK Deva (IC-8413Y) AC, 31 Oct 89 (AN).
 Brig IS Bal (IC-10002N) VSM, ARTY, 31 Oct 89 (AN).
 Brig SK Gupta (IC-10057H) ARTY, 31 Oct 89 (AN).
 Brig Naginder Singh (IC-11198K) INF, 31 Oct 89 (AN).
 Brig BS Randhawa (IC-10412P) Engrs, 31 Oct 89 (AN).
 Brig LD Kandpal (IC-10593L) EME, 31 Oct 89 (AN).
 Brig K Achuthan (IC-20520M) JAG, 31 Oct 89 (AN).
 Brig TS Chowdhary (IC-8208X) AVSM, SIGS, 31 Oct 89 (AN).
 Brig RN Lambah (IC7890N) SIGS, 31 Oct 89 (AN).
 Maj Gen SK Kar (IC-6500N) VSM, AOC, 31 Oct 89 (AN).
 Lt Gen Virender Partap (IC-5853F) AVSM, AOC, 30 Nov 89 (AN).
 Lt Gen Harbans Lal (IC-6945A) VSM, EME, 30 Nov 89 (AN).
 Maj Gen HC Sachdev (IC-6848H) SM, INF, 30 Nov 89 (AN).
 Maj Gen KM Chengappa (IC-7900M) AC, 30 Nov 89 (AN).
 Brig PK Gupta (IC-7330P) AVSM, INF, 30 Nov 89 (AN).
 Brig BS Jamwal (IC-7348X) INF, 30 Nov 89 (AN).
 Brig Verinder Singh (IC-7322H) AC, 30 Nov 89 (AN).
 Brig Surjit Singh (IC-7628L) Arty, 30 Nov 89 (AN).
 Brig KG Garga (IC-7717K) SIGS, 30 Nov 89 (AN).
 Brig SK Walia (IC-8209A) SIGS, 30 Nov 89 (AN).

Brig MW Gharpurey (IC-8612M) ARTY, 30 Nov 89 (AN).
 Brig RK Ghai (IC-10582Y) AOC, 30 Nov 89 (AN).
 Lt Gen YV Radhakrishna (IC-6948N) AVSM, EME, 31 Dec 89 (AN).
 Maj Gen Surindur Kumar (IC-6631Y) PVSM, ASC, 31 Dec 89 (AN).
 Maj Gen RK Sood (IC-6611L) INF, 31 Dec 89 (AN).
 Maj Gen PK Khanna (IC 7380M) MVC, INF, 31 Dec 89 (AN).
 Brig S Dhar (IC-7065W) EME, 31 Dec 89 (AN).
 Brig SK Bammi (IC-7647W) ARTY, 31 Dec 89 (AN).
 Brig Kuldip Singh (IC-12031M) VSM, INF, 31 Dec 89 (AN).

No. 888, dated 10th June 1991.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army service having attained the age of compulsory retirement :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

1. Maj Gen GC Agarwal (IC-5883 Y) ENGRS, 31 Jan 88 (AN).
2. Brig Jagjit Singh (IC-6601 F) AVSM**, VSM, ARTY, 31 Jan 88 (AN).
3. Brig Devinder Singh (IC-8554 N) AOC, 31 Jan 88 (AN).
4. Col/(A/Brig) K N Acharya (IC-12269 M) ASC, 31 Jan 88 (AN).
5. Lt Gen Depinder Singh (IC-5169 Y) PVSM, VSM, INF, 29 Feb 88 (AN).
6. Maj Gen B P Murgai (IC-6127 Y) VSM, SIGS, 29 Feb 88 (AN).
7. Maj Gen Y Pratap (IC-6197 X) SIGS, 29 Feb 88 (AN).
8. Maj Gen Devinder Singh (IC-6217 A) ASC, 29 Feb 88 (AN).
9. Maj Gen Sushil Nath (IC-6180 K) SIGS, 29 Feb 88 (AN).
10. Maj Gen J K Kapoor (IC-7219 X) EME, 29 Feb 88 (AN).
11. Brig S V Abhyankar (IC-7744 N) ENGRS, 29 Feb 88 (AN).
12. Brig M P G Menon (IC-21009 H) AVSM, JAG, 29 Feb 88 (AN).
13. Maj Gen B M Tewari (IC-6120 P) INF, 31 Mar 88 (AN).
14. Maj Gen K S Panu (IC-6213 K) MVC, INF, 31 Mar 88 (AN).
15. Brig JS Chandel (IC-6723 L) INF, 31 Mar 88 (AN).
16. Lt Gen S V Giri (IC-5827 A) AVSM, INF, 30 Apr 88 (AN).
17. Lt Gen S Mazumdar (IC-5821 Y) VSM, ENGRS, 31 May 88 (AN).
18. Lt Gen L M Rajgopal (IC-7191 H) AVSM, EME, 30 Jun 88 (AN).
19. Maj Gen R K R Balasubramanian (V-52 W) AVSM, RVC, 30 Jun 88 (AN).
20. Brig P N Kacker (IC-7041 N) SC, VSM, INF, 30 Jun 88 (AN).
21. Brig Jasjit Sen (IC-7029 L) SIGS, 30 Jun 88 (AN).

22. Brig (A/Maj Gen) R.S. Dhol (IC-7335 A) VSM, ARTY, 30 Jun 88 (AN).
23. Brig S G Rajopadhye (IC-7909 F) SIGS, 30 Jun 88 (AN).
24. Brig A S Sharma (IC-7941 W) ENGR, 30 Jun 88 (AN).
25. Brig K S Bajpai (IC-8628 X) AOC, 30 Jun 88 (AN).
26. Col (A/Brig) Karamjit Singh (IC-6405 Y) ENGRS, 30 Jun 88 (AN).
27. Lt Gen M Mayadas (IC-5102 A) PVSM, AC, 31 Jul 88 (AN).
28. Maj Gen G P Tripathi (IC-6157 W) INF, 31 Jul 88 (AN).
29. Maj Gen S S Shukul (IC-6218 H) AOC, 31 Jul 88 (AN).
30. Maj Gen Prem Prakash (IC-6423 K) EME, 31 Jul 88 (AN).
31. Maj Gen B S Dagar (IC-7350 P) VSM, INF, 31 Jul 88 (AN).
32. Brig Ratan Singh (IC-8133 L) ARTY, 31 Jul 88 (AN).
33. Brig A N Shastri (IC-8231 L) ENGRS, 31 Jul 88 (AN).
34. Brig R P Srivastava (IC-6679 M) EME, 31 Jul 88 (AN).
35. Brig L N Kapur (IC-7920 A) JAG DEPTT, 31 Jul 88 (AN).
36. Col (A/Brig) P S Sethee (IC-10616 F) ENGRS, 31 Jul 88 (AN).
37. Lt Col (A/Brig) G R S Siwach (IC-8145 A) INF, 31 Jul 88 (AN).
38. Brig (A/Maj Gen) D K Chawla (IC-7907 W) AEC, 31 Aug 88 (AN).
39. Brig I D Vasishtha (IC-7043 X) AVSM, INF, 31 Aug 88 (AN).
40. Brig V K Nair (IC-7073 P) INF, 31 Aug 88 (AN).
41. Brig V K Chawla (IC-7611 X) AVSM, ARTY, 31 Aug 88 (AN).
42. Brig S A Deshpande (IC-10625 H) EME, 31 Aug 88 (AN).
43. Brig B B Thapa (IC-10038 X) INF, 31 Aug 88 (AN).
44. Brig A C Banerjee (IC-5870 F) ARTY, 31 Aug 88 (AN).
45. Maj Gen Ram Nath (IC-6153 A) SM, ARTY, 30 Sep 88 (AN).
46. Brig Harjit Singh (IC-6799 L) ASC, 30 Sep 88 (AN).
47. Brig K B Malik (IC-7157 H) ARTY, 30 Sep 88 (AN).
48. Brig P J Thomas (IC-7395 P) ARTY, 30 Sep 88 (AN).
49. Brig T K Gupta (IC-7361 F) INF, 30 Sep 88 (AN).
50. Brig A D Chaubal (IC-7720 K) VSM, INF, 30 Sep 88 (AN).
51. Brig M P Gupta (IC-7461 M) INT CORPS, 30 Sep 88 (AN).
52. Lt Gen S L Mehrotra (IC-7218 P) SIGS, 31 Oct 88 (AN).
53. Maj Gen Y V Joshi (IC-7935 H) ENGRS, 31 Oct 88 (AN).
54. Maj Gen K S Pendse (IC-6413 A) EME, 31 Oct 88 (AN).
55. Brig G K Dogra (IC-7040 K) ENGRS, 31 Oct 88 (AN).
56. Brig P K Kaul (IC-7630 H) INF, 31 Oct 88 (AN).
57. Brig A A Wagh (IC-7636 K) ARTY, 31 Oct 88 (AN).
58. Lt Gen L S Rawat (IC-5346 W) AVSM, INF, 30 Nov 88 (AN).
59. Maj Gen N Sondhi (IC-6130 Y) AVSM, ARTY, 30 Nov 88 (AN).
60. Maj Gen H S Sodhi (IC-6187 N) ENGRS, 30 Nov 88 (AN).
61. Maj Gen J Verghese (IC-6181 M) VSM, AOC, 30 Nov 88 (AN).
62. Maj Gen N K Kandhari (IC-7691 A) ASC, 30 Nov 88 (AN).
63. Brig D S Sidhu (IC-7025 P) AVSM, VSM, INF, 30 Nov 88 (AN).
64. Brig S L Kapur (IC-7836 A) INF, 30 Nov 88 (AN).
65. Brig M M L Sehgal (IC-8186 K) ARTY, 30 Nov 88 (AN).
66. Maj Gen G K Sen (IC-6109 W) ENGRS, 31 Dec 88 (AN).
67. Maj Gen SP Gudati (IC-6454F) ARTY, 31 Dec 88 (AN).
68. Brig R K Singh (IC-7113 L) MVC, INF, 31 Dec 88 (AN).
69. Brig R K Verma (IC-7456 F) AVSM, ARTY, 31 Dec 88 (AN).
70. Brig V K Kapur (IC-7822A) ARTY, 31 Dec 88 (AN).
71. Brig S Jacob (IC-8151N) AOC, 31 Dec 88 (AN).

P. J. SAXENA,
Assistant Military Secretary/MS (X)

No. 889, dated 29th July 1991.—The President is pleased to retire the undermentioned officers on attaining the age of superannuation :—

TERRITORIAL ARMY COMMISSION

Lt Devidas Bajrao PATEL, TA-41780, Engrs, 31 Jan 91 AN.

Lt Mahendra Singh KHATTRI, TA-41787, Engrs, 31 Jan 91 AN.

Lt Niranjan Ramniklal BHOOPATKAR, TA-41804, Engrs, 27 Feb 91 AN.

Lt Dharam Pal KAPOOR, TA-41784, Engrs, 30 Jun 90 AN.

No. 890, dated 29th July 1991.—The President is pleased to remove the undermentioned officers from TA service :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL ARMY COMMISSION

LT COL. (TS) PANCHAM SINGH (TA-41150L) Infantry, 30th Jun 90 (AN).

CAPT K D MOTTAI (TA-41068) Infantry, 15 Nov 90 (FN).

J. C. SHARMA, Under Secy.
D(GS-VI)

(MILITARY ENGINEER SERVICE)

No. 891, dated 15th July 1991.—The undermentioned officer retired on superannuation from service with effect from the date indicated against his name:—

(a) MES-125013 Sh. D S Purandare, Sr Arch, 28 Feb 91 (AN).

ARMY BRANCH

No. 892, dated 15th July 1991.—The following officer retired on superannuation from service with effect from the date shown against his name:—

(a) MES-181376 Shri S S Joshi, CE, 30 Apr 91 (AN).

SMT. RITA CHATERJEE, Under Secretary

(MS BRANCH)

No. 893, dated 4th March 1991.—On attaining the age of superannuation i.e. 58 years on 7-2-91, Shri B K Gandhi, Stenographer Grade 'B', MS Branch retired from service w.e.f. 28-2-91 (AN) and transferred to Pension Establishment w.e.f. 1-3-91 (FN).

T. S. SIAL, Director (TS)

(AIR FORCE)

No. 894, dated 15th July 1991.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire voluntarily from the service with effect from dates shown against his/their names.

INDIAN AIR FORCE

1, 2 AE(L) Branch

3. Adm

1. Wg Cdr P Rathinam AE(L) (9690), 28-2-90 (AD).
2. Wg Cdr A K Jain AE(L) (9944), 31-3-90 (AD).
3. Wg Cdr A K Mishra Adm. (11689), 31-3-90 (AD).

No. 895, dated 15th July 1991.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire voluntarily from the service with effect from dates shown against his/their names.

Edn Branch

Wg Cdr E G Santhanam (8833), 31-10-90 (AD).

F(P) Branch

WG CDR ANSARI (11365), 14-9-90 (AD).
WG CDR N SRIVASTAVA (11034), 31-10-90 (AD).
GP CAPT T JAYARAMAN (9474), 30-6-90 (AD).

AE(L) Branch

GP CAPT S CHANDRAMOULI (6571), 30-4-90 (AD).
SQN LDR IJ SINGH (14129), 30-9-90 (AD).

ADM Branch

WG CDR KK KAPOOR (8738), 30-9-90 (AD).
WG CDR SN RATH (8680), 31-3-90 (AD).
WG CDR S BALAKRISHNAN (9189), 31-8-90 (AD).
WG CDR RP KHANNA (9193), 31-3-90 (AD).

F(P) Branch

WG CDR PR POTNIS (9544), 30-6-90 (AD).
WG CDR NS MALHI (9534), 30-6-90 (AD).
WG CDR GPS SIDHU (11375), 28-2-90 (AD).

F(N) Branch

WG CDR DV BHAGWAT (11274), 24-7-90 (AD).
WG CDR YP SINGH (9867), 31-3-90 (AD).
WG CDR SS PHANSE (9862), 30-6-90 (AD).

AE(L) Branch

SQN LDR BS LAMBA (14130), 31-8-90 (AD).
GP CAPT V. CHANDRASEKARAN (6850), 31-5-90 (AD).

WG CDR AK TANDON (7919), 28-2-90 (AD).

WG CDR KR KRISHNAMURTHY (6829), 28-2-90 (AD).

F(P) Branch

WG CDR A BHALLA (9730), 30-6-90 (AD).
GP CAPT BK DHIR (6862), 22-12-88 (FN).
WG CDR GS GILL (11426), 31-3-90 (AD).
WG CDR VK Joshi (8703), 31-3-90 (AD).
WG CDR AC Kelkar (11662), 16-3-90 (AD).
AIR CMDE AK Singh (6336), 30-6-90 (AD).

LGS Branch

WG CDR Y Mehta (7560), 31-7-90 (AD).
WG CDR V RATHAN (10022), 31-5-90 (AD).

AE(M) Branch

PLT OFFR P PUNJ (20234), 30-11-90 (FN).
WG CDR PK RAMAMURTHY (7320), 20-3-90 (AD).

F(P) Branch

WG CDR NS MANGAT (10129), 30-11-90 (AD).
GP CAPT AC CHOPRA (7604), 10-7-90 (AD).
WG CDR SK BHAUMICK (11606), 15-6-90 (AD).

V BALAGOPALAN, Sqn Ldr
ADP 03 (F)
For ADP

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1991

